

# कीर्तिलता और अवहट्ट भाषा

4601/9

809-H  
420

135830

शिवप्रसाद सिंह



साहित्य भवन लिमिटेड

इलाहाबाद

प्रथम संस्करण : सन् १९५५ ईस्वी

१०९-४  
५२०

पाँच रुपया

135830

मुद्रक : रामभासरे कककड़, हिन्दी साहित्य प्रेस, इलाहाबाद

गुरुवर  
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को  
प्रणति पूर्वक

## निवेदन

यह पुस्तक एम० ए० परीक्षा के एक प्रश्न पत्र के स्थान पर लिखे गए निबन्ध का प्रकाशित रूप है जिसे मैंने १९५३ में प्रस्तुत किया। आरम्भ में मेरे निबन्ध का विषय 'कीर्तिलता की भाषा का अध्ययन' था। मैंने इस विषय के सम्बन्ध में श्रद्धेय डा० बाबूराम सक्सेना जी से परामर्श किया। उन्होंने अपने २६ अगस्त १९५१ के पत्र में लिखा कि अवहट्ट और अपभ्रंश में यदि अन्तर स्पष्ट हो सके तो बहुत काम निकल सकता है। इस परामर्श के अनुसार मैंने अवहट्ट भाषा के स्वरूप का निर्धारण भी इस निबन्ध का उद्देश्य मान लिया। फलतः १९५३ में यह थीसिस 'अवहट्ट भाषा का स्वरूप और कीर्तिलता का भाषा शास्त्रीय अध्ययन' के रूप में उपस्थित की गई। बाद में गुरुवर आचार्य हजारी प्रसाद जी द्विवेदी ने इस निबन्ध को कीर्तिलता के सशोधित पाठ के साथ प्रकाशित कराने का आदेश दिया। कीर्तिलता का पाठ-शोध एक कठिन कार्य था; परन्तु मैंने इसे प्रसन्नता से स्वीकार किया क्योंकि भाषा विषयक अध्ययन के सिलसिले में मैंने प्रायः प्रत्येक शब्द पर एकाधिक बार विचार किया था; साथ ही इस पुस्तक के अधिकांश शब्दों की अनुक्रमणी भी प्रस्तुत हो गई थी। इस प्रकार यह पुस्तक अवहट्ट और कीर्तिलता की भाषा के साथ मूल शोधित पाठ एवं विस्तृत शब्द सूची के साथ इस रूप में प्रकाशित की गई।

अवहट्ट भाषा के बारे में यह पहला विस्तृत अध्ययन है, इसलिए इसमें त्रुटियाँ हो सकती हैं और मेरे व्यक्त मतों के साथ मतभेद भी संभव है; किन्तु अपभ्रंश और अवहट्ट के बीच का अन्तर स्पष्ट करने के लिए मैंने जो सामग्री उपस्थित की है, वह अवश्यमेव विचारणीय है। परवर्ती अपभ्रंश में हिन्दी भाषा की-आरम्भिक अवस्था के रूपों का अन्वेषण का प्रयत्न इसी सामग्री पर आधारित है। इसका संक्षिप्त-सा रूप 'अवहट्ट की मुख्य विशेषताएँ' शीर्षक से नागरी प्रचारिणी पत्रिका (वर्ष ५८ अंक ४ सम्बत् २०११) अप्रैल १९५४ में प्रकाशित हुआ। तिथि क्रम की ओर सकेत इसलिए करना पड़ता है कि अन्यत्र सादृश्य सूचक अपहृत सामग्री को देखकर पाठक उलझन में न पड़े।

कीर्तिलता भाषा की दृष्टि से अत्यन्त महत्व की वस्तु है। मध्यकाल की कोई भी रचना इतने पुराने और अत्यन्त विकासशील भाषा के तत्वों को इतने



विविध रूपों में सुरक्षित नहीं रख सकी है। कीर्तिलता की भाषा के विश्लेषण के साथ पुरानी हिन्दी का सारतम्य और सम्बन्ध दिखाने का भी प्रयत्न किया गया है।

संशोधित पाठ को यथा समव वैज्ञानिक ढंग से सम्पादित किया गया है। लेखक इसके लिए महामहोपाध्याय प० हर प्रसाद शास्त्री और डा० बाबूराम सक्सेना का आभार है जिनके संस्करणों से इस दिशा में पर्याप्त सहायता मिली। डा० सक्सेना के प्रति लेखक विशेष रूप से कृतज्ञ है जिनके पयःमृत्यु कार्य के बिना इस नये संस्करण का निर्माण संभव न था। प्रस्तुत संस्करण में मूल रचना का हिन्दी भाषान्तर भी दे दिया गया है, उस भाषान्तर को यथा समव त्रुटिहीन और पूर्ण बनाने का प्रयत्न किया गया है। अप्रचलित और पुराने शब्दों के अर्थ निर्धारण में कहीं कहीं अनुमान से काम लेना पड़ा है अन्यथा अधिकांश शब्दों का साधार और प्रमाणयुक्त अर्थ देना ही उद्देश्य रहा है। अन्त में कीर्तिलता शब्दों की एक वृद्ध सूची भी जोड़ दी गई है, जिसमें शब्दार्थ के साथ व्युत्पत्ति की ओर भी संकेत कर दिया गया है।

गुरुवर पंडित करुणापति त्रिपाठी ने अप्रकाशित पाण्डुलिपि को आद्यन्त पढ़कर कई बहुमूल्य सुझाव दिए, लेखक उनके प्रति अपनी विनम्र कृतज्ञता ज्ञापित करता है। आचार्य द्विवेदी जी ने इस निबन्ध के लिए विषय तय किया, निर्देश किया, और पढ़ा-बताया, पाठ के एक-एक शब्द को उन्होंने देखा-सुना, आँख में दर्द रहने पर भी उन्होंने जिम उत्साह से यह सब कुछ किया वह उनके स्नेह-वात्सल्य का परिचायक है, इसे कृतज्ञता प्रकट करके आँकने की धृष्टता मैं नहीं कर सकता। मैं उन सभी विद्वानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ जिनकी रचनाओं से लेखक को किसी प्रकार की भी सहायता मिली। सुधी पाठकों से निवेदन है कि इस पुस्तक में यत्र-तत्र प्राप्त छापे की अशुद्धियों को सुधार लें, आगामी संस्करण में उन्हें अवश्य ठीक कर दिया जायेगा। अन्त में भाई नर्मदेश्वर चतुर्वेदी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अत्यन्त उत्साह और दायित्वपूर्वक इस पुस्तक को प्रकाशित किया।

हिन्दी विभागा  
विश्व विद्यालय, काशी  
रक्षा काल, १९४६

शिव प्रसाद सिंह—

## भूमिका

प्रस्तुत पुस्तक को शिवप्रसाद जी ने एम० ए० (१९५३) के एक प्रश्नपत्र के स्थान पर निबंध के रूप में लिखा था। आरंभ में 'अवहट्ट भाषा का स्वरूप और कीर्तिलता का भाषा शास्त्रीय विवेचन' इस निबंध का वक्तव्य विषय था। बाद में कीर्तिलता के मूल पाठ को भी, नये रूप में संशोधन करके, इसमें जोड़ दिया गया। इस प्रकार यह पुस्तक अवहट्ट कही जाने वाली भाषा के स्वरूप तथा कीर्तिलता की भाषा के विस्तृत विवेचन के साथ ही साथ कीर्तिलता के पाठ का संशोधित रूप भी प्रस्तुत करती है। यद्यपि यह लेखक की एतद्विषयक आरंभिक रचना ही है, तथापि इससे उनकी विवेचना-शक्ति का बहुत अच्छा परिचय मिलता है। कई स्थानों पर उन्होंने पूर्ववर्ती मतों का युक्ति पूर्वक निरास भी किया है। यद्यपि उनके मत से कही कही पूर्णतः सहमत होना कठिन होता है तथापि उनकी सूक्ष्म, प्रतिभा और साहस का जैसा परिचय इस पुस्तक से मिलता है, वह निश्चित रूप से उनके उज्ज्वल भविष्य का सूचक है।

कई दृष्टियों से कीर्तिलता अत्यन्त महत्वपूर्ण रचना है। भाषा की दृष्टि से इसका महत्व तो बहुत पहले ही स्वीकृत हो चुका है। इसमें अवहट्ट (अवहट्टु) या अग्रसरीभूत अग्रभ्रंश भाषा का नमूना प्राप्त होता है और प्राचीन मैथिल अपभ्रंश के चिह्न भी मिलते हैं। छन्द, काव्य-रूप तथा गद्य आदि की तत्कालीन स्थिति पर भी इस पुस्तक से बहुत प्रकाश पड़ता है। इसके काव्य-रूप के महत्व का थोड़ा विचार मैंने अपनी पुस्तक 'हिन्दी साहित्य' में किया है। यहाँ उन बातों को दुहराने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु इस पुस्तक में प्रयुक्त संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के सम्बन्ध में कुछ नये सिरे से कहने में कोई हानि नहीं है। शिवप्रसाद जी ने पुस्तक में प्रयुक्त अग्रभ्रंश (या अवहट्टु) के सम्बन्ध में पर्याप्त विचार किया है। परवर्ती अपभ्रंश में प्रारंभिक हिन्दी के भाषा तत्वों को ढूढ़ने का उनका प्रयत्न सराहनीय है। किन्तु अवहट्टु भाषा के इस महत्वपूर्ण रूप पर विचार करने के साथ ही इस पुस्तक में प्रयुक्त संस्कृत पदावली और उसके रूप को भी ध्यान में रखना चाहिए। कीर्तिलता में प्रयुक्त गद्य, उसकी संस्कृत बहुत पदावली और संस्कृत पदावली के बीच आए प्राकृत-प्रभावापन्न संस्कृत शब्द भी भाषा-विकास के अभ्येताओं के लिए मनोरंजक और उपादेय हैं। इस पुस्तक में प्रयुक्त गद्य सभ्यतः इस बात की सूचना देते हैं कि चौदहवीं शताब्दि में पद्य की भाषा में तो तद्भव शब्दों का प्रयोग होता था किन्तु बोल चाल की भाषा में संस्कृत तत्सम शब्दों का प्रयोग बढ़ने लगा था। भारतीय साहित्य में—विशेषकर

काव्य में—प्रयुक्त भाषा बराबर थोड़ा-बहुत पुरानापन लिए होती है। अपभ्रंश के कवि बिना किसी भिन्नक के प्राकृत पदों और क्रिया रूपों का व्यवहार कर देते हैं और परवर्ती काल में विकसित वर्तमान आर्य भाषाओं के कवि भी अपभ्रंश-प्राकृत और कभी कभी संस्कृत का भी प्रयोग कर दिया करते हैं। तुलसीदास जी 'रोदति वदति बहुभाँति' जैसे प्रयोग अनायास कर जाते हैं। इस प्रकार के प्रयोगों को देखकर यदि कोई कहे कि तुलसीदास जी के युग में 'रोदति' 'वदति' जैसी क्रियाओं का प्रयोग होता था तो यह अनुमान ठीक नहीं होगा। वस्तुतः काव्य की भाषा में कुछ प्राचीनता लिए हुए प्रयोग सदा होते रहते हैं। बहुत हाल में खड़ी बोली के 'असिधारा व्रत' के समर्थक कवियों ने इस चिराचरित प्रथा से बचना चाहा है; पर सब समय बच नहीं सके हैं। विद्यापति की कीर्तिलता की भाषा में भी कभी कभी पुरानी प्राकृतों के प्रयोग मिल जाते हैं। उन सबको तत्कालीन व्यवहार की भाषा के प्रयोग नहीं समझना चाहिए। विद्यापति द्वारा प्रयुक्त पद्य-भाषा में प्राकृत के पुराने पदों के साथ ऐसे पदों और क्रिया रूपों का प्रचुर प्रयोग हुआ है जो तत्काल व्यवहृत भाषा में प्रचलित थे; परन्तु गद्य में संस्कृत पदावली के प्रयोग से अनुमान किया जा सकता है कि उस काल की बोलचाल की भाषा में संस्कृत तत्सम शब्दों का प्रयोग होने लगा था।

कीर्तिलता संस्कृत की कथा या आरव्यायिका काव्यों की पद्धति पर लिखी गई है। अपभ्रंश काव्यों में कथा को उसी श्रेणी का अलंकृत काव्य माना गया है जिस श्रेणी की रचनाएँ संस्कृत में मिलती हैं। पुष्पदन्त कवि के नागचरित में एक स्थान पर एक अलंकार-हीना रानी की उपमा कुकविकृत कथा से दी गई है जो यह सूचित करता है कि अपभ्रंश कवियों की कथा में अलंकार और रस देने की रुचि थी। विद्यापति ने भी कीर्तिलता की भाषा को अलंकृत करने का प्रयत्न किया है। दामोदर भट्ट की पुस्तक 'उक्ति-व्यक्ति प्रकरण' से पता चलता है कि उन दिनों कहानियों में गद्य का भी प्रयोग होता था। संभवतः संस्कृत के चम्पू काव्यों के ढंग की ये रचनाएँ हुआ करती थीं। रुद्रट के सामने जो संस्कृतेतर भाषाओं की कथाएँ थीं, उनमें भी कहीं गद्य का प्रयोग होता था। अपभ्रंश के चरित काव्यों में तो इस प्रकार के गद्य का लोप ही हो गया किन्तु जैसा कि ऊपर इंगित किया गया है विद्यापति की कीर्तिलता की भाषा में गद्य का प्रचुर प्रयोग हुआ है। यह ठीक है कि संस्कृत के कथा, आरव्यायिका, और चम्पू श्रेणी के काव्यों के आदर्श पर विद्यापति ने गद्यों में प्रयुक्त संस्कृत बहुल पदावली को सरस और अलंकृत करने का प्रयत्न किया है और इसीलिए साधारण जनता के बीच

प्रचलित शब्दराशि से यह थोड़ी भिन्न है तथापि इस गद्य से इतना अवश्य सूचित होता है कि तद्भव शब्दों का प्रयोग पद्य में होता था और बोल चाल के गद्य में तत्सम शब्द ही चलते थे ।

इस संस्कृत पदावली को कई विशेषताएँ हैं । प्रथम तो यह कि यद्यपि यह पदावली संस्कृत की है और लम्बे लम्बे समास संस्कृत के नियमों के अनुसार ही रचित हुए हैं फिर भी यह भाषा संस्कृत नहीं है । इसमें तद्भव और 'अर्द्ध'-तत्सम शब्द प्रचुर मात्रा में हैं । क्रिया पद तत्काल प्रचलित मैथिली भाषा के हैं । विभक्तियों और परसर्गों की भी यही कहानी है । वाक्यों या वाक्यांशों के अन्तिम पदों में तुक मिलाने का प्रयास है । सर्वनाम पद संस्कृत के न होकर मैथिल या अपभ्रंश के हैं ।

संस्कृत की समस्त पदावली के बीच ऐसे शब्द प्रचुर मात्रा में मिल जाते हैं जो प्राकृत प्रभावापन्न हैं । खुर, फेण, सरे, कित्तिम, तारुन्न, परमुराम, चन्द्र चूड़, गेह, कवितुः, संयद्, जाती आदि शब्द समस्त पदावली के बीच आए हैं । इसमें तो सन्देह नहीं कि कीर्तिलता के जो हस्तलेख प्राप्त हुए हैं वे बहुत दोषपूर्ण हैं । इनमें प्रयुक्त अनेक शब्द लेखकों की असावधानी के कारण आ गए होंगे, यह सभव है । परन्तु ऐसे शब्दों की संख्या काफी अधिक है और ऐसा जान पड़ता है कि विद्यापति इन्हें बोलचाल के शब्द ही समझ कर लिख रहे हैं, संस्कृत शब्द नहीं ।

संस्कृत के विशाल साहित्य में ऐसे सैकड़ों शब्द हैं जो प्राकृतों के प्रभाव के निदर्शन रूप में प्राप्त हैं । स्वयं पाणिनि और कात्यायन ने कितने ही ऐसे शब्दों को शुद्ध और टकसाली मान लेने की व्यवस्था दी है जो संस्कृत के नियमों से सिद्ध नहीं होते । रामायण, महाभारत तथा पुराणों में ऐसे शब्द बहुत अधिक हैं जिनमें मुख-सुख या उच्चारण-सौविध्य के उन सभी नियमों का प्रयोग हुआ है जो प्राकृत की विशेषता कहे जाते हैं । उदाहरणार्थ 'न' का 'ण' हो जाना या 'श' का 'स' हो जाना प्राकृत की विशेषता है । परन्तु आपस्तबश्रौत-सूत्र जैसे प्राचीन ग्रन्थ में नाम के स्थान पर 'णाम' (१०-१४-१) और अनूक के स्थान पर 'अणूक' जैसे प्रयोग मिल जाते हैं । लौकिक संस्कृत में मानव के साथ 'क' प्रत्यय के योजन से ही 'माणवक' बना होगा, ऐसा भाषा शास्त्रियों का कथन है 'पियाल' शब्द को कालिदास ने मुलायम करके 'पियाल' उसी प्रकार बना दिया है जैसा कीर्तिलता के कवि ने प्रेम को 'पेम' बना दिया है । इस प्रकार संस्कृत के विपुल साहित्य में प्राकृत प्रभावापन्न शब्दों की संख्या बहुत अधिक है

परवर्ती काल में प्राकृत के शब्दों के प्रयोग से अनुप्रास-यमक आदि ले आने का प्रयास भी किया गया है और कोमलता लाने का प्रयत्न भी हुआ है। कभी ऐसे ही शब्दों को ग्राम्य बताकर अलंकार शास्त्र के आचार्यों ने कवियों की खबर भी ली है। संस्कृत 'गण्ड' से गल्ल बनता है और 'भद्र' से 'भल्ल'। किसी कवि ने 'ताम्बूलभृतगल्लोऽय भल्लो जल्पति मनुष्यः' में इन दो शब्दों के प्रयोग से अनुप्रास लाने का प्रयत्न किया है पर मम्मट भट्ट ने इसे ग्राम्य प्रयोग कहकर अनुचित बताया है। जयदेव की मधुर पदावली में अनेक प्राकृत शब्द अनायास ही आ गए हैं। 'मेघमैदुरमम्बर' में मेदुर 'मृदु + र' का प्राकृत रूप ही है। इस तरह संस्कृत पदावली के बीच में प्राकृत शब्दों का प्रयोग कोई नई बात नहीं है। विद्यापति की कीर्तिलता में भी इसी प्रकार भाषा को कोमल बनाने के लिए संस्कृत की समस्त पदावली के अन्दर प्राकृत शब्दों का प्रयोग किया गया है। फिर भी इन शब्दों के प्रचुर प्रयोगों को देखते हुए ऐसा जान पड़ता है कि विद्यापति संस्कृत शब्दों के तत्काल-उच्चरित रूपों का प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार के ईषद् धिसे हुए तत्सम शब्दों के प्रयोग 'उक्ति व्यक्ति प्रकरण' में भी मिल जाते हैं। जो सूचित करते हैं कि बोलचाल में संस्कृत तत्सम शब्दों का प्रयोग विद्यापति से दो तीन सौ वर्ष पहले से ही होने लगे थे। इसी प्रकार ईकार का इकार, ऊकार का उकार और इनकी उलटी प्रक्रियाएँ भी लौकिक संस्कृत में प्राप्त हो जाती हैं। उदाहरण बढ़ाने से इस भूमिका का कलेवर अनावश्यक रूप से बढ़ जायगा। कीर्तिलता के संस्कृत तत्सम और अर्द्धतत्सम रूप भाषा प्रेमियों के लिये अत्यन्त मनोरंजक और महत्वपूर्ण हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है।

लेखक ने भाषा सम्बन्धी विवेचना के साथ पाठ-शोध का जो महत्वपूर्ण कार्य किया है वह भाषा और साहित्य की कई उलभी हुई गुलियों को सुलभाने में सहायक होगा, ऐसा विश्वास है। शब्दार्थ और विस्तृत शब्द सूची देकर संपादक ने पुस्तक का महत्व बढ़ा दिया है। इन बातों से पुस्तक साहित्य और भाषा के शिद्धारथियों के लिये अधिक उपयोगी हो गई है।

शिवप्रसाद जी के इस परिश्रम पूर्वक लिखी हुई पहली विवेचना और निष्ठा पूर्वक सम्पादित प्रथम पुस्तक को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है परमात्मा से मेरी हार्दिक प्रार्थना है कि उन्हें अधिक शक्ति और सामर्थ्य दें ताकि वे निरन्तर साहित्य की सेवा करके उसे समृद्ध बनाते रहें।

## विषय-सूची

### प्रथम खण्ड

( अवहट्ट का स्वरूप और कीर्तिलता का भाषाशास्त्रीय अध्ययन )

१—अवहट्ट भाषा का स्वरूप : १-२४

अवहट्ट क्या है—अवहट्ट और परवर्ती अपभ्रंश—अवहट्ट मिथिला-  
पभ्रंश नहीं है—अवहट्ट और पिंगल—अवहट्ट और प्रान्तीय भाषाएँ—  
अवहट्ट और पुरानी हिन्दी—अवहट्ट की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ।

२—अवहट्ट का काल निर्णय : २५-३१

हेम व्याकरण के अन्तःमाद्य पर—उक्ति व्यक्ति प्रकरण और लोक  
अपभ्रंश—मुग्धबोध औक्तिक और अवहट्ट की अन्तिम सीमा

३—अवहट्ट और देसिलवन्नन : ३२-३८

अपभ्रंश और देशी का विवाद,—देशी शब्द—देशी भाषा

४—अवहट्ट की रचनाएँ : ३९-४८

अपभ्रंश के देश-भेद—विद्यापति की फुटकल अवहट्ट-रचनाएँ—  
चर्यागीत—गुर्जर काव्य संग्रह की रचनाएँ—रणमल्लच्छन्द—अवहट्ट का  
का गद्य—उक्ति व्यक्ति प्रकरण—वर्णरत्नाकर—आराधना—पृथ्वी  
चरित्र—अतिचार—सर्वतीर्थनमस्कारस्तवन—अवहट्ट गद्य की  
विशेषताएँ ।

५—अवहट्ट की मुख्य विशेषताएँ और उसका हिन्दी पर प्रभाव : ४९-७५

अवहट्ट और हिन्दी—ध्वनि सम्बन्धी विशेषताएँ—पूर्व स्वर पर  
स्वराघात—क्षतिपूरक दीर्घीकरण की सरलता—अकारण सानुना-  
सिकता—सयुक्त स्वर—स्वर संकोचन ( Vowel Contraction )  
अकारण व्यजन द्वित्व—रूप विचार—निर्विभक्तिक प्रयोग—चन्द्र  
विन्दु का कारक विभक्ति के रूप में प्रयोग—परसर्ग—सर्वनाम—  
क्रिया भूतकृदन्त को सामान्य वर्तमान के रूप में प्रयोग—दुहरी पूर्व-  
कालिका क्रियाएँ—संयुक्त क्रिया—सहायक क्रिया—वाक्य विन्यास—  
शब्द समूह

६—कीर्तिलता की भाषा : ७६-१२८

अनुलोखन पद्धति—ध्वनि विचार—संयुक्त स्वर—सप्रयुक्त स्वर—  
सानुनासिकता—अकारण सानुनासिकता—व्यजन—रूप-विचार—  
संज्ञा—लिंग—वचन—कारक—विभक्तिलोप—परसर्ग—सर्वनाम—  
विशेषण—क्रिया—‘ल’ प्रत्यय—कृदन्तज वर्तमान—अपूर्ण कृदन्त—  
प्रेरणार्थक क्रिया—क्रियार्थक संज्ञा—संयुक्तक्रिया—क्रिया विशेषण  
अव्यय—समास—वाक्य विन्यास—शब्द कोश

### द्वितीय खण्ड

१—कीर्तिलता का मूल पाठ और प्रस्तुत संस्करण की विशेषताएँ १-१०  
विभिन्न प्रतियाँ—छन्दों की दृष्टि से पाठशोध—भाषा और अर्थ की  
दृष्टि से पाठ-शोध

२—कीर्तिलता के आधार पर विद्यापति का समय १०-१७  
लक्ष्मणसेन सम्बत्—तिथिकाल निर्धारण—डा० सुभद्र झा की स्थाप-  
नाएँ—लखनसेनि का हरि चरित्र विराट पर्व और विद्यापति ।

३—कीर्तिलता का साहित्यिक मूल्यांकन १८-२८  
कीर्तिलता का महत्व—काव्य रूप—कथा और कहाणी—चित्रण की  
यथार्थता—कविकर्म और विद्यापति की शक्ति ।

४—कीर्तिलता मूल २९-६५

५—हिन्दी भाषान्तर—६६-८८

६—शब्द-सूची ८९

७—सहायक साहित्य ११६-१८

## प्रथम खण्ड

अवहट भाषा का स्वरूप और कीर्तिलता का भाषाशास्त्रीय अध्ययन



## अवहट्ट भाषा का स्वरूप

### अवहट्ट क्या है

भाषा-शास्त्रियों के बीच अवहट्ट काफी विवाद का विषय रहा है। भिन्न-भिन्न विद्वानों ने कभी इसे मैथिल अपभ्रंश कभी संक्रान्तिकालीन भाषा और कभी पिंगल आदि नाम दिये हैं। यह विचारणीय है कि अवहट्ट शब्द क्या है और इसका प्रयोग अब तक के उपलब्ध साहित्य में किस-किस रूप में हुआ है।

१. अवहट्ट का सबसे पहला प्रयोग ज्योतिरीश्वर ठाकुर के वर्णरत्नाकर ( १३२५ ई० ) में मिलता है। राजसभाओं में भाट जिन छः भाषाओं का वर्णन करता है उसमें एक अवहट्ट भी है :

पुत्रु कहसन भाट, संस्कृत, पराकृत, अवहट्ट, पैशाची, शौरसेनी  
- मागधी, छट्टु भाषाक तत्त्वज्ञ, शकारी आभिरी चांडाली,  
सावली द्राविली, औतकली, विजातिया, सातहु,  
उपभाषाक कुशलह । वर्णरत्नाकर २५ ख ।

२. दूसरा प्रयोग विद्यापति की कीर्तिलता में हुआ है। अपनी भाषा के बारे में विचार व्यक्त करते हुए कवि कहता है :

सक्य वाणी वुहअन भावइ  
पाउंअ रस को मम्म न पावइ  
देसिल वअना सब जन मिट्टा  
तं तैसन जम्पओ अवहट्टा

कीर्तिलता १।१६-२२

३ तीसरा प्रयोग प्राकृत-पिंगलम् के टीकाकार वंशीधर ने किया है उनकी राय से प्राकृत पिंगलम् की भाषा अवहट्ट ही है।

पढमं भास तरंडो  
णाओ सो पिंगलो जअइ (१ गाहा)

टीका : प्रथमो भाषातरंडः प्रथम आद्यः भाषा अवहट्ट भाषा  
यय भाषया अयं ग्रंथो रचितः सा अवहट्ट भाषा  
तस्या इत्यर्थः त...प्य पारंप्राप्नोति तथा पिंगल

प्रणीत छन्दः शास्त्रं प्राथयावहट्ट भाषारचितैः तद्ग्रन्थ  
पारंप्राप्नोतीति भावः सो विंगल यात्रो जअइ उक्कर्षेण वर्तते ।

प्राकृत पैंग्लंम् पृ० ३ ।

४ चौथा प्रयोग सदेशरासक के रचयिता अहमाण ने किया है ।

अवहट्टय सक्कय पाइयंमि पेसाइयंमि भाषाए  
लक्खणछन्दाहरणे सुकइतं भूसियं जेहि

सन्देशरासक, ६

इन चारों प्रयोगों पर विचार करने से पता चलता है कि अवहट्ट का प्रयोग सब जगह अपभ्रंश के लिए ही किया गया है । षट्भाषा प्रसंग में सर्वत्र संस्कृत प्राकृत के पश्चात् अपभ्रंश का ही नाम लिया जाता है । षट्भाषा का रूढ़ प्रयोग हमारे साहित्य में कई जगह हुआ है । लोष्टदेव कवि की प्रशंसा में मरव कहता है कि छः भाषाएँ उसके मुख में सदैव निवास करती हैं ।<sup>१</sup> जयानक सोमेश्वर के पुत्र पृथ्वीराज की बड़ाई करता है और कहता है कि छः भाषाओं में उसकी शक्ति थी ।<sup>२</sup> ये छः भाषाएँ कौन थीं । मरव के श्रीकंठ चरित की टीका से पता चलता है कि छः भाषाओं में संस्कृत, प्राकृत, शौरसेनी, अपभ्रंश, मागधी, पेशाची और देशी की गणना होती थीः

संस्कृतं प्राकृतं चैव शूरसेनी तदुद्भवा

ततोपि भागधी प्राग्वत् पेशाची देशनाऽपि च

नवीं शती के संस्कृत आचार्य रुद्रट ने काव्यालकार में छः भाषाओं के प्रसंग में अपभ्रंश को भी स्थान दिया है ।

प्राकृत संस्कृत मागध पिशाचभाषाश्च शौरसैनी च

षट्पेत्र भूरिभेदो देशविशेषादपभ्रंशः ।

काव्यालंकार २।१

ऊपर के श्लोक की छः भाषाएँ ज्योतिरीश्वर के वर्णरत्नाकर के उदाहरण से पूर्णतया मेल खाती हैं । इन प्रसंगों से स्पष्ट मालूम होता है कि अपभ्रंश को ही ज्योतिरीश्वर ने अवहट्ट कहा है ।

१. मुखे यस्य भाषाः षडंघिशेरते (श्रीकंठ चरित : अन्तिमसर्ग)

२. वात्येऽपि लीला जिततारकाणि गीर्वाणवाहिन्युपकार काणि

ज्यैन्ति सोमेश्वर नन्दस्य षण्णां गिरां शक्तिमतो यशांसि

पृथ्वी राज विजय ( प्र० स० )

विद्यापति और अद्दहमाण ने संस्कृत प्राकृत और अवहट्ट इन तीन भाषाओं की चर्चा की है। यह भाषात्रयी भी काफी प्रसिद्ध है। संस्कृत प्राकृत के साथ अपभ्रंश की तीन भाषाओं में गणना बहुत लोगों ने की है।

भाषा के विकास क्रम में संस्कृत और प्राकृत के पश्चात् अपभ्रंश की गणना होती ही है। भामह, दंडी आदि आलंकारिकों द्वारा प्रयुक्त भाषात्रयी में अपभ्रंश को सदा तीसरा स्थान दिया गया है। बलभी नरेश धारसेन के ताम्रपात्र में भी तीन भाषाओं के क्रम में तीसरा स्थान ही अपभ्रंश का है। इस प्रकार की भाषात्रयी के प्रसंग में संस्कृत प्राकृत के नामों के बाद अपभ्रंश का क्रम रूढ़ मालूम होता है। अतः विद्यापति की चोपाई और अद्दहमाण की गाथा का अवहट्ट शब्द भी इसी भाषात्रयी के क्रम को देखते हुए, अपभ्रंश के लिए ही व्यवहृत मालूम पड़ता है।

इस तरह यह स्पष्ट हो जाता है अवहट्ट शब्द का प्रयोग अपभ्रंश के अर्थ में ही हुआ है। अवहट्ट शब्द की तरह अपभ्रंश के द्योतक कुछ और शब्दों का भी सन्धान मिलता है। अवम्भम, अवहंस, अवहत्थ आदि शब्दों के प्रयोग प्राचीन लेखकों की रचनाओं में मिलते हैं। अवहंस शब्द का प्रयोग प्राकृत भाषा के एक कवि ने किया है। अपभ्रंश काव्यत्रयी की भूमिका में श्री एल० वी० गॉधी ने आठवीं शताब्दी के उद्योतनसूरि की 'कुवलयमाला कहा' का एक उद्धरण दिया है, जिसमें अवहंस शब्द का प्रयोग हुआ है। अपभ्रंश की प्रशंसा करते हुए कवि ने कहा है कि अपभ्रंश शुद्ध हो या कि संस्कृत-प्राकृत मिश्रित हो, वह पहाड़ी कुल्या की तरह अप्रतिहतगति है तथा प्रणय कुपित प्रियतमा के संलाप की तरह मनोहर है।<sup>१</sup> इसी शब्द का प्रयोग कहीं अवम्भस के रूप में भी होता था।<sup>२</sup> अपभ्रंश के दो सर्वश्रेष्ठ कवियों ने इसी अर्थ में अपभ्रंश शब्द के लिए अवहंस और अवहत्थ का प्रयोग किया है। पुष्पदन्त कवि संस्कृत और प्राकृत के बाद 'अवहंस' का नाम लेते हैं।<sup>३</sup> प्रसिद्ध कलिकाल सर्वज्ञ कवि स्वयम्भू ने अपनी रामायण में अवहत्थ शब्द का प्रयोग किया है।<sup>४</sup>

१. ता कि अवहंसं होइ ? तं सक्कय पय उभय सुद्धासुद्ध पय सम तरंगं रंगत वगिरं, पणय कुविय पियमाणिनि समुल्लाव सरिसं मयोहरम् ।

२. किं चि अवम्भंस कथा दा ।

( अरुद्धेड मास्टर द्वारा B. S. O. A. S. भाग १३-२ में उद्धृत )

३. सक्कय पायउ पुणु अवहंसउ, ( महापुराण, सन्धि ५ कद्वक १८ )

४. अवहत्थे वि खलु यणु गिरवसेसु रामायण १-४, हिन्दी काव्य धारा

अब हम यदि इन शब्दों के प्रयोगों के कालक्रम पर विचार करें तो एक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आता है। संस्कृत के आलंकारिकों ने अपभ्रंश भाषा के लिए सर्वत्र 'अपभ्रंश' शब्द का प्रयोग किया या यह कि उनके द्वारा रखा हुआ यह नाम ही इस भाषा के लिए रूढ़ हो गया। किन्तु प्राकृत के कवियों ने इसे अवहस कहा। अपभ्रंश के कवियों पुष्पदत्त आदि ने भी इसे अवहस ही कहा। 'अवहट्ट' कहा अद्दहमाण ने, प्राकृत पैगलम के टीकाकार वंशीधर ने, विद्यापति और ज्योतिरीश्वर ने। इस आधार पर विचार करने से लगता है कि 'अवहट्ट' शब्द का प्रयोग केवल परवर्ती अपभ्रंश के कवियों ने किया। क्या इस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि परवर्ती अपभ्रंश के इन लेखकों ने इस शब्द का प्रयोग जान-बूझ कर किया। अपभ्रंश या अवहस या बहु प्रचलित 'देसी' शब्द का भी प्रयोग कर सकते थे; परन्तु उन्होंने वैसा नहीं किया। इससे सहज अनुमान किया जा सकता है कि अवहट्ट शब्द पीछे का है और इसका प्रयोग परवर्ती अपभ्रंश के कवियों ने पूर्ववर्ती अपभ्रंश की तुलना में थोड़ी परिवर्तित भाषा के लिये किया। वंशीधर ने तो संस्कृत की टीका में सर्वत्र 'अवहट्ट' ही लिखा, जबकि संस्कृत में अपभ्रंश या अपभ्रष्ट का प्रयोग ही प्रायः होता था।

कहना चाहें तो कह सकते हैं कि यह प्रयोग जानकर हुआ और 'अपभ्रष्ट' की भी भ्रष्टता (भाषाशास्त्र की शब्दावली में विकास) दिखाने के लिए किया गया यानी इस शब्द के मूल में परिनिष्ठित अपभ्रंश के और भी अधिक विकसित होने की भावना थी।

### अवहट्ट और परवर्ती अपभ्रंश

'अवहट्ट' नाम परवर्ती अपभ्रंश के कवियों की इच्छा से रखा गया हो या जिस भी किसी कारण से इसका प्रयोग हुआ हो, इसको शब्दगत शक्ति इसे अपभ्रंश से भिन्न बताने में असमर्थ है। यह वस्तुतः परिनिष्ठित अपभ्रंश की ही थोड़ी बढ़ी हुई भाषा का रूप था और इसके मूल में पश्चिमी अपभ्रंश की अधिकांश प्रवृत्तियाँ काम करती हैं। परवर्ती अपभ्रंश भाषा की दृष्टि से परिनिष्ठित से भिन्न ही गया था उसमें बहुत से नए विकसित तत्व दिखाई पड़ते हैं। विभक्तियों के एक दम नष्ट हो जाने अथवा कुछ हो जाने के कारण अपभ्रंश काल में ही परसर्गों का प्रयोग आरंभ ही गया था; उनकी संख्या इस काल में और भी बढ़ गई। वाक्य के स्थानक्रम से अर्थबोध की प्रणाली निर्विभक्तिक प्रयोग का परिणाम थी; वह और भी सबल हुई। सर्वसामान्य तथ्य क्रियापदों में

बहुत सी नवीनताएँ दिखाई पड़ें। इन सब को समष्टिगत रूप से देखते हुए यदि इस काल की भाषा के लिए अपभ्रंश से भिन्न किसी नाम की तलाश हो तो वह नाम बिना आपत्ति के 'अवहट्ट' हो सकता है। जैसा पहले ही कहा गया, इस शब्द में इस प्रकार के अर्थ की कोई ध्वनि न होते हुए भी उसके प्रयोक्ताओं के कालक्रम और उनकी भाषा की विशेषताओं को देखते हुए यह नाम कोई बहुत अनुचित नहीं कहा जा सकता। इस निबंध में हम इसी परवर्ती अपभ्रंश के लिए यह नाम स्वीकार करते हैं।

हमारे विचार से अवहट्ट परवर्ती अपभ्रंश का वह रूप है जिसके मूल में परित्थित अपभ्रंश यानी शौरसेनी है। व्यापक प्रचार के कारण इसमें कई रूप दिखाई पड़ते हैं। परवर्ती अपभ्रंश या अवहट्ट भिन्न-भिन्न स्थानों की क्षेत्रीय भाषाओं से प्रभावित हुआ है, जैसा हर साहित्य भाषा होती है। उसके भीतर नाना क्षेत्रों के शब्द रूप मिले गे। चाहे पश्चिमी पूर्वी भेद भी कर सकते हैं, पर इन तमाम विभिन्नताओं के भीतर इसका एक ऐसा भाग टाँचा है जो प्रायः एक सा है। क्षेत्रीय भाषाओं का रंग कभी-कभी बहुत गाढ़ा हो गया है, वहाँ इसके ढाँचे को ढूँढ़ सकना मुश्किल है। पर इससे पश्चिम से पूरब तक इसके व्यापक प्रभाव का पता चलता है। इसी अवहट्ट के बारे में हम आगे विचार करेंगे। अन्य लोगों ने इसका कुछ भिन्न अर्थ भी किया है वहाँ इस शब्द के स्थान पर भ्रम निवारण के लिए परवर्ती अपभ्रंश का भी प्रयोग है।

### अवहट्ट मिथिलापभ्रंश नहीं है

अवहट्ट भाषा के समुचित शास्त्रीय अध्ययन के अभाव के कारण कुछ विद्वानों ने इसे मिथिलापभ्रंश मान लिया। इसके मुख्यतया दो कारण थे। पहला यह कि अब तक एकमात्र कीर्तिलता अवहट्ट की प्रतिपाद्य सामग्री बनी हुई थी। दूसरा कारण अवहट्ट शब्द के प्रयोग से सम्बद्ध है। विद्वानों को विश्वास था कि अवहट्ट शब्द का प्रयोग अब तक केवल दो स्थानों में हुआ है। एक स्वयं विद्यापति ने कीर्तिलता में ही किया है दूसरा प्रयोग ज्योतिरीश्वर ठाकुर के वर्ण-रत्नाकर में मिलता है। ये दोनों प्रयोग निःसन्देह मैथिल कवियों ने किए हैं, अतः विद्वानों ने इन प्रयोगों के आधार पर अवहट्ट को मिथिलापभ्रंश कह दिया। फिर भी जिन लोगों ने अवहट्ट को मिथिलापभ्रंश माना है उनके तर्कों और कारणों पर समुचित विचार अपेक्षित है। सर्व प्रथम कीर्तिलता के मान्य सम्पादक डा० बाबूराम सक्सेना ने कीर्तिलता की भूमिका में कीर्तिलता की भाषा को ( अर्थात् अवहट्ट को ) आधुनिक मैथिली और मध्यकालीन प्राकृत के बीच

की बताया ।<sup>१</sup> दूसरी जगह उन्होंने कीर्तिलता के अपभ्रंश को मैथिल अपभ्रंश कहना उचित समझा ।<sup>२</sup>

सकसेना जी ने अपने मत की पुष्टि के लिए कोई खास तथ्य नहीं उपस्थित किए । शायद उन्होंने इस विषय को विवादास्पद समझा ही नहीं अथवा उन्होंने कीर्तिलता की भाषा की प्रान्तीय विशेषताओं पर दृष्टि रखते हुए यह चलता व्यक्तव्य दे दिया । कीर्तिलता की भाषा पर मैथिली का रंग अवश्य है, परन्तु उसके मूल में शौरसेनी अपभ्रंश की प्रवृत्तियाँ हैं इसे कौन अस्वीकार कर सकता है । कीर्तिलता की भाषा पर खास रूप से विचार करते समय हम इधर ध्यान आकृष्ट करेंगे । डा० उमेश मिश्र, डा० जयकान्त मिश्र ने भी कीर्तिलता की भाषा को मिथिलापभ्रंश स्वीकार किया है । इस दिशा में सबसे अधिक परिश्रम के साथ स्व० प० शिवनन्दन ठाकुर ने अध्ययन किया और उन्होंने अवहट्ट को मिथिलापभ्रंश सिद्ध करने के लिए बहुत से कारण गिनाए हैं ।<sup>३</sup> कई अन्य विद्वान् भी उनके तर्क और कारणों से सहमत हैं अतः परीक्षा के लिए उनके कारणों पर विचार आवश्यक है ।

शिवनन्दन ठाकुर ने अवहट्ट को मिथिलापभ्रंश सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित कारण बताये हैं ।

१—अवहट्ट के ग्रन्थों में ऐसे सैकड़ों शब्द मिलते हैं जो हेमव्याकरण के अपभ्रंश अध्याय से सिद्ध नहीं हो सकते ।

२—अवहट्ट कभी शौरसेनी अपभ्रंश नहीं हो सकता । इस प्रसंग में उन्होंने कीर्तिलता के कुछ पद्य तथा पुरानी अपभ्रंश का निम्न दोहा उद्धृत किया है ।

जइ कँवइ पावीसु पिउ अकिया कुड्डु करीसु

पायीउ नवइ सरावि जिवं सव्वगों पइसीसु

दोनों प्रकार के पद्यों की तुलना करते हुए उन्होंने बताया है कि कीर्तिलता की 'थि' विभक्ति (वर्तमान अन्य पुरुष) तथा 'ल' (भूतकाल) विभक्ति का व्यवहार अपभ्रंश में नहीं होता । सम्बन्ध की विभक्ति 'क' भी अपभ्रंश में नहीं पाई जाती । अपभ्रंश में 'पावीसु' 'करीसु' 'पइसीसु' शब्दों की ( भविष्यत् काल )

१. कीर्तिलता ना० प्र० सभा । १९५६, पृ० २३

२. वही, पृ० २०

३. महाकवि विद्यापति : 'अवहट्ट' सम्बन्धी निबन्ध

और सरावि शब्द की 'इ' ( अधिकरण काल ) विभक्तियाँ कीर्तिलता में नहीं पायी जातीं। पूर्वकालिक प्रत्यय ओष्पिणु तथा ओष्पि, सर्वनाम एहो तथा महु मिथिलापभ्रश में नहीं पाये जाते। इस तरह मालूम होता है कि कीर्तिलता का अवहट्ट शौरसेनी अपभ्रश नहीं है। यह ध्यान रखना चाहिए कि ऊपर का तर्क सुनीति बाबू के उस व्यक्तव्य के विरोध में दिया गया है जिसमें उन्होंने अवहट्ट को शौरसेनी अपभ्रश का कनिष्ठ रूप स्वीकार किया है।

३—सत्रहवीं शताब्दि के लोचन कवि की रागतरंगिणी के एक अंश से यह पता चलता है कि मिथिलापभ्रश भी एक भाषा थी और वह मध्यदेशीय भाषा अर्थात् शौरसेनी से भिन्न थी।

४—ब्रजबुलि जिसे सुनीति बाबू ने विचित्र पद्य में व्यवहृत दुर्बोध भाषा कहा है और जिसमें पश्चिमी हिन्दी के रूपों के साथ बंगला और मैथिली का सम्मिश्रण बताया है, वस्तुतः प्राचीन मैथिली ही है।

( यहाँ प्राचीन मैथिली का अर्थ शायद मिथिलापभ्रश से है। )

५—प्राकृतपैंगलम् के आधार पर यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि अवहट्ट कौन सी भाषा है और इस ग्रन्थ में अवहट्ट के उदाहरण हैं कि नहीं, क्योंकि इस ग्रन्थ में अवहट्ट शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है।

६—बाद में उन्होंने कीर्तिलता के कुछ संज्ञा सर्वनाम, लिंग वचन विशेषण, क्रिया आदि रूपों को लेकर उनकी मैथिली रूपों से तुलना करके यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि कीर्तिलता की भाषा मिथिलापभ्रश है।

जब हम इन तर्कों पर विचार करते हैं तो यह कहते मुझे सकोच नहीं होता कि सत्य की कसौटी पर ये बिल्कुल ही अप्रामाणिक और लचर सिद्ध होते हैं। पहले तर्क के विषय में कोई भी पूछ सकता है कि हेम व्याकरण के अपभ्रश अध्याय से मिद्ध होने का क्या मतलब। भविष्यत्तकहा की भूमिका में गुणो ने बहुत से ऐसे शब्दों के उदाहरण दिए हैं जो हेम व्याकरण से सिद्ध नहीं होते। परमात्मप्रकाश और योगसार में भी ऐसे उदाहरणों की भरमार है। जो हो, खुद शिवनन्दन ठाकुर ने अपने पद के मडन के लिए एक भी उदाहरण नहीं दिया जो हेम व्याकरण से सिद्ध न होते हों, अतः उस दिशा में

विचार की संभावना ही समाप्त हो जाती है। अनुमान के आधार पर लगता है कि ऐसे शब्दों से उनका तात्पर्य या तो मैथिली के शब्दों से है या उन अपभ्रंश शब्दों से है जो घिस कर दूसरा रूप ले चुके हैं। पहले ही कहा जा चुका है कि अवहट्ट चाहे वह पश्चिमी हो या पूर्वी, उस पर विभिन्न प्रान्तों की बोलियों का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। जहाँ तक अन्य शब्दों के विकसित या परिवर्तित रूप का सम्बन्ध है वे स्पष्टतः अपभ्रंश के विकसित रूप हैं जो परवर्ती अपभ्रंश में पूर्ववर्ती से थोड़ा भिन्न हो सकते हैं। उन्होंने कीर्तिलता के कुछ पद्य और 'जइ केवइ पावीसु' वाले दोहे की तुलना की है और सिद्ध किया है कि कीर्तिलता की भाषा शौरसेनी नहीं है। इस तुलना से स्पष्ट रूप से जिन बातों की ओर ध्यान जाना चाहिये था उधर विचार न करके ओर ही प्रश्न उठा दिया गया है। इस तुलना से तो स्पष्ट मालूम होना चाहिये था कि अपभ्रंश (पूर्ववर्ती) और अवहट्ट (परवर्ती अपभ्रंश) का क्या अन्तर है। खैर 'थि विभक्ति का प्रयोग शौरसेनी में नहीं होता कीर्तिलता में होता है। कीर्तिलता में थि' विभक्ति का प्रयोग केवल १३ बार हुआ है जब कि अन्य पुरुष वर्तमान में सामान्य वर्तमान के होइ, कहइ आदि तिङ्न्त क्रिया-रूपों का प्रयोग सैकड़ों बार हुआ है। कृदन्त से बने वर्तमान काल के रूपों का सामान्य वर्तमान के रूप में भी बहुत प्रयोग पाया जाता है। उसी प्रकार ल (भूतकाल) विभक्ति का प्रयोग भी प्रादेशिक प्रभाव है। पूर्वी क्षेत्र में यह पृष्टति सर्वत्र पाई जाती है। यह मैथिल की नहीं सम्पूर्ण मागधी अर्धमागधी-निष्पत्त भाषाओं की अपनी विशेषता है। यह सत्य है कि सम्बन्धी की 'क' विभक्ति शौरसेनी में पाई जाती। कीर्तिलता में षष्ठी में प्रयुक्त परसगों में क के अलावा करे, को, करी, कर, का, को, के आदि रूप मिलते हैं। इसमें क और के मागधी प्रभावित हैं लेकिन बाकी सब शौरसेनी में मिलते हैं कर, करी और को तो ब्रज में पाये जाते हैं पर उनका मैथिल में मिलना असंभव ही है। पावीसु, करीसु आदि के रूपों के आधार पर भविष्य काल की विभक्तियों का निर्णय करना सुशकल है। कीर्तिलता में 'होसउ' 'होसइ' के रूप में 'स' विभक्ति वाले रूप मिलते ही हैं। उसके अतिरिक्त 'ह' विभक्ति वाले रूप, जो शौरसेनी में भी भी मिलते हैं, बुझिह, करिह, धरिज्जिह, सीभिह आदि पदों में देखे जा सकते हैं।

सारांश में अधिकरण की 'इ' विभक्ति अवश्य है किन्तु यही 'इ' विभक्ति ही केवल शौरसेनी अपभ्रंश में हो ऐसी बात नहीं है अधिकरण की विभक्ति 'हि'



और 'इ' दोनों का अपभ्रंश में प्राचुर्य है। अकारान्त शब्दों के साथ 'इ' का रूप ही 'ए' हो जाता है। इस 'ए' रूप का प्रयोग कीर्तिलता में सैकड़ों बार हुआ है। 'हि' विभक्तियुक्त प्रयोगों का भी वाहुल्य है। पूर्व कालिक प्रत्यय ओप्पिणु तथा ओप्पि का प्रयोग कीर्तिलता में नहीं हुआ है। परन्तु पूर्वकालिक क्रिया के लिए केवल ओप्पि और ओप्पिणु का ही प्रयोग शौरसेनी अपभ्रंश में नहीं होता। वहाँ तो आठ प्रकार के प्रत्यय प्रयोग में आते हैं।<sup>१</sup>

इ, इउ, इवि, अवि  
एप्पि, एप्पिणु, एवि, एविणु

कीर्तिलता में 'इ' का प्रयोग बहुलाश में पाया जाता है। एहो तथा महु पश्चिमी अपभ्रंश में मिलते हैं और कीर्तिलता में नहीं मिलते। एहो का ही रूप एहु (१२३७) कीर्तिलता में मिलता है और तुभ, तासु, तसु, जो केहु, काहु, जेन, जसु आदि बहुत से पश्चिमी अपभ्रंश के सर्वनाम कीर्तिलता के प्रति पृष्ठ प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि उनकी इस तुलना का कोई मूल्य नहीं और इसके आधार पर यह कदापि नहीं सिद्ध होता कि कीर्तिलता की भाषा, जिसे वे अवहट्ट नाम देते हैं, शौरसेनी अपभ्रंश से कोई सम्बन्ध नहीं रखती।

सत्रहवीं शताब्दि के लोचन कवि की रागतरंगिणी का वह अश इस प्रकार है :

देश्यामपि स्वदेशीयत्वात् प्रथमं मिथिलापन्नंशभाषयां  
श्री विद्यापतिनिवद्धास्ता मैथिलीगीतगतयः प्रदर्शन्ते ।

इस गद्यांश से स्पष्ट परिलक्षित होता है कि लोचन कवि के मिथिला-अपभ्रंश का तात्पर्य अवहट्ट से या कीर्तिलता की भाषा से नहीं है। उनका तात्पर्य स्पष्ट रूप से विद्यापति की पदावली से है। वे "मैथिलीगीत गतयः" कह कर ही इसे स्पष्ट कर देते हैं। और वे देशी भाषाओं का वर्णन कर रहे थे इसी से उन्होंने 'देश्यामपि स्वदेशीयत्वात्' कहा। मैथिल भाषा उनके लिए स्वदेशी थी। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग वैयाकरणों, लेखकों एवं कवियों ने बड़ी स्वच्छन्दता से किया है। यहाँ अपभ्रंश का प्रयोग मैथिली भाषा के लिए ही हुआ है, जिसमें विद्यापति के पद लिख मष्ट हैं।

ब्रजबुलि का प्रचार मिथिला में अवश्य था किन्तु वह प्राचीन मैथिली ही है इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। वस्तुतः ब्रजबुलि ब्रजभाषा और मैथिल का

समिश्रण है। और ब्रजबुलि के प्रसार से ही यह बात और भी स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाती है कि कनिष्ठ शौरसेनी अपभ्रंश का सक्रान्ति युग में पूरे बंगाल, मिथिला आदि पर फैल जाना मुश्किल नहीं है। “ब्रजबुलि इस बात क द्योतक है कि एक बनावटी भाषा भी दूसरे प्रान्त में काव्य भाषा के रूप में किस प्रकार ग्रहण की जा सकती है और इसी से इस बात का भी प्रमाण मिलता है कि किस प्रकार शौरसेनी अपभ्रंश या अवहट्ट मध्यदेश के अलावा बंगाल आदि में छाया हुआ था।”

जहाँ तक प्राकृत पिंगलम् की भाषा का सवाल है उसके टीकाकार ने उसे अवहट्ट कहा है।<sup>१</sup> यद्यपि उस अवहट्ट का अर्थ शिवनन्दन ठाकुर का अवहट्ट (मिथिलापभ्रंश) नहीं है। प्राकृत पिंगलम् परवर्ती अपभ्रंश का अन्वय नमूना है और उसकी भाषामूल विशेषताओं पर आगे विचार किया जायगा।

अन्त में उन्होंने जो कीर्तिलता के कुछ रूपों और मैथिली भाषा के रूपों में साम्य दिखाए हैं वे बहुत थोड़े हैं और उन्हें देशगत विशेषता मान लेने से तर्क समाप्त हो जाता है। ऊपर के विवाद का उत्तर विस्तार से इसीलिए देना पड़ा कि उससे अवहट्ट को मिथिलापभ्रंश मानने के भ्रम का परिहार तो हो ही, साथ ही इसके मूल में परिचमी अपभ्रंश की प्रवृत्तियाँ हैं इसकी भी हल्की भलक मिल जाय। इसी तरह अवहट्ट को केवल प्रान्तीय प्रभावों को देखकर अन्य क्षेत्रीय नाम नहीं देने चाहिए।

### अवहट्ट और पिंगल

कुछ लोगों का कहना है कि अवहट्ट पश्चिमी प्रान्तों में पिंगल नाम से प्रसिद्ध था। “खासकर राजस्थान में अवहट्ट पिंगल नाम से प्रख्यात था और स्थानीय चारण्य समान रूप से इस पिंगल और अपनी देशी भाषा डिंगल में रचनाएँ करते थे।”<sup>२</sup> अवहट्ट को इन प्रदेशों में पिंगल क्यों कहा जाता था और इस कथन का आधार क्या है, स्पष्ट नहीं किया गया है। प्राकृत पिंगलम् के टीकाकार ने पिंगल और अवहट्ट का सदृशार्थक प्रयोग अवश्य किया है; पर वहाँ भी इस अर्थ साम्य का कोई आधार नहीं बताया गया। प्राकृत पिंगलम् में पिंगलाचार्य का नाम आया है। पिंगलाचार्य छन्दःशास्त्र के ज्ञाता थे और उन्होंने

१. डा० चटर्जी, औरिजिन एंड डेवलपमेंट आव् बेगाली लैंग्वेज पृ० १०४

२. प्रथम...अद्य भाषा अवहट्ट भाषा.. प्रा० पै० गाहा १ टीका

३. औरिजिन एंड डेवलपमेंट आव् बेगाली लैंग्वेज ११२६, पृ० ११४.

के नाम पर यह शास्त्र पिगलशास्त्र कहा गया तो क्या इस भाषा के नाम में भी उनके उसी प्रभाव को ढूँढा जा सकता है। भाषाविद् लोगों के मत से पिगल पुरानी ब्रज है। पुरानी ब्रज नाम अवश्य भ्रमात्मक है। शौरसेनी अपभ्रंश के समान किसी अपभ्रंश से या उसी से ब्रज भाषा विकसित हुई। पुरानी ब्रज को यदि विकसित अपभ्रंश [शौरसेनी] कहे तो शायद अनुचित न होगा।

भिखारी दास ने काव्य निर्णय में षट्भाषाओं की चर्चा की है जिसमें एक नाग भाषा भी है।

ब्रज मागधी मिलै अमर नागजवन भाषानि  
सहज पारसीहु मिलै षट्विधि कहत बखानि

काव्यनिर्णय १११५.

इस नाग भाषा और पिगल से सम्बन्ध विचारणीय है। पिगलाचार्य नाग थे। प्राकृत को मिर्जा खाँ ने भी पातालबानी या नाग बानी कहा है। संस्कृत, प्राकृत और भाषा ( ब्रज ) के बारे में वे कहते हैं कि पहली यानी 'सहसर्कित' में विभिन्न विज्ञान, कला आदि विषयों पर लिखी गई पुस्तकें मिलती हैं। हिन्दुओं का विश्वास है कि यह परलोक की भाषा है। इसे वे आकाशवाणी या देव वाणी कहते हैं। दूसरी 'पराकित' है। इस भाषा का प्रयोग प्रायः राजाओं मंत्रियों की प्रशंसा के लिए होता है और इसे पाताललोक की भाषा कहते हैं। इसीलिए इसे पाताल बानी या नाग बानी कहा जाता है।<sup>१</sup> इस तरह मिर्जा खाँ के इस कथन और भिखारी दास के 'नाग भाषा' का कुछ अर्थ प्रतीत होता है। और लगता है कि ये दोनों लेखक पुरानी ब्रज या पिगल के लिए यह प्रयोग करते हैं। पिगल का 'राजा मंत्रियों' की प्रशंसा के लिए प्रयोग होता ही था। इसे मिर्जा खाँ 'पराकित' भी कहते हैं। 'पराकित' शब्द से स्पष्ट है कि इस भाषा का तात्पर्य मिर्जा खाँ उस भाषा से समझते थे जो संस्कृत और भाखा (ब्रज) के बीच की है, जिसका सम्मान सामन्तों के दरबारों में है। इससे अनुमान किया जा सकता है कि इस भाषा को 'पराकित' कहना अपभ्रंश की ओर संकेत करता है, खास तौर से परवर्ती अपभ्रंश की ओर, जो भी हो, यदि पिगल का अर्थ पुरानी ब्रज यानी विकसित शौरसेनी अपभ्रंश ही है तो इसे 'अवहट्ट' कहा जा सकता है। यदि यह राजस्थानी मिश्रित ब्रज का नाम है तो यह बहुत अंशो तक अवहट्ट के लिए अभिप्रेय नहीं हो सकता।

## अवहट्ट और प्रान्तीय भाषाएँ

सन् १९१६ में, जब से पं० हरप्रसाद शास्त्री ने 'बौद्ध गान औ दोहा' नाम से अपभ्रंश की रचनाओं का एक संग्रह प्रकाशित कराया, पूर्वी प्रदेशों में जैसे एक चेतना सी उठी और भिन्न-भिन्न भाषा भाषियों ने इसे अपनी अपनी भाषाओं के पूर्व रूप सिद्ध करने के लिए प्रयत्न किया। एक ही चीज को शास्त्री,<sup>१</sup> चटर्जी<sup>२</sup> और विनयतोष भट्टाचार्य प्रभृत विद्वानों ने पुरानी बंगला कहा उसी को वाणिकान्त काकती<sup>३</sup> और बरुआ<sup>४</sup> ने पुरानी असमिया, प्रहराज<sup>५</sup> और प्रियारंजन<sup>६</sup> सेन ने इसे प्राचीन ओडिया कहा। डा० जयकान्त मिश्र<sup>७</sup> और शिवनन्दन ठाकुर<sup>८</sup> इसे पुरानी मैथिली समझते हैं। राहुल सांकृत्यायन<sup>९</sup> इसे पुरानी मगही मानने के पक्ष में हैं। इन लेखकों के मत और उनकी स्थापनाएँ भी बड़ी तर्क पूर्ण मालूम होती हैं और पाठकों के लिए सहसा यह निर्याय कर सकना दुस्तर होता है कि ये वस्तुतः किस भाषा की रचनाएँ हैं। वस्तुस्थिति तो यह है कि ये किसी खास स्थान की भाषा की रचनाएँ नहीं हैं ये वस्तुतः परवर्ती अपभ्रंश की रचनाएँ हैं जिनका रूप न्यूनाधिक रूप से सर्वत्र एक सा है और इसमें किसी भी सम्बन्धित भाषा-भाषी को अपनी भाषा के कुछ पुराने रूप ढूँढ़ सकना कठिन नहीं है। इस स्थिति की यदि सम्यक् मीमासा की जाय तो कुछ कुछ ऐसी बातें स्पष्ट हो जाती हैं जो अवहट्ट के रूप निर्धारण में भी सहायक होती हैं। पहली बात तो यह कि परवर्ती अपभ्रंश की रचनाएँ ही आज की किसी भाषा के उद्गम और विकासक्रम को दिखाने का आधार हैं दूसरी और इनमें

१. बौद्ध गान औ दोहा की भूमिका, कलकत्ता सन् १९१६।
२. ओरिजिन एंड डेवलपमेंट अफ् बंगाली लैंग्वेज, १९१६, कलकत्ता पृ० ३७८ से ३८१।
३. फारमेशन अफ् आसमिज़ लैंग्वेज़ पृ० ८ से ९।
४. बरुआ अर्ली हिस्ट्री अफ् काम रूप पृ० ३१४।
५. प्रोसेडिंग्स अफ् आल इंडिया ओरियंटल कालम्बेंस ६ डा भाग
६. ला कमेमोरेशन वालूम २ पृ० १९७।
७. हिस्ट्री अफ् मैथिली लिदरेचर।
८. महाकवि विद्यापति पृ० २०८ से २१६।
९. शंभा पुरातत्वांक।

किसी एक ऐसे भाषा-रूप का हो सकना आवश्यक है जो इस विभिन्न भाषाओं के सम्बन्धित रूपों का आवेय है। इस तरह इन रचनाओं में एक और कुछ ऐसी प्रवृत्तियाँ हैं जो आधुनिक आर्य भाषाओं के रूप-गठन के निर्णय में योग देती हैं कुछ ऐसी प्रवृत्तियाँ हैं जो अपभ्रंश के परिनिष्ठित रूप से मेल खाती हैं।

पश्चिमी प्रदेश में यह स्थिति थोड़ी भिन्न है ; परन्तु उसके मूल में भी यही प्रश्न उठता है। पुरानी जूनी गुजराती, प्राचीन राजस्थानी अथवा प्राचीन गुर्जर आदि नामों के मूल में भी यही प्रवृत्ति काम करती है। पश्चिमी प्रदेश परिनिष्ठित के उद्भव का प्रदेश है अतः यहाँ यह निर्णय करना भी कठिन होता है कि इस में कितना तत्व पश्चिम की अपभ्रंश विभाषाओं का है, कितना परिनिष्ठित अपभ्रंश का। वस्तुतः कभी तो अपभ्रंश भाषा का ऐसा रूप पाते हैं जिसमें गुजराती-राजस्थानी दोनों के तत्व प्रचुर मात्रा में मिलते हैं इसे हम पुरानी गुजराती अथवा पुरानी राजस्थानी नहीं कह सकते। इसलिए डा० तेसीतरी ने दसवीं ईस्वी शती से १२ वीं तक के काल को पिंगल अपभ्रंश कहना पसंद किया क्योंकि उस अवस्था तक राजस्थानी और गुजराती के निजी चिन्ह प्राधान्य नहीं रखते। बाद की चार सौ वर्षों की भाषा को भी वे पुरानी राजस्थानी कहना ही अच्छा समझते हैं, क्योंकि उसमें गुजराती और राजस्थानी का कोई विभेद कर सकना कठिन था। सन् १६१४ से सन् १६१६ के बीच समय-समय पर प्रकाशित उनके निबन्धों के स्पष्ट है कि वे अपभ्रंश और पिंगल अपभ्रंश के भेद को स्वीकार करते हैं और वे इस विचार के पक्ष में हैं कि उस समय एक व्यापक प्रदेश के अन्दर पिंगल अपभ्रंश का प्रभाव था।<sup>१</sup> परन्तु जब हम परवर्ती अपभ्रंश के काल को भी स्वार्थ बस पुरानी राजस्थानी का काल कहते हैं तो वस्तुतः सत्य को एक पहलू को ही देखने के दोषी बनते हैं। ढोला मारूरा दूहा के सम्पादकों के विचार में भी यही दोष है।<sup>२</sup> गुजराती विद्वानों के पास अपभ्रंश की सामग्री सबसे अधिक है और उस पर उनका स्वत्व भी है, परन्तु एन० वी० दिवैतिया के कथन का सत्य स्वीकार्य होना चाहिए कि १२वीं शताब्दि से १५वीं तक के समय में एक विकृतभाषा जिसे हम कनिष्ठ अपभ्रंश कह सकते हैं, गुजरात और पूरे राजस्थान में प्रचलित थी।<sup>३</sup>

१. इंडियन ऐंटिक्वैरी, १९१४-१६ O.W.R.,

२. ढोला मारूरा दूहा पृ० १२५.

३. गुजराती दैग्गेज एंड लिटरेचर भाग १ पृ० ४० L

यहाँ पर पूर्वी पश्चिमी दोनों प्रदेशों में शौरसेनी के व्यापक प्रभाव के कारण पूछे जा सकते हैं। पूर्वी अपभ्रंश के अत्यन्ताभाव का विषय भी विचारणीय है। इस पर हम आगे विचार करेंगे।

## अवहट्ट और पुरानी हिन्दी

यहाँ पर अपभ्रंश का पुरानी हिन्दी नाम भी विचारणीय है। यह नाम सर्वप्रथम पं० चन्द्रधर शर्मा गुलेरी ने सुझाया। कुछ लोग समझते हैं कि गुलेरी जी अपभ्रंश को ज्यों की त्यों पुरानी हिन्दी कहना चाहते हैं। वे साफ कहते हैं—“पुरानी, अपभ्रंश सस्कृत और प्राकृत से मिलती है, पिछली पुरानी हिन्दी से।<sup>१</sup> विक्रम की सातवीं से ग्यारहवीं तक अपभ्रंश की प्रधानता रही। और फिर वह पुरानी हिन्दी में परिणत हो गई। इसमें देशी की प्रधानता है। विभक्तियाँ घिस गई हैं, खिर गई हैं। एक ही विभक्ति ‘ह’ या ‘आह’ कई काम देने लगी है। एक कारक को विभक्ति से दूसरे का भी काम चलाने लगा है। वैदिक भाषा की अविभक्तिक निर्देश की विरासत भी इसे मिली। किया पदों में मार्जन हुआ। धनवती अपुत्रा मौसी से तस्म शब्द भी लिए।<sup>२</sup> इस प्रकार हम ने देखा कि गुलेरी जी केवल अपभ्रंश और परवर्ती अपभ्रंश का भेद ही नहीं करते उसके अन्तर के आधार भी ढूँढते हैं। इस परवर्ती अपभ्रंश को वे पुरानी हिन्दी कहना चाहते हैं। इसलिए यह समझना निराधार है कि वे समूचे अपभ्रंश को पुरानी हिन्दी में खींच लेना चाहते थे।

गुलेरी जी के इस मत पर दो दिशाओं में विचार हो सकता है। पहला व्यावहारिक दृष्टि से और दूसरा भाषा-शास्त्र की दृष्टि से। पहली दिशा में कोई खास अड़चन नहीं आती। वे चाहते हैं कि जिस तरह कविता की भाषा प्रायः सब जगह एक सी रही है। नानक से लेकर दक्षिण के हरिदासों तक की भाषा ब्रजभाषा कहलाती थी वैसे अपभ्रंश (परवर्ती) को पुरानी हिन्दी कहना अनुचित नहीं है।<sup>३</sup> गुलेरी जी के इस कथन पर आपत्ति न रखते हुए भी कि यदि छापाखाना, प्रान्तीय अभिमान और मुसलमानों का फारसी अक्षरों का आग्रह और नया प्रान्तीय उद्बोधन न होता तो हिन्दी अनायास ही देश भाषा बनी जा रही थी, हम पुरानी हिन्दी नाम को बहुत उचित नहीं मान सकते। व्यावहारिक दृष्टि से

१. पुरानी हिन्दी पृ० ११.      २. वही, पृ० ८

३. वही, पृष्ठ ७

यह नाम कोई बुरा नहीं है, पर वर्तमान समय में भाषावार प्रान्तों के होने के कारण न तो इस प्रकार के नाम की कोई आवश्यकता रह गई है और न तो इस में कोई ऐसा तत्व है जो प्रान्तीयता के आग्रह को शान्त कर सके जो कभी-कभी हिन्दी को भी उतना बड़ा अधिकार देने में अवरोध पैदा करता है ।

“भाषा विज्ञान की दृष्टि से पुरानी गुजराती, पुरानी राजस्थानी आदि नाम यदि भेद को और पीछे खींचकर रखे हुए हैं” तो पुरानी हिन्दी; जो खुद उस भेद का एक रूप है जो आधुनिक कार्य भाषाओं की दृष्टि से भारत के एक भू-भाग की भाषा है कहाँ तक सम्पूर्ण परवर्ती अपभ्रंश के लिए अभिधेय है ?

इस प्रसंग में राहुल जी के विचारों पर भी ध्यान देना अप्रासंगिक न होगा । राहुल जी भी इस नाम से सहमत मालूम होते हैं पर उनका विचार इस घेरे में सम्पूर्ण भारत को या सम्पूर्ण परवर्ती अपभ्रंश के प्रभाव क्षेत्र को लेने का नहीं है । “सूत्र हिन्दुस्तान : हिमालय पहाड़ तथा पंजाबी, सिन्धी, गुजराती, मराठी, तेलगू, ओड़िया, बगला भाषाओं से घिरे प्रदेश की आठवीं शताब्दि की बाद की भाषाओं को हिन्दी कहते हैं । इसके पुराने रूप को प्राचीन मगही, मैथिली, ब्रजभाषा, आदि कहते हैं और आज कल के रूप को सार्वदेशिक और स्थानीय दो भागों में विभक्त कर आधुनिक सार्वदेशिक रूप को खड़ीबोली और मगही, मैथिली, भोजपुरी, बनारसी, अवधी आदि को आधुनिक स्थानीय भाषाएँ कहते ।”<sup>१</sup>

१. इस लम्बे उद्धरण से स्पष्ट मालूम होता है कि राहुल जी पुरानी हिन्दी नाम केवल आज के हिन्दी भाषा भाषी प्रदेश तक सीमित रखना चाहते हैं, परन्तु इसके विपरीत उन्होंने हिन्दी काव्य-धारा में जिस अपभ्रंश साहित्य का संकलन किया है वह सम्पूर्ण उत्तर भारत और कुछ अंशों में महाराष्ट्र प्रदेश को भी घेरने वाला है । इसी से शायद उन्होंने ‘काव्य धारा’ की अवतरणिका में कहा ‘लेकिन यह अभिप्राय हरगिज नहीं है कि यह पुरानी भाषा मराठी आदि की साहित्यिक भाषा नहीं है । उन्हें भी उसे अपना कहने का उतना ही अधिकार है जितना हिन्दी भाषा भाषियों को ।’<sup>२</sup>

इन तमाम तर्क-वितर्कों और वाद-विवाद को मिटा देने के लिए यह उचित जान पड़ता है कि इस भाषा को परवर्ती अपभ्रंश या अवहट्ट नाम देना

१. राहुल, गंगा पुरातत्वांक पृ० २३४ ।

२. हिन्दी काव्य धारा, अवतरणिका पृ० १२ ।

उपयुक्त है और यह 'अवहट्ट' नाम सम्पूर्ण उत्तरी भारत की संक्रान्तिकालीन भाषा का एक मात्र उपयुक्त नाम हो सकता है क्योंकि ऐसा करने से 'पुरानी' विशेषण युक्त भाषाओं का आपसी भगड़ा समाप्त हो जाता है दूसरी ओर इसे बिना किसी भेद-भाव के सब अपनी चीज मानने में भी संकोच नहीं कर सकते ।

### अवहट्ट की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

साधारणतया इस्वी सन् की दशवीं शती से चौदहवीं तक के चार सौ वर्षों के लम्बे काल को विद्वानों ने हिन्दी का आदि काल कहा है, इस समय की प्राप्त रचनाएँ अपने गुण और प्रकार के कारण बड़े ही आकर्षक और प्रभावशाली साहित्य की सूचना देती हैं । इस साहित्य की विभिन्न शैलियाँ, उसकी सप्तमयी, और उसके तत्व हिन्दी के परवर्ती काल के साहित्य को नाना रूपों में प्रभावित करते रहते हैं । अपने इस साहित्यिक वैशिष्ट्य के कारण इस काल के साहित्य की श्रेष्ठता तो निःसदिग्ध है ही, इस साहित्य की भाषा भी अपनी अलग महत्ता रखती है । साहित्य के क्षेत्र में सिद्धों, निर्गुणियों सन्तों एव इतर प्रकार के लेखकों की रचनाओं के परस्पर विरोधी रूपों को देखते हुए सहसा उस काल का अभ्येता बड़ी कठिनाई में पड़ जाता है और उसे यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि इन विचित्र काव्यरूपों एवं काव्य-वस्तुओं के वास्तविक अध्ययन के लिए वह किन सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक स्थितियों को समझने के लिए मूल में इनका वास्तविक समाधान मिल सकता है । उसी प्रकार इस काल की भाषा के विद्यार्थी के सम्मुख भी कुछ ऐसे टेढ़े प्रश्न उपस्थित होते हैं जिनके उत्तर के लिए उस पूरे काल की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझना अनिवार्य हो जाता है ।

अवहट्ट भाषा के मूल में शौरसेनी अपभ्रंश है इसे स्वीकार कर लेने पर यह प्रश्न उठता है कि वह पूर्वी प्रदेशों में भी साहित्य-माध्यम क्यों स्वीकृत हुआ जब कि उस प्रदेश में मागधी अपभ्रंश को यह स्थान मिलना चाहिए था । इसी तरह भाषा सम्बन्धी बहुत से प्रश्न जैसे अवहट्ट और आभ्य देशी भाषाओं का सम्बन्ध, तत्सम शब्दों की भरमार का कारण, फारसी शब्दों का आगमन, गद्य का प्रचार और उसका रूप आदि, उत्तर की अपेक्षा रखते हैं । इन प्रश्नों का उत्तर तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक हम इस काल की सामाजिक स्थिति के आलोक में इन्हें समझने की कोशिश न करें ।

आदिकाल की जो भी नामग्री प्राप्त है वह मध्यप्रदेश की नहीं है इस पर



कई विद्वानों ने विचार किया है और उसके कारण भी बताये हैं। वस्तु स्थिति तो यह है कि गुजरात और राजपूताना को छोड़कर समूचे उत्तर भारत में ऐसी सामग्री का अत्यन्तभाव है जिसे हम भाषा विषयक अध्ययन का आधार बना सकें। काव्यरूपो तथा तत्कालीन विचारधारा के अध्ययन के लिए तब भी इन्हें बहुत श्रमों तक उपयोग की वस्तु समझ सकते हैं किन्तु भाषा के लिए तो ये त्याज्य सी हैं। डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस काल की सामग्रियों के परिचक्षण के तीन साधन बताए हैं। १. राज्याश्रय पाकर २. सुसंगठित धर्म सम्प्रदाय का आश्रय पाकर मठो विहारों आदि के पुस्तकालयों में संरक्षित होकर ३. जनता का प्रेम और प्रोत्साहन पाकर।<sup>१</sup> भाषा को ध्यान में रखते हुये जनता द्वारा रक्षित पुस्तकें पूर्णतया व्यर्थ हैं क्योंकि उनके रूप रासों या आल्ह काव्य से अधिक शुद्ध नहीं मिल सकते। धर्म-सम्प्रदायो ने भी प्रायः रक्षा का कार्य किया, परन्तु इनमें कभी कभी भाषा को स्वाभाविक रूप में न रखकर उसे अधिक आर्ष और पुरानी बनाने का लोभ भी दिखाई पड़ता है और इसमें जैन लेखकों की रचनायें बहुत अंशों में शुद्धता का आधार होते हुए भी, गृहीत होती हैं। सबसे प्रबल सरक्षण के साधन राजवाड़े रहे हैं जिनकी स्थिति के साथ साथ ही इस प्रकार के रक्षण की भी स्थिति समझी जा सकती है।

इस काल की सबसे प्रधान घटना मुसलमानों का आक्रमण है। भाषा-शास्त्रियों का एक दल यह मानता है कि भाषा सामाजिक या राजनैतिक परिवर्तनों के साथ ही परिवर्तित नहीं होती क्योंकि यह समाज के किसी खास वर्ग की वस्तु न होकर पूरे समाज की वस्तु होती है और इसका निर्माण समाज की सैकेडो पीढ़ियों के योगदान से सम्पन्न होता है। परन्तु राजनैतिक घटनायें समाज में जो संघर्ष की स्थिति पैदा करती हैं उससे कई प्रकार के परिवर्तन जो शान्ति काल में अपनी स्वाभाविक गति से धारा के समतल पर धीरे धीरे होते रहते हैं, वे आलोचन के कारण विक्षुब्ध होकर बड़ी तीव्रता से आरम्भ होते हैं और वे ऊपरी स्तर पर दिखाई पड़ने लगते हैं। राजवाड़ों के टूटने, नई व्यवस्था के आरोपण तथा जनता के विखरने से साहित्यिक भाषा के अन्दर कई प्रकार के परिवर्तन हो जाते हैं। शब्द-समूह का विकास तो अपरिहार्य घटना होती है इसमें अतिरिक्त देशी प्रयोग तथा विभिन्न विभाषाओं के बहुत से तत्व भी गृहीत हो जाते हैं। इसका बहुत बड़ा प्रभाव भाषा की गठन पर न पड़ता हो, परन्तु भाषा

१. हिन्दी साहित्य का आदिकाल, राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना सन् १९५२, पृष्ठ २५।

की बहुत सी समस्याओं के मूल में इन घटनाओं का हाथ होता है और कभी कभी उनके सुलभात्व में भी ये योग देती हैं। चटर्जी के इस कथन में विश्वास न करने का कोई कारण नहीं कि यदि मुसलमानों का आक्रमण न हुआ होता तो आधुनिक आर्यभाषाओं के विकास क्रम में कम से कम एक शताब्दी का अन्तर तो पड़ता ही।<sup>१</sup>

मुसलमानों का आक्रमण पश्चिमी प्रदेशों पर होता अवश्य रहा किन्तु गुजरात, राजस्थान तक के प्रदेश प्रायः इस काल में अश्रमेद्य रहे। हमले हुए मुसलमानों को जीत भी मिली, परन्तु सामना कुछ ऐसा समानता का रहा कि प्रभाव नहीं पड़ सका। मध्यदेश में कुछ काल के लिए अराजकता अवश्य दिखाई पड़ी परन्तु गाहड़वारों के प्रभुत्व के पश्चात् बहुत कुछ शान्ति सी रही। इस प्रदेश में बाहरी आक्रमणों की अपेक्षा आन्तरिक युद्धों का प्राधान्य था और अपभ्रंश अपने मूल प्रदेश की सामन्ती संस्कृति की अभिव्यक्ति का एकमात्र सबल माध्यम था जिसमें वीरता और शृङ्गार के बड़े ही अछूते और सजीव भावों का आकलन हो सका।

मुसलमानों के आक्रमण के कारण और भीतरी शत्रुओं से सदैव युद्धरत रहने के कारण इस जाति के साहित्य में वीरता का अद्भुत वर्णन मिलता है। इस काल का अपभ्रंश का परवर्ती रूप रूढ़ हो चुका था और जन अपभ्रंश या देश्य अपभ्रंश से मिला हुआ एक रूप प्रबल होने लगा था। इस काव्य भाषा को लोगों ने पिंगल भी कहा है जो काफी प्रचलित थी। इस भाषा में केवल चारख ही नहीं राजा और सामन्त भी कविताएँ करना गौरव की वस्तु समझते थे।

राजपूत राजाओं का ब्राह्मण धर्म से सीधा लगाव था और बौद्ध धर्म की प्रतिक्रिया का जो जोश हर्ष के बाद से आरम्भ हुआ उसने संस्कृत भाषा, पुराण आदि धर्म ग्रंथों के आधार पर लिखे गये काव्यों और अतीत युग के यज्ञ-विधान को बड़ा प्रेरित किया। फलस्वरूप इस पुनर्जागरण के कारण भाषा में तत्सम शब्दों का प्राधान्य बढ़ने लगा। विद्वानों को बड़ा आश्चर्य सा होता है कि दसवीं शताब्दी से चौदहवी तक के इस साहित्य में सहसा इतना बड़ा तत्सम-प्रेम कहाँ से पैदा हो गया। मुसलमानों के आक्रमण की प्रतिक्रिया से जनता अपनी संस्कृति की ओर झुकी और उसमें यह प्रवृत्ति बढ़ी, एक कारण हो सकता है यद्यपि बहुत प्रधान कारण नहीं है। इन कारणों के मूल में भक्ति आन्दोलन, पौराणिक

चरित्रों को आधार पर काव्य प्रणयन, ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान आदि बहुत सी प्रवृत्तियाँ मानी जा सकती हैं ।

इस काल भी भाषा में फारसी शब्दों की भी बहुलता है । इसका कारण निश्चित रूप से मुसलमानों का सम्पर्क ही है । ये शब्द हमारी भाषा में बहुत कुछ भाषा के रूप के कारण परिवर्तित होकर आए ।

ऊपर पश्चिमी क्षेत्रों की राजनीतिक स्थिति के प्रकाश में शौरसेनी अपभ्रंश के विकास की बात कही गई । हमें इसके साथ ही बनारस के पूर्वी प्रदेशों की राजनीतिक स्थिति पर विचार करना है । महमूद के अन्तिम आक्रमणों से बनारस का कैसे पतन हुआ यह तो, बाद की वस्तु है । जिस समय राष्ट्रकूट दक्षिण में अपने साम्राज्य की नींव रख रहे थे करीब उसी ढवीं शताब्दी के आस पास बंगाल में पालवशी राजाओं ने अपने राज्य की नींव रखी । पालवंशी राजाओं के पहले बंगाल अराजकता, राजनैतिक कुहासा और छिन्न भिन्न अवस्था में पड़ा हुआ था । इन बौद्ध राजाओं के राज्य काल में बंगाल में संस्कृत की अपेक्षा लोकभाषा को बल मिलना अनिवार्य था । किन्तु पालवंशी राजाओं के राज्यकाल में कला संस्कृति और दर्शन की पर्याप्त उन्नति हुई । उनके बनवाए हुए विहार बौद्ध विद्याओं के केन्द्र बने रहे । पालवंशी शासनकाल में ही विद्वानों की राय है कि सहजिया सम्प्रदाय के सिद्धों का साहित्य बना । इसी समय नवोदित शैव सम्प्रदाय के योगियों और नाथों का भी प्रभाव बढ़ता रहा । सिद्ध साहित्य की अमूल्य सामग्री का पालवंशी राजाओं के काल में निर्मित होना असंभव नहीं है, परन्तु हमारे पास 'बौद्ध गान ओ दोहा' नाम से जो साहित्य मिलता है उसे भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करने पर पालवंशीय शासन काल तक खींच ले जाना मुश्किल है । दोहा कोश की भाषा को किली प्रकार ग्वारहवीं शताब्दी के आस पास मान भी लें किन्तु गानों की भाषा को तेरहवीं चौदहवीं के पहले मानने का कोई भाषा वैज्ञानिक कारण नहीं मिलता । वस्तुतः ये गान अवहट्ट या परवर्ती अपभ्रंश काल की रचनाएँ हैं जिनमें पूर्वी प्रभाव की स्पष्टता है । गानों की भाषा को प्रसिद्ध विद्वान् राखालदास बैनर्जी चौदहवीं शताब्दी के पहले का मानने के लिए तैयार नहीं है ।<sup>१</sup> इसके बारे में हम अगले अध्याय में विचार करेंगे यहाँ इतना ही कहना है कि पालवंशीय शासन काल का मागधी अपभ्रंश का कोई खास साहित्य प्राप्त नहीं होता ।

१. राखालदास बैनर्जी का निबन्ध 'श्री कृष्ण कीर्तन' की भूमिका ।

‘विहार मिथिला और उत्कल में जब कि अपनी किसी खास भाषा का प्रादुर्भाव भी नहीं हुआ था, सेनवंशीय शासन काल में बंगाल के लोगों ने अपनी बोलियों का विकास किया’<sup>१</sup> ये बोलियाँ मागधी अपभ्रंश की ही किसी विभाषा से सम्बद्ध हो सकती हैं ऐसा सोचा जा सकता है, परन्तु इतना सत्य है कि ‘बंगाल के लोगों ने अपनी बोलियों का विकास किया’ कह कर विद्वान् लेखक ने यह सकेत तो कर ही दिया है कि उसके सामने इस भाषा के विकास क्रम को दिखाने के लिए मागधी सम्बन्धी कोई साहित्य उपलब्ध नहीं है। इसी से चर्यागीत को ही बोलियों के विकास का आधार मानना पड़ता है।

इसका बहुत कुछ राजनैतिक कारण ही है। ११६७ में शायद पूर्वी प्रदेशों के लिए सबसे बड़ा अनिष्टकारी वर्ष था जब बख्तियार का बेटा मुहम्मद खिलजी विहार को चीरता चला गया। इसका वर्णन सुलतान नासिरुद्दीन महमूद के प्रधान काजी मिनहाज़-ए-सिराज ने अपने इतिहास ग्रंथ तवकात-ए-नासिरी में बड़े विस्तार से किया है। हत्या और अन्य घटनाओं ने पूरे प्रान्त में शिक्षा और संस्कृति का नाश कर दिया। विद्वानों की या तो हत्या कर दी गई या तो वे भाग कर नैपाल की ओर चले गए। वे अपने साथ बहुत से हस्तलिखित ग्रंथों की पांडुलिपियाँ भी लेते गए। इस तरह एक गौरवशाली साहित्य परम्परा का अन्त हो गया। मगध जो पूर्वी भारत का वास्तविक (काक-पिट) या रणस्थल कहा गया है, अनवरत तुर्क पठान और मुगलों के युद्धों का केन्द्र बना रहा<sup>२</sup> बंगाल भी इस हमले से नष्ट-भ्रष्ट हो गया।

मुसलमानी आक्रमण के परिणाम स्वरूप पूर्वी प्रान्तों में एक ओज और वीरता की लहर आई। मुसलमान आक्रमणकारी सम्पूर्ण उत्तर भारत के शत्रु थे। भारत में उनके सबसे बड़े शत्रु राजपूत राजे थे। वस्तुतः धर्मोन्माद में उठी मुसलमानी तलवार का पानी कहीं सूखा तो राजस्थान की मरुभूमि में। पश्चिमी प्रान्तों में इन मुसलमानों के खिलाफ जो जोश उमड़ता था उसका प्रतिविम्ब कहीं दिखाई पड़ा तो शौरसेनी अपभ्रंश में। वीरों के तलवारों की भनभनाहट, उनके वीरतापूर्ण यश के लिए गाई कविताओं की गूँज, शौरसेनी अपभ्रंश के माध्यम से देश भर में मुखरित हो रही थी। गुजरात से लेकर बंगाल तक शौरसेनी अपभ्रंश के प्रसार में राजपूतों के चरित्र, उनकी वीरता

१. ओ. वै. लै. पृ० ८१

२. चंडर्जी द्वारा उद्धृत वै. लै. पृ० १०१

और उनके प्रभाव का तो जोर था ही साथ ही देश के बाहर शत्रु के प्रति एक घृणा की भावना भी थी जो अपने अन्दर वीरता का संचार करती थी । दूसरे उस काल की कोई भी ऐसी भाषा नहीं थी जो समर्थ काव्य रचना का उचित माध्यम बन सके ।<sup>१</sup> शौरसेनी अपभ्रंश से मिलती जुलती एक भाषा नवीं शताब्दि से लेकर बारहवीं शताब्दि तक उत्तर भारत के राजपूत राजाओं की राज-सभा में प्रचलित थी और राज-सभा के भाटों ने उसे उन्नत रूप दिया । उन राजाओं के प्रति श्रद्धा और सम्मान दिखाने के लिए गुजरात तथा पश्चिम पंजाब से लेकर बंगाल तक सारे उत्तर भारत में शौरसेनी अपभ्रंश का प्रचार हो गया और वह राष्ट्रभाषा हो गई । इसमें सन्देह नहीं कि वह शिष्टभाषा थी और कविता के लिए अति उपयुक्त समझी जाती थी । भारत के अन्यान्य प्रान्तों में भाटों को यह भाषा सीखनी पड़ती थी और इसी में काव्य रचना करनी पड़ती थी ।<sup>१</sup>

वस्तुतः शौरसेनी अपभ्रंश का प्रभाव इतना व्यापक था कि समाज का प्रत्येक शिष्ट व्यक्ति, कवि, प्रचारक, सिद्ध या साधु इसी भाषा के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करता था । बंगाल के सिद्धों की रचनाएँ, इसी भाषा में हुई । इसी में विद्यापति की कीर्तिलता लिखी गई ।

मुसलमानों के आक्रमण से एक और मागधी अपभ्रंश को क्षति हुई दूसरी और शौरसेनी को बल मिला । बौद्धकाल में यों ही अर्धमागधी के सामने मागधी का प्रचार न हो सका और वह नाटक तक में नीच पात्रों की ही भाषा रहने का गौरव पा सकी । शायद बाद में कुछ विकसित हो पाती, किन्तु मुसलमानी आक्रमण ने उससे यह अवसर भी छीन लिया और इस प्रदेश में राष्ट्रभाषा के रूप में शौरसेनी ही स्वीकार कर ली गई ।

मिथिला और बंगाल में कुछ विकास की सम्भावनाएँ थी, परन्तु वहाँ भी संस्कृत को ही राज्याश्रय मिला । मुसलमानी आक्रमण से मिथिला बची रही पर वहाँ हिन्दू संरक्षण ने संस्कृत के विकास में अधिक प्रयत्न किया । 'कुलीनतावाद' के समर्थक सेन राजाओं के राजत्व में धोयी, जयदेव ऐसे संस्कृत कवियों को तो आश्रय मिला, पर अपभ्रंश के उत्थान की कोई संभावना वहाँ नहीं दिखाई पड़ी ।

इस प्रकार ऊपर कथित ऐतिहासिक परिस्थितियों के संक्रान्ति काल ।

में यदि भाषा की स्थिति देखी जाय तो चार बातें स्पष्ट रूप से कही जा सकती हैं ।

१. शौरसेनी अपभ्रंश राजनीतिक और भाषा वैज्ञानिक कारणों से राष्ट्रभाषा का रूप ले रहा था । उसी का परवर्ती रूप ईसा की ग्यारहवीं शती से १४वीं तक उत्तर भारत की साहित्यिक भाषा बना रहा । यह अवहट्ट थोड़े प्रान्तगत भेदों के अलावा सर्वत्र एक सा ही है ।

२. इस काल में अपभ्रंश की विभिन्न बोलियाँ विकसित होने लगीं और उनमें से बहुत अवहट्ट के अन्त होते होते यानी १४०० के आस पास समर्थ भाषा के रूप में साहित्य का माध्यम स्वीकार कर ली गईं ।

३. इस काल की भाषाओं में मुसलमानी आक्रमण के फस्वरूप फारसी के शब्दों की भरमार दिखाई पड़ती है ।

४. हिन्दुत्व के पुनर्जागरण के कारण सस्कृत तत्सम शब्दों का प्राचुर्य मिलता है ।



## अपभ्रंश का काल निर्णय

अपभ्रंश और अपभ्रष्ट के बीच कोई निश्चित सीमा-रेखा खींच सकना मुश्किल है। गुलेरी जी कहते हैं कि अपभ्रंश कहाँ समाप्त होती है और पुरानी हिन्दी कहाँ आरम्भ होती है, इसका निर्णय करना कठिन किन्तु रोचक और बड़े महत्व का है। इन दो भाषाओं के समय और देश के बारे में कोई स्पष्ट रेखा नहीं खींची जा सकती।<sup>१</sup> विद्वानों का विचार है कि हेमचन्द्र ने जिस अपभ्रंश का व्यकरण लिखा, वह मर चुकी थी।<sup>२</sup> तेसीतरी ने कहा कि वह भाषा जीवित नहीं थी। परन्तु तेसीतरी ने इसके लिए कोई कारण नहीं दिया। इस दिशा में श्री दिवेतिया ने भी विचार किया है और उन्होंने कुछ बड़े ही मनोरंजक कारण दूढ़े हैं। हो सकता है कि उनके कारण बड़े ठोस न हों, परन्तु उनसे कुछ प्रकाश तो पड़ता ही है। दिवेतिया के तीन कारण इस प्रकार हैं।<sup>३</sup>

१. हेमचन्द्र के प्राकृत व्याकरण के अन्तःसाध्य पर कहा जा सकता है कि अपभ्रंश प्रचलित भाषा नहीं थी। हेमचन्द्र ने अपने व्याकरण के द्वितीय चरण में १७४ वें सूत्र पर जो वार्तिक लिखा है वह उस प्रकार है।

भाषाशब्दाश्च । आहित्थ । लल्लक्क । विड्दि । ....इत्यादयोः महाराष्ट्र  
विदभिर्दिदेशप्रसिद्धा लौकतोऽवगन्तव्याः । क्रिया शब्दाश्च अवसासइ । फुंफुल्लइ ।  
उफ्फालेइ इत्यादयः । अतएव कृष्टघृष्ट वाक्यविद्वस वाचस्पति विष्टरश्रवस् प्रचेतस्  
प्रोक्तप्रोतादीनां क्विवादिप्रत्ययान्तानां चाग्निचित् सोमत्सुग्लसुम्बेत्यादीनां पूर्वैः  
कविभिरप्रयुक्तानां प्रतीतवैषम्यपरः प्रयोगो न कर्तव्यः शब्दान्तरेरेव तु तदर्थोभिधेयः ।  
यथा कृष्टः कुशल । वाचस्पतिगुरु । विष्टरश्रवा हरिरित्यादि ।

भाषा-शब्द से यहाँ हेमचन्द्र का तात्पर्य प्राकृत शब्द नहीं बल्कि भिन्न-भिन्न प्रान्तों में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं से है। शब्द 'प्रतीतवैषम्य परः' इस

१. पुरानी हिन्दी, पृ० ११ ।

२. तेसीतरी, इंडियन एटिक्वेरी १९१४ O. W. R (Introductory)

३. एन० वी० दिवेतिया, गुजराती लैंग्वेज एंड लिटरेचर पृ० २-५ ।

बात का संकेत करता है कि हेमचन्द्र के काल में प्राकृत जनभाषा नहीं रह गई थी।

२. दूसरे प्रयाग के उन्होंने हेमचन्द्र के व्याकरण के ८-१-२३१ सूत्र की टीका से उद्धरण दिया है।

प्राय इत्येव । कर्ह । रिक् । एतेन प्रकारस्य प्रासयोर्लोपवकारयोर्धर्मिकृते श्रुतिसुखसुस्पद्यते स तत्र कार्यः ।

यदि कहीं सूत्रों में आपस में ही मतान्तर मालूम हो और कोई उचित मार्ग न प्रतीत हो तो 'श्रुतिसुख' को आधार मानना चाहिए। यह प्रमाण पहले का पूरक ही है क्योंकि श्रुतिसुख की आवश्यकता तो वहीं होगी जहाँ 'पूर्वकवियों' के उदाहरणों से काम न चल सकेगा। अगर प्राकृत वास्तव में जनभाषा होती तो हेमचन्द्र आसानी से 'लोक प्रयोग' दे सकते थे।

पूर्वकविप्रयोग, प्रतीतवैषम्य और श्रुतिसुख का प्रयोग निःसन्देह प्राकृत भाषाओं के वर्णनों में आया है अतः उसका सीधा सम्बन्ध अपभ्रंश से नहीं माना जा सकता, परन्तु हेमचन्द्र के अनुसार प्राकृत के अन्तर्गत आठवें अध्याय की सभी भाषाएँ आती हैं जो एक के बाद एक दूसरे की प्रकृत मानी जाती हैं। इसलिए इस पूरे प्रमाण को प्राकृतों के साथ ही साथ अपभ्रंश के लिए भी मान सकते हैं। दूसरे हेमचन्द्र ने अपने प्राकृत व्याकरण में कहीं भी अपभ्रंश को 'भाषा' नहीं कहा है और न तो उसे लोक भाषा ही कहा है अतः 'भाषा-शब्द' और 'लोकतो अवगन्तव्याः' आदि का अर्थ दूसरा ही है। हेमचन्द्र तो अपभ्रंश का या तो अपभ्रंश या शौरसेनी, मागधी, आदि नामों से पुकारते रहे हैं।

तीसरे प्रमाण के लिए दिवेतिया ने प्राकृत द्वयाश्रय काव्य (कुमारपाल-चरित) के आधार पर यह तर्क दिया है कि यह ग्रंथ प्रकारान्तर से प्राकृत व्याकरण के सूत्रों के उदाहरणों के लिए लिखा गया है इसमें अपभ्रंश भाग के लिए भी उदाहरण मिलते हैं। यदि वस्तुतः अपभ्रंश लोक भाषा थी तो उसके व्याकरणिक नियमों के उदाहरण इस तरीके से बनाने की कोई जरूरत नहीं थी।

हेमचन्द्र के समय में अपभ्रंश जनप्रचलित भाषा नहीं थी इसे सिद्ध करने के लिए ऊपर दिए गए प्रमाणों की पुष्टि पर बहुत जोर नहीं दिया जा सकता। फिर भी हेमचन्द्र के काल तक अपभ्रंश लोक भाषा नहीं थी इतना तो प्रामाण्य होता है। हेमचन्द्र ने स्वयं अपने काव्यानुशासन में दो प्रकार के



अपभ्रंशो की चर्चा की है। पहली शिष्ट भाषा जो साहित्य के लिए प्रयुक्त होती थी और दूसरी ग्राम्य अपभ्रंश भाषा जो जनता के इस्तेमाल की चलती फिरती भाषा थी। परिनिष्ठित अपभ्रंश संस्कृत और प्राकृत की भाँति शिष्ट जन की भाषा हो गई थी और भाषा शास्त्र की दृष्टि से ग्राम्य अपभ्रंश काफी अग्रसर हो रही थी। इस तरह के अपभ्रंश के रूप हमें सन्देश रासक, उक्ति व्यक्ति और प्राकृत पैगलम् में मिलते हैं। हेमचन्द्र ने अपभ्रंश का व्याकरण लिखा जिसमें उसने अपने सिद्धान्तों की पुष्टि के लिए पूरे के पूरे दोहे उद्धृत किए, इस के आधार पर लोगों की धारणा है कि हेमचन्द्र के समय तक अपभ्रंश लोकभाषा नहीं रह गई थी। यद्यपि यह कोई बहुत अच्छा तर्क नहीं है, हेमचन्द्र ने अपना व्याकरण पंडितों के लिए लिखा, इसलिए 'भाषा' के व्याकरण के लिए उन्हें पूरा छन्द उद्धृत करना पड़ा। फिर भी हेमचन्द्र के काल तक अपभ्रंश जनभाषा नहीं थी यह तो इसी से मालूम होता है हेमचन्द्र ने 'देशी नाम माला' का निर्माण आवश्यक समझा। ये शब्द शिष्ट अपभ्रंश में नहीं मिलते, निश्चय ही ये ग्राम्य अपभ्रंशों में प्रचलित रहे होंगे।

'उक्ति व्यक्ति प्रकरण' में लेखक ने तत्कालीन देश भाषा यानी अपभ्रंश के रूपों को संस्कृत व्याकरण के आधार पर समझाने का प्रयत्न किया है। उक्ति व्यक्ति की भाषा जिस प्रकार के अपभ्रंश का प्रतिनिधित्व करती है वह निःसन्देह हेमचन्द्र के अपभ्रंश से कोसों दूर है। इसमें अपभ्रंश के विकसित रूप तो मिलते ही हैं पुरानी अवधी के स्वरूपों का प्रयोग भी अधिकता से हुआ है और इस आधार पर डा० सुनीतिकुमार चाडुर्ज्या इसे 'पुरानी कोसली' नाम देने के पक्ष में है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण बारहवीं शताब्दी की रचना है। दामोदर पंडित ने इस ग्रंथ में काशी के आस पास प्रचलित तत्कालीन भाषा को ही अपभ्रंश नाम दिया है। लेखक ने 'उक्ति व्यक्ति' शब्द की व्याख्या करते हुए पहली कारिका की टीका में लिखा है :

उक्तावपभ्रंशभाषिते व्यक्तीकृतं संस्कृतं नत्वा तदेव करिष्यामः इत्यर्थः × × ×  
अथवा नाना प्रकारा प्रतिदेशं विभिन्ना येयमपभ्रंशवाग्रचना पामराणां  
भाषित भेदाभेदास्तद्वहिष्कृतं ततोऽन्यादृशम् । तद्धि भूर्खप्रलपितं प्रतिदेशं नाना ।

उक्ति व्यक्ति १११-२१

ग्रंथकार ने इस देशभाषा का कोई विशिष्ट नाम न देकर अपभ्रंश नाम दिया है, परन्तु इस अपभ्रंश शब्द का उसके मन में वही अर्थ नहीं है जो हेमचन्द्र के अपभ्रंश का यानी परिनिष्ठित अपभ्रंश का है। 'उक्ति' का अर्थ है लोकोक्ति

यानी लोक में प्रचलित भाषा पद्धति, उसकी व्यक्ति यानी विवेचना, स्पष्टीकरण जो इस ग्रंथ में किया गया है। पामर लोगों के वाग्यवहार में आने वाली यह भाषा जिसके विभिन्न भेद हैं, संस्कृत व्याकरण पद्धति से स्पष्ट की गई है। 'उक्ति व्यक्ति' के आधार पर यह कहना असंगत न होगा कि ईसा की बारहवीं शताब्दि में मध्यदेश में परिनिष्ठित अपभ्रंश से भिन्न भाषा लोक व्यवहार में आती थी जो एक ओर अपभ्रंश से निकट थी जिसे दामोदर पंडित 'अपभ्रंश' ही कहना चाहते हैं किन्तु उसके स्वरूप का भाषा वैज्ञानिक विवेचन करने पर डा० चाटुर्ज्या उसे पुरानी कोशली कहना उचित समझते हैं। उक्ति व्यक्ति की भाषा में परवर्ती अपभ्रंश का प्रयोग हुआ है, यह निर्विवाद है।

इस प्रकार हमने देखा कि १२वीं तेरहवीं शताब्दि के आस-पास अवहट्ट के ग्रंथ मिलने लगते हैं जिनमें परवर्ती अपभ्रंश की प्रमुख प्रवृत्तियों के प्रभाव भी भाषा पर स्पष्ट दिखाई पड़ने लगते हैं। प्राकृत पौगलम् की रचनाओं में इस प्रकार के उदाहरणों के बहुत प्रयोग मिल जाते हैं। यह सत्य है कि प्राकृत पौगलम् की रचना में १४वीं शताब्दि के आस पास का भी बहुत साहित्य संकलित किया गया है, फिर भी उसका कुछ भाग निःसन्देह बारहवीं शती के पहले निर्मित हो चुका था। प्राकृत पौगलम् की भाषा से साफ मालूम हो जाता है कि यह अपभ्रंश का परवर्ती रूप है। इसकी रचनाएं ११वीं से १३वीं तक के बीच की हैं, परन्तु इसमें कुछ ऐसे भी छंदों के उदाहरण मिलेंगे जिनकी भाषा १४वीं शती की है। वस्तुतः प्राकृत पौगलम् का रचना देश ही इस तथ्य की सूचना देता है कि मध्यदेश की मूल भाषा शौरसेनी अपभ्रंश न्वय भाषा सिद्धांतों के अनुसार विकसित होती जा रही थी और इसने अवहट्ट का मूल ढांचा तैयार कर दिया था जो करीब ११वीं शती के आस-पास सर्व सामान्य रूप से, देश के राजनीतिक तथा अन्य कारणों से, मध्यदेशीय राजवाड़ों के गौरव और सम्मान के रूप में समस्त आर्य भारत द्वारा गृहीत होता जा रहा था। इसी समय अपभ्रंश कालीन विभाषाएं भी विकसित हो रही थी और वे आधुनिक आर्यभाषाओं के उदय की सूचना दे रही थी। इन जनभाषाओं के सम्पर्क से अवहट्ट में जनसुलभ शब्दों की भरमार तो हुई ही जनभाषा की कई प्रमुख प्रवृत्तियों का भी दर्शन होने लगा। प्राकृत पौगलम् में ही हमें ऐसे उदाहरण मिल जायेंगे जिसमें पश्चिमी देशों की जनभाषाओं के प्रभाव परिलक्षित होंगे। इस तरह हमने देखा कि यद्यपि अपभ्रंश और अवहट्ट

के बीच कोई निश्चित काल विभाजक रेखा खींच सकना असंभव है, पर मोटे रूप से अवहट्ट में पाई जाने वाली विशेषताओं की उपलब्धि करीब-करीब ११वीं शताब्दि में होने लगी। इन तथ्यों के आधार पर हम अवहट्ट का रचना काल १२वीं शती के आरम्भ से पीछे नहीं खींच सकते यद्यपि इसका वास्तविक आरम्भ तो करीब दो सौ वर्ष पहले ही मानना चाहिए, यद्यपि उस काल की रचनाएं इसके पक्ष में कोई प्रमाण नहीं दे सकती।

अवहट्ट काल के अन्त के बारे में हम निश्चिन्त हैं। अवहट्ट का अन्त करीब-करीब १४वीं शती के अन्त से सम्बद्ध सा माना जा सकता है। यह संत्य है कि १४वीं शती के बाद भी इस काल को खींचा जा सकता है, परन्तु उससे कोई लाभ नहीं। विद्यापति के काल तक निःसन्देह जनभाषाओं का उदय हो चला था। एक ओर वे अवहट्ट में काव्य रचना करते हैं दूसरी ओर उनकी प्रतिमा का "प्रौढचन्द्र" पदावली में चमकता है। अतः इसके नीचे तो इस काल को खींचना मुश्किल है। ठीक वास्तविक समय क्या है इसके लिए विचार करने की सामग्री प्राप्त है। जनभाषाओं के प्रौढरूप हमें १४वीं शती के अन्तिम चरण तक मिलने लगे।

१. तेसीतरी के मतानुसार अवहट्ट का रचनाकाल मुग्धबोध औक्तिक के रचनाकाल के बाद नहीं खींचा जा सकता।<sup>१</sup> मुग्धबोध औक्तिक का रचना काल १४५० विक्रम संवत् या १३६४ ईस्वी सन् निश्चित है। इस ग्रंथ का सबसे पहला परिचय डा० यच० यच० ध्रुव के १० सितम्बर १८८६ के निबन्ध से मिला जो उन्होंने "नियो वर्नाक्यूलर आर्क्वेस्टर्न इंडिया" शीर्षक से लिखा था और जिसे उन्होंने उक्त सन् में क्रिश्चियाना में विद्वानों की एक सभा में पढ़ा था। मुग्धबोध औक्तिक संस्कृत में लिखा हुआ व्याकरण ग्रंथ है जो नए छात्रों की दृष्टि से लिखा गया है।<sup>२</sup> इस ग्रंथ पर जार्ज ग्रियर्सन ने एक लम्बा विचार अपने लिग्विस्टिक सर्वे आर्क् इंडिया के जिल्द ६ में दिया है।<sup>३</sup> और इसकी टीका को उन्होंने गुजराती भाषा का सबसे पहले नमूना कहा। तेसीतरी ने इस गुजराती न कह कर पुरानी पश्चिमी राजस्थानी का नमूना माना क्योंकि उनकी राय से तब तक

१. टेसीटरी इंडियन एन्टिक्वेरी भाग १४

२. संक्षेप्यदौक्तिकं वस्ये बालानां हित बुद्धये। (मु० बो० औ०)

३. जिल्द ६ भाग २ प० ३६३

मारवाड़ी गुजराती और राजस्थानी अलग भाषा के रूप में नहीं हुई थी।<sup>१</sup> जो कुछ भी इतना सत्य है कि पश्चिमी भारत में अवहट्ट का रचना काल इस ग्रंथ के रचना काल के नीचे नहीं खींचा जा सकता।

२. डा० चटर्जी के अनुसार पूरब में अर्थात् बंगला में टीका सर्वस्व को आधुनिक भाषाओं के उदय काल पर प्रकाश डालने वाली पहली सामग्री के रूप में मानना चाहिए। चटर्जी का विचार है कि ११५६ ईस्वी की इस टीका सर्वस्य नामक पुस्तक में ३०० ऐसे शब्दों का उल्लेख है जिनका अध्ययन बंगला भाषा के ध्वनि विचार के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण माना जा सकता है।<sup>२</sup> यह टीका सर्वस्व पंडित सर्वानन्द नामक किसी बंगाली सज्जन द्वारा अमरकोश पर लिखी गई भाषा टीका है। इस टीका से भाषा की गठन पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता। पांडुलिपि की प्राचीनता भी सन्दिग्ध ही है। अतः यह ग्रंथ इस काल निर्याय के लिए उपादेय नहीं है। पूर्वी प्रान्तों में परवर्ती अपभ्रंश का काल चंडीदास के कृष्णकीर्तन से नीचे नहीं खींचा जा सकता। इसकी पांडुलिपि भी पुरानी है। पहले चटर्जी ने इसे आध्यमिक काल के उदय का संकेत चिन्ह कहा है और इसके की अवस्था को 'प्रोटो बंगाली' 'और बंगाली निर्माण की अवस्था में' इन दो नामों से अभिहित करते हैं।<sup>३</sup> इन दो अवस्थाओं को यदि दूसरी शब्दावली में कहें तो 'पुरानी बंगला' कह सकते हैं और इसका आधार 'बौद्ध गान और दोहा' माना जाता है जिसके बारे में पहले ही कहा जा चुका है।

मगध में विद्यागति की कीर्तिलता को अवहट्ट की अंतिम रचना मान लें तो स्पष्ट हो जाता है कि पूर्वी प्रदेशों में भी अवहट्ट का समय समाप्त हो गया था।

अवहट्ट काल के अन्त के बारे में कुछेक पुस्तकों का आधार लेकर जो विचार दिये गए हैं, उनको कोई खास आवश्यकता नहीं थी क्योंकि परवर्ती अपभ्रंश की रचना १७वीं शताब्दि तक होती रही, इसलिए यह कहना कि उसका अन्त १४वीं शताब्दि में हो गया, कोई मतलब नहीं रखता। मेरा तात्पर्य केवल उतना ही है कि १४वीं के आस पास परवर्ती अपभ्रंश भी लोक भाषा के स्थान से हट गया और उसका स्थान विभिन्न जन पदीय अपभ्रंशों से बिकसित बोलियों ने ले लिया।

१. इंडियन ऐन्डोलॉजी भाग ३४

२. चैटर्जी वैं० लैंग्वेज पृ० १०६-११

३. बहरी पृ० १२६

इस प्रकार ईसा की ग्यारहवीं शताब्दि से ईसा की चौदहवीं तक के काल को हम अवहट्ट का काल मानते हैं । इससे यह न समझना चाहिए कि हम आधुनिक आर्य भाषाओं के काल को पीछे खींचते हैं । सत्य तो यह है कि अवहट्ट जिन दिनों साहित्य भाषा के रूप में इतने बड़े भूभाग में प्रचलित था, उस समय जन भाषाएँ तेजी से विकसित हो रही थीं और भाषाविद् उनके इस विकास का समय ईसा की दशवीं शताब्दि से स्वीकार करते हैं । १४वीं तक में स्वयं सबल भाषाओं के रूप में सामने आ गई और १४वीं के बाद भी परवर्ती अपभ्रंश में रचनाएँ होती रहीं, परन्तु इन भाषाओं के विकास के बाद उसका वैसा प्रचार और जन सम्पर्क नहीं रह गया और प्रादेशिक भाषाएँ, इतनी समर्थ हो गईं कि चौदहवीं, पन्द्रहवीं शताब्दी तक चंडीदास, विद्यापति, जायसी, मीरा और नरसी मेहता ऐसे प्रौढ़ कवि दिखाई पड़ने लगे ।

---

## अवहट्ट और 'देसिल वन्नन'

सकक्य वाणी बुहन्नन भावइ  
पाउंअ रस को मम्म न पावइ  
देसिलवन्नना सब जन भिठ्ठा  
तं तैसन जम्पणो अवहट्टा

कीर्तिलता के इस पद्यांश को लेकर बहुत दिनों तक विद्वानों ने माथा-पन्ची की। इसके पहले 'प्राकृत और देशी' तथा 'अपभ्रंश और देशी' के पारस्परिक सम्बन्ध पर लम्बे लम्बे विवाद हो चुके थे। इस शब्दों से वास्तविक सापेक्ष अर्थों पर अब तक काफी लिखा जा चुका है। पिशेल ने अपने प्राकृत व्याकरण में देशी पर विचार किया और देश्य या देशी को ( भ्रष्टता ) 'हिद्रोजी-नियस एलिमेंट' का सूचक बताया।<sup>१</sup> जार्ज ग्रियर्सन ने इस विषय पर एक महत्वपूर्ण विचार अपने निबंध 'आन दि माडर्न एंडो ऐर्यन वर्नाक्यूलर्स' में व्यक्त किया।<sup>२</sup> डा० उपाध्ये ने इस विषय पर अपने निबंध 'प्राकृत लिटरेचर' में विस्तार से लिखा<sup>३</sup> और इधर हाल में डा० तगारे ने अपनी पुस्तक में अपभ्रंश और देशी पर एक लम्बा अध्याय ही जोड़ दिया है।<sup>४</sup>

विद्यापति के उपर्युक्त पद्यांश से बहुत से लोगों को भ्रम हो गया था। उक्त पद्यांश के आधार पर कुछ लोगों ने अवहट्ट को देशी से भिन्न माना कुछ ने दोनों को एक। कीर्तिलता के सम्पादक डा० बाबूराम सक्सेना ने इसका अर्थ किया, देशी सब लोगों को मीठी लगती है इसी से अवहट्ट ( अपभ्रष्ट ) में रचना करता हूँ।<sup>५</sup> डा० सक्सेना के शब्दों से ध्वनित है कि उन्होंने अवहट्ट और देशी

१. पिशेल ऐमेरिक डर स्प्रेन्ग पृ० १...४७, तगारे द्वारा उद्धृत हि० ग्रै० अप०
२. जार्ज ग्रियर्सन, यह निबंध इंडियन ऐंटिकवेरी के ११३१-३३ के अंकों में आया।
३. इन्साइक्लोपीडिया आव् लिटरेचर, न्यूयार्क।
४. डा० तगारे, हिस्टारिकल ग्रैमर अव् अपभ्रंश।
५. कीर्तिलता, ना० प्र० स० पृ० ७।

को एक माना है। डा० हीरालाल जैन ने पाहुड़ दोहा कि भूमिका मे इस प्रसंग को उठाया। उन्होंने लम्बे लम्बे उद्धरणों से, यह सिद्ध किया कि किस प्रकार, स्वयम्भू, पुष्पदन्त, पद्मदेव, लक्ष्मणदेव आदि अपभ्रंश के कवियों ने अपनी भाषा को देशी माना। अन्त मे डा० जैन ने कीर्तिलता वाले पद्य को भी अपने-मत की पुष्टि के लिए ठोक पीट कर तैयार किया और मूल पाठ से कोई ध्वनि न पाकर उन्होंने उसके अर्थ में खीचातानी की। उसका संस्कृत रूपान्तर डा० हीरालाल जैन ने यों दिया :

देशी वचनानि सर्वान् मिथ्यानि

तद् तादृशं जल्पे अपभ्रंशम्

इस तादृश का अर्थ उन्होंने किया तदेव और कहा कि तादृश शब्द से मतभेद हो सकता है किन्तु यहाँ तादृश का अर्थ तदेव की ही तरह है।

इस मत पर विद्वानों की शैली मे वैसा ही सन्देह प्रकट किया जा सकता है जैसा प्रसिद्ध भाषा शास्त्री डा० जूल ब्लाक ने डा० जैन के पास लिखे अपने ३० नवम्बर सन् ३२ के पत्र मे किया।<sup>१</sup>

एक ओर डा० सक्सेना और डा० जैन इसे 'तदेव' मानते हैं और दूसरी ओर जूल ब्लाक को यह मत मान्य नहीं। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने भी जूल ब्लाक के मत से मिलते जुलते विचार दिये हैं। उक्त पद्याश का अर्थ करते हुए शुक्ल जी कहते हैं देशी ( बोल-चाल की भाषा ) सबको मीठी लगती है, इससे देशी अपभ्रंश ( देशी भाषा मिला हुआ ) मैं कहता हूँ। विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोल-चाल की भाषा को देशी भाषा कहा है।<sup>२</sup>

इस तरह इस विषय पर दो मत दिखाई पड़ते हैं। जैसा ऊपर कहा गया कि इस प्रकार के विवादास्पद मत प्राकृत और देशी या 'अपभ्रंश और देशी' पर सदा रहे हैं। इसका कारण क्या है ! साफ है कि यह मत केवल अपने दायरे को सीमित कर लेने के कारण उठे हैं। यदि तर्कशास्त्र की भाषा मे कहा जाय तो देशी का जो अर्थ किया जाता है उसमें क्यासि दोष आ जाता है। देशी का किस प्रसंग में क्या अर्थ है इस पर ध्यान न देकर हम देशी से अपभ्रंश का तदात्म्य देवने लगते हैं। देशी का अर्थ प्राकृत के प्रसंग मे एक है, अपभ्रंश के प्रसंग मे

1. As regards the identification of Desi = Apabhramsa, I feel doubts. 30-11-32 (पाहुड़ दोहा ३३)

२. आचार्य शुक्ल हिन्दी साहित्य का इतिहास १०२।

दूसरा और अवहट्ट के प्रसंग में तीसरा । 'देशी' और 'भाषा' ये दो शब्द कब-कब किस अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, यह एक बहुत मनोरंजक विषय है । और इनके इसी विकासशील इतिहास के अनुक्रम में इनका वास्तविक सापेक्ष अर्थ भी छिपा है । यहाँ संक्षेप में पहले 'देशी' का इतिहास दिया जा रहा है ।

## देशी शब्द

'देशी' शब्द का सबसे पहला प्रयोग भरत के नाट्य शास्त्र में मिलता है । यह ध्यान रखना चाहिए कि भरत ने 'देशी' विशेषण शब्द के लिए दिया था, भाषा के लिए नहीं । उनकी राय में जो शब्द संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों से भिन्न हों उन्हें देशी मानना चाहिए । भरत के देशी शब्द की यह परिभाषा प्रायः बहुत पीछे तक आलंकारिकों और वैयाकरणों द्वारा मान्य रही । काव्यालंकार के रचयिता रुद्रट की राय में तो उन शब्दों को संस्कृत से वहिष्कृत ही कर देना चाहिए जिनकी व्युत्पत्ति प्रकृति प्रत्यय विचार के आधार पर न हो सके और जो अपनी रूढ़ि न रखते हों ।<sup>१</sup> बारहवीं शती के प्रसिद्ध वैयाकरण हेमचन्द्र ने उस प्रकार के शब्दों की एक 'नाम माला ही बना दी जिनकी व्युत्पत्ति प्रकृति प्रत्यय नियम से संभव न थी । यद्यपि उन्होंने उसे 'लक्षणा सिद्धता' कहा और देशी उन शब्दों को माना जो 'लक्षणा' से सिद्ध नहीं होते । जो न तो संस्कृताभिधान में ही प्रसिद्ध हैं और न तो गौडी लक्षणा से ही सिद्ध होते हैं<sup>२</sup> । उन्होंने लक्षणा के गूढ़ार्थ को स्पष्ट करते हुए कहा कि वे शब्द जो सिद्ध हेमचन्द्र नाम में सिद्ध नहीं हुए हैं और न तो प्रकृति-प्रत्यय विभाग से उनकी निष्पत्ति ही संभव है ।<sup>३</sup> देशी शब्द के बारे में वैयाकरणों और आलंकारिकों की ऊपर-कथित व्युत्पत्ति-प्रणाली को ही लक्ष्य करके पिशेल ने कहा था कि ये वैयाकरणों प्राकृत और संस्कृत के प्रत्येक ऐसे शब्द को देशी

१. प्रकृति प्रत्ययमूला व्युत्पत्तिर्नास्ति यस्य देशस्य तन्मनुहादि कथञ्चन रुद्धिरिति न संस्कृते रूपयते । (काव्यालंकार ६-२७)
२. जो लक्षणे सिद्धा या पसिद्धा सकक्याहिहाणेषु या य गाउण लक्षणा सति संभवा ते इह खिवद्धा । (देशी नाममाला)
३. लक्षणे शब्द शास्त्रे सिद्ध हेमचन्द्र नाभिन् ये न सिद्धाः प्रकृति प्रत्ययादि विभागेन न विष्यवस्तेऽत्र निवद्धाः ।



कह सकते हैं जिसकी व्युत्पत्ति संस्कृत से न निकाली जा सके।<sup>१</sup> इस प्रकार हमने देखा कि एक और देशी का प्रयोग शब्द के लिए हुआ है जिसके बारे में भारतीय वैयाकरण और पिशेल तक की राय है कि ये प्रकृति-प्रत्यय विचार के घेरे के बाहर के शब्द हैं।

## देशी भाषा

दूसरी और देशी का प्रयोग भाषाओं के लिए भी मिलता है। देशी भाषा शब्द का पहला प्रयोग प्राकृत के लिए हुआ है। पादलिप्त ( ५०० ई० ) उद्योतन ( ७६९ ) और कोऊहल ने प्राकृतों को 'देशी' कहा है। तरंगावई कहा के लेखक पादलिप्त ने अपनी प्राकृत भाषा को 'देसीवयण' कहा।<sup>२</sup> उद्योतन ने कुवलय माला में महाराष्ट्री प्राकृत को देशी कहा था और उसे प्राकृत से भिन्न बताया था।<sup>३</sup> कोऊहल ने 'लीलावई' में उसी महाराष्ट्री प्राकृत को 'देशीभाषा' कहा।<sup>४</sup> यह सत्य है कि 'लीलावई' में देशी शब्द भी मिलते हैं, किन्तु स्वयं दूसरी जगह पर कवि ने 'देशी भाषा' को ही प्राकृत भाषा कहा है।<sup>५</sup>

यह ध्यान देने की बात है कि जिस महाराष्ट्री प्राकृत को काव्यादर्श के रचयिता दण्डी ने श्रेष्ठ प्राकृत कहा, क्योंकि उसमें सूक्तियों को रत्नाकर सेतुबन्ध ऐसे काव्य हैं<sup>६</sup> उसी प्राकृत को अपनी मनोहरसुम्धा युवती को क्या

१. पिशेल ऐमैटिक टि० ६, तापरे द्वारा उद्धृत' हि० प्रै० अ०
२. पालित्पण्य रइया वित्थरओ तस्स देसीवयणोहि नाथेण तरंगावई कहा विचिन्ता विचिन्ता विडलायं ( याकोवी द्वारा सनखुमार चरित की भूमिका पृष्ठ १७ में उद्धृत )
३. पायय भासा रइयां माहट्टय देसी वयण शिवद्धा ( पांडु लिपि से डॉ० उपाध्ये द्वारा लीलावई की भूमिका में उद्धृत )
४. भणियं च पियय भाए रइयं मरहट्ट देसी भासाए अंगाई हमीए कहाए सज्जणा संग जोउगाई, लीलावई गाहा ३३०
५. एमेय युद्ध जुयई मनोहरं पाययाए भासाए पविरल देशी सुखवस्सं कइसु कं दिव्व माणुसियं । लीलावई, गाहा ४१
६. महाराष्ट्रियां भाषा प्रकृष्टं प्राकृतं विदुः सागर सूक्तिरत्नानां सेतुबन्धादि यन्मयन् : काव्यादर्श :

सुनाने वाले कोऊहल ने 'देशी भासा' कहा। उसी को उद्योतन 'देसी' कह कर प्राकृत से भिन्न मानते हैं।

वस्तुतः इन उद्धरणों से ध्वनित है कि जनता प्राकृत को देशी या देशी भाषा के रूप में ही जानती थी। साहित्यिक रूप ग्रहण करने पर उन जन भाषाओं का 'प्राकृत' नाम वैयाकरणों या अलंकारिकों ने दिया। यह साहित्यिक प्राकृत जनता से दूर हो गई। जनता की अपनी भाषा उसी साधारण रूप से विकसित होती रही और उसने विभिन्न अपभ्रंशों का रूप ले लिया। और अब ये अपभ्रंशों प्राकृत के टकर में देशी भासा कही जाने लगीं। इसके बाद हम देखते हैं कि अपभ्रंशों के कवियों ने इसी देशी भाषा को 'देसीवयण' देशभास आदि नामों से पुकारना शुरू किया।

प्रसिद्ध कालिकाल सर्वज्ञ कवि स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी कहा।<sup>१</sup> १०वीं शताब्दि के अन्तिम चरण में कवि पुष्पदन्त ने अपना प्रसिद्ध काव्य महापुराण लिखा और उन्होंने अपनी भाषा को 'देसी' कहा।<sup>२</sup> १००० ईस्वी में कवि पद्मदेव ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ पासयाहचरिड ( पार्वनाथचरित ) की भाषा को 'देसीसहस्रगाढ' से युक्त बताया।<sup>३</sup>

इस प्रकार के कई कवियों का उल्लेख करके पाहुड़ दोहा की भूमिका में डा० हीरालाल जैन ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि अपभ्रंश ही देशी भाषा है। इनका कथन सत्य है, पर अपभ्रंश को देशी मानने के काल की भी एक अवधि है। इस तथ्य को भूल जाने से हम गलती कर सकते हैं और कहीं भी देशी शब्द देखकर उसे अपभ्रंश कहने के मिथ्या मोह का शिकार हो सकते हैं। चौदहवीं शती के आस पास एक बार फिर भाषा को देसी, आमागिरा, आदि

१. दीह समास पवाहा बंकिम सकक्य पायय पुखियाळंकिम  
देसी भासा उभय तहुज्जल कवि हुक्कर धय सुहसिस्रायल  
रामायण १ ( हिन्दी काव्य धारा पृ० २६ )

२. य विष्णुमि देसी । महापुराण १।८।१०

३. वायरु देसि सहस्र गाढ

... झुन्दाळंकार विसाल पौढ

जइ एवायइ बहुलकरवयोहि

इय विरह्यं कव विपनसयोहि

( पासयाहचरिड )

कहने का जोर बढ़ा। विद्यापति का उदाहरण ऊपर है ही। महाराष्ट्री कवि ज्ञानेश्वर ने कहा

अम्हो प्राकृते देशीकारे बन्धे गीता

ज्ञानेश्वरी, अध्याय १८

और इसी आधार पर डा० कीलते ने ज्ञानेश्वरी से ऐसे शब्दों को ढूँढ़ा है जिन्हें उन्होंने मराठी सिद्ध किया।<sup>१</sup> वस्तुतः यहाँ देसी का अर्थ मराठी स्पष्ट है। यद्यपि ज्ञानेश्वरी में परवर्ती अपभ्रंश के रूप भी बहुतांश में मिलते हैं।

परवर्ती कवि तुलसीदास ने भी अपनी भाषा को 'ग्राम्यगिरा' 'भाखा' आदि नाम दिया। इन शब्दों के आधार पर देशी और अपभ्रंश को 'तदेव' मानने की एक काल सीमा बनानी चाहिए।

इस देशी या भाषा शब्द के बारे में थोड़ा और स्पष्ट करने के लिए इन कवियों के भाषा सम्बन्धी विचारों को गहराई से परखना चाहिए। सत्य तो यह है कि प्रत्येक कवि जो वास्तविक रूप से लोक-मंगल की भावना से काव्य प्रणयन करता है वह लोक सामान्य की भाषा भी ग्रहण करता है। अद्दहमाण ने कहा था कि मेरी भाषा न तो पंडितों के लिए है क्योंकि वे शायद ही सुनें, न तो मूर्खों के लिए ही है क्योंकि उनका प्रवेश कठिन है, इसीलिए यह साधारण लोगों के लिए है।

एहु सद्दइ बुहा कुकवित्त रेसि

अबुहत्तणि अबुहड एहु पवेसि

जिण मुक्ख न पंडिय मज्झार

तिह पुरउ पढिब्बउ सब्ववार

( संदेश रासक )

अपने विचार को और भी अधिक स्पष्ट करने के लिए ये कवि प्रायः एक बहुत ही प्रसिद्ध रूपक का सहारा लिया करते हैं। भाषा को या देशी को सदैव नदी की धारा के समान गतिशील मानते हैं। धारा से अलग होकर कुछ जलबद्ध हो जाता है उसे साहित्यिक भाषा की तरह समझना चाहिए। वैदिक भाषा से अलग बद्धजल के रूप में संस्कृत के निकल जाने पर वह धारा चलती रही और उसे प्राकृत या स्वाभाविक या संस्कृत की तुलना में देशी कहा गया।

अवहट्ट जैसा कहा गया मूल रूप से शौरसेनी अर्धभ्रंश या पश्चिमी अर्धभ्रंश का कनिष्ठ रूप है, इसमें क्षेत्रीय प्रयोग हो सकते हैं, इनके आधार पर चाहें तो दो एक मोटे भेद भी स्वीकार कर लें, किन्तु ऊपर गिनाए भेदों को अवहट्ट के प्रकार कह देना उचित नहीं लगता ।

अवहट्ट की जो रचनाएँ प्राप्त हैं उनके आधार पर अवहट्ट के केवल दो भेद स्वीकार किए जा सकते हैं । एक पूर्वी अवहट्ट दूसरा पश्चिमी अवहट्ट । उक्ति व्यक्ति प्रकरण के आधार पर एक मध्य देशी भेद भी कर सकते हैं किन्तु इस भेद की कोई खास आवश्यकता नहीं है; क्योंकि इसमें प्रायः पूर्वी और पश्चिमी अवहट्ट के प्रयोग मिले जुले रूप में मिलते हैं; प्राकृत वैंगलम् में भी, जो कि मूल रूप से पश्चिमी अर्धभ्रंश में लिखी गई है, पूर्वी प्रयोग मिलते हैं ।<sup>१</sup> इस प्रकार केवल दो प्रकार ही आधार प्रतीत होते हैं ।

१—पूर्वी अवहट्ट में कीर्तिलता, वर्णरत्नाकर, प्राकृत वैंगलम् के पूर्वी प्रभाव के अंश, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के पूर्वी प्रयोग आदि गृहीत हो सकते हैं ।

विद्यापति की 'कीर्तिपताका' भी अवहट्ट में लिखी गई रचना मालूम होती है किन्तु जब तक उसकी कोई ठीक-ठीक प्रति नहीं मिलती, कुछ कह सकना कठिन है । विद्यापति ने अवहट्ट भाषा में कुछ फुटकल कविताएँ भी लिखी हैं । नीचे उनमें से एक उद्धृत की जाती है ।

अखल रत्न कर लखन इरवन सक समुह कर अगिनि ससी  
चैत करि छवि जेण मिलि अओ बार वेहपवय जाहु लसी  
देवसिंह जू पुहुमि छडिय अदासन सुरराय सरु  
दुहु सुरताण निदे अब सेरहउ तपनहीन जग तिमिर भरु  
देखहुँ ओ पुहुमी के राजा पौरुष मँक पुराख बखिओ  
संतबले गंगा मिलित कलेवर देव सिंह सुरपुर खलिओ  
एक दिसि जवन सकल दख खलिओ एक दिसि जयरज चरु  
दुहुओ दख क मनोरथ पुरुओ गरुए दाप सिवसिंह करु  
सुरतल कुसुम घाखि दिस पूरओ दुन्दुहि सुन्दर साद भरु  
धीर छत्र देखने को कारन सुरगन सोभे गगन भरु ।

यह महाराज देवसिंह की मृत्यु पर सिवसिंह के युद्ध का वर्णन है । इस रचना की निचली पक्तियों की सरलता और उनकी सहजता का अनुमान स्पष्टता

से हो जाता है। भाषा की गति, तत्सम के प्रयोग, निर्विभक्तिक वाक्य गठन सब कुछ देखने योग्य हैं।

## चर्यागीत

चर्यागीत बहुत वर्षों तक भाषा शास्त्र के क्षेत्र में विवाद के विषय बने रहे। जैसा पहले ही कहा गया इनको प्रायः पूर्वी भाषा-भाषी लोगो ने अपनी अप्रपञ्जी भाषा का प्राचीन रूप सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। इस ग्रंथ का सबसे पहला परिचय का० म० इंद्रप्रसाद शास्त्री की 'बौद्ध गान और दोहा' नामक पुस्तक के प्रकाशन से हुआ। इसके अग्रपूर्व भूमिका में शास्त्री जी ने इसे प्राचीन बंगला स्वीकार किया। इसी आधार पर सुनीति कुमार चाटुर्ज्या ने इसे बंगला सिद्ध किया और उन्होंने इसके प्रमाण में बहुत से तर्क दिए। बौद्ध गान और दोहा में तीन प्रकार की रचनाओं का संग्रह है। १. चर्चाचर्य विनिश्चय २. सरोज वज्र तथा कृष्णपाद का दोहाकोश ३. डाकारणव।

डा० चाटुर्ज्या की राय में दोहाकोश की भाषा तो निश्चित रूप से शौरसेनी अपभ्रंश है क्योंकि उसमें शौरसेनी अपभ्रंश की निम्नलिखित विशेषताएँ पाई जाती हैं।<sup>१</sup>

१. कर्ताकारक में सज्ञाओं के उकारान्त रूप।

२. सम्बन्ध में 'ह' विभक्ति।

३. कर्मवाच्य में 'इज्ज' युक्त रूपों की प्राप्ति।

४. और इसकी मूल प्रवृत्ति का पश्चिमी अपभ्रंश से पूर्ण साम्य।

किन्तु चर्चाचर्य विनिश्चय को सुनीति बाबू ने पुरानी बंगला कहा।

उसके कारण उन्होंने इस प्रकार बताया।

१. सम्बन्ध की विभक्ति एर अर, सम्प्रदान में रे, अधिकरण में त विभक्तियों का प्रयोग।

२. भाक्त, अन्तर संग आदि परसर्गों का प्रयोग।

३. भविष्यत् काल में इव तथा भूतकाल में इल का प्रयोग न कि विहारी

अव तथा अल का।

४. पूर्वकालिक क्रिया में 'इआ' प्रत्यय का व्यवहार।

५. वर्तमान कालिक कृदत् 'अन्त' का व्यवहार।

६ कर्मवाच्य की विभक्ति 'इअ' का व्यवहार ।

७. 'अछ' और 'थाक' क्रियाओं का व्यवहार मैथिली 'थीक' का नहीं ।

सुनीति बाबू के तर्कों की समीक्षा के पहले में डा० जयकान्त मिश्र<sup>१</sup> और शिवनन्दन ठाकुर<sup>२</sup> के तर्कों को भी नीचे दे देना चाहता हूँ जिसके आधार पर इन लोगों ने चर्यागीतों को प्राचीन मैथिली कहने का दावा पेश किया है ।

१. विशेषण में लिंग निरूपण, स्त्रीलिंग में, संज्ञा के साथ स्त्रीलिंग विशेषण तथा स्त्रीलिंग कर्ता के साथ स्त्रीलिंग क्रिया का व्यवहार जैसे दिदि टांगी (चर्या । ५) सोने भरिती करुणा नावी । खु टि उपाडो मेललि काछी (चर्या । ८) तोहोरि कुडिआ (चर्या । १०) हाउं सूतेलि (चर्या । १८)

२. हओो या हाउं का प्रयोग जो विद्यापति में है चर्याओं में पाया जाता है पर बगला में नहीं ।

३. अपरो सर्वनाम का प्रयोग चर्याओं और मैथिली दोनों में पाया जाता है । बगला में नहीं मिलता ।

४. चर्याओं में वर्तमान काल के अन्य पुरुष की क्रिया में 'थि' विभक्ति लगती है । भगथि ( चर्या १० ) तथा बोलाथि ( चर्या २६ ) ।

५. प्रेरणार्थक प्रत्यय 'आव' चर्याओं में पाया जाता है । वन्भावए ( चर्या २२ )

६. विद्यापति के पदों में एरि विभक्ति पाई जाती है ।

७. चन्द्रविन्दु के रूप में विभक्तियों का प्रयोग चर्याओं में पाया जाता है यह प्रयोग मैथिली का अपना है ।

८ 'अछ' क्रिया बगला तथा मैथिली दोनों भाषाओं की सम्पत्ति है ।

यदि ध्यान पूर्वक ऊपर के दोनों तर्कों पर विचार करें तो लगता है जैसे स्वयं ये एक दूसरे की वास्तविकता को चुनौती देते हैं । वस्तुतः चर्याओं की भाषा पर मैथिली, भोजपुरिया और मगही भाषाओं का प्रभाव अधिक है बंगला का कम । और इसके सबसे बड़ा कारण चर्याओं के निर्माताओं के निवास स्थान हैं जो इन भाषाओं के घेरे में ही पड़ते हैं । बंगाली विद्वानों ने बहुत से सिद्धों को बंगाल देश का भी बताया है । बहुत संभव है कि इनमें से कुछ ही भी परन्तु ऐतिहासिक प्रमाणों से सिद्ध है कि चौरासी सिद्धों में से अधिकांश विक्रम-

१. हिस्त्री अव् मैथिली लिटरेचर, चर्या सम्बन्धी निबन्ध,

२. महाकवि विद्यापति पृ० २१५...१६ ।

शिला और नालन्दा के प्रसिद्ध विहारों से सम्बद्ध थे।<sup>१</sup> और यही कारण है कि उनको कविताओं में अवहट्ट के दाचे साथ साथ मैथिली भोजपुरिया आदि के रूपों का बाहुल्य है। डा० चाटुर्ज्या के तर्कों पर विचार किया जाय तो वे बहुत दूर तक पुष्ट और मान्य सिद्ध नहीं होंगे। माफ, अन्तर, सग आदि परसर्गों का प्रयोग कीर्तिलता में ही नहीं प्राकृत पैगलम आदि में भी मिलता है।<sup>२</sup> भविष्यत् काल में इसका प्रयोग भोजपुरिया में पाया जाता है। हम जाइब, हम खाइब, में प्रयोग प्रायः उत्तम पुरुष के हैं और चर्याओं में भी ये उत्तम पुरुष में ही पाए जाते हैं। खाइब मंह : ३६ : लोडिब चा : २८ : जाइब : २१ : मध्यम पुरुष में भी आए हैं पर निरादरार्थ में। थाकिव तैं कैसे : ३६ : भोजपुरिया में भी तू 'जइबे' होता है। इल का प्रयोग भी भोजपुरिया की विशेषता है। ऊ गइल, रात भइल, चर्याओं में ऐसे ही रूप मिलते हैं। इनको बगला मानने का कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता। पूर्वकालिक क्रिया के लिए इअ या इआ प्रत्यय का व्यवहार बगला की ही कोई विशेषता ही ऐसी बात नहीं। यह अवहट्ट की अपनी विशेषता है। इसका प्रयोग कीर्तिलता, चर्यांवाकर, प्राकृत पैगलम में बहुत मिलता है।<sup>३</sup> वर्तमान कालिक कृदन्त के अन्त वाले रूपों का व्यवहार भी अवहट्ट की सर्वमान्य विशेषता है और जैसा टेसीदरी ने कहा है कि अवहट्ट की यह अपनी विशेषता है।<sup>४</sup> इसका भी प्रयोग पश्चिमी पूर्वी सभी अवहट्ट ग्रंथों में घड़ल्ले से हुआ है। कर्मवाच्य के इअ और इज दोनों रूप अवहट्ट में मिलते हैं। इस प्रकार इनके आधार पर चर्यागीतों को बंगला मान लेने का कोई सबल आधार नहीं है। वस्तुतः ये अवहट्ट की रचनाएँ हैं और इनमें इन क्षेत्रीय प्रयोगों के भीतर मूल टांचा कनिष्ठ शौरसेनी अपभ्रंश का है। सर्वनाम में अपने, तोर, मो, इउं, जो, जेण, जसु, तसु का प्रयोग अधिकतर मिलता है। सर्वनामों के बने विशेषणों के जैसन, तैसन, रूप तथा जेम तेम जिम, अइस आदि रूपों का प्रयोग मिलता है। भूतकाल में केवल 'ल' प्रत्यय युक्त ही रूप नहीं, गिउ, हुआ, अहरिउ, थाकिउ आदि भूत कृदन्त से बने रूप भी मिलते हैं जो शौरसेनी अपभ्रंश पाये जाते हैं। इस प्रकार यह निश्चित है

प्राकृत जी का निबन्ध, गंगा पुरातत्वांक ।

२. अवहट्ट भाषा की विशेषताएँ शीर्षक अध्याय § ३५

३. कीर्तिलता की भाषा § ७२

४. टेसीदरी, इंडियन ऐंटिकवेरी १९१४ फरवरी। अवहट्ट की विशेषताएँ § २३

कि चर्यागीत अवहट्ट की रचनाएँ हैं उन्हें अपनी अपनी भाषाओं के विकास में सहायक समझना और अपना मानना बुरा नहीं है, किन्तु ऊपर दूसरे का अधिकार न मानना अनुचित है।

पश्चिमी अवहट्ट में गुर्जर काव्य संग्रह की रचनाएँ, प्राकृत पैंगलम्, सन्देश रासक, रणमल्ल छन्द, आदि प्रकाशित रचनाओं को शामिल किया जा सकता है। विनय चन्द सूरि की नैमिनाथ चतुष्पदिका (१३०० ?) अंबदेव सूरि का समर रास (१३१४ ई०), जिनपद्मसूरि का थूलभद्रफागु १२०० ईस्वी तथा श्रीधर ध्यास का रणमल्लछन्द १४०० ई० आदि रचनाएँ परवर्ती अपभ्रंश के स्वरूप निर्धारण की दृष्टि से महत्वपूर्ण कही जा सकती हैं।

इस प्रकाशित सामग्री के अलावा न जाने कितनी विपुल सामग्री अद्यावधि अप्रकाशित रूप में भांडारो तथा पुस्तकालयों में दबी पड़ी है। तेसीतरी ने अपना पुरानी पश्चिमी राजस्थानी सम्बन्धी जो निबन्ध प्रस्तुत किया है, उससे पिछले अपभ्रंश की विपुल सामग्री का पता चलता है। तेसीतरी ने यह सामग्री इंडिया हाउस के पुस्तकालय तथा फ्लोरेंस के पुस्तकालयों में संरक्षित पाण्डुलिपियों से प्राप्त की थी। जैन भांडारो की सामग्री के सूचीपत्र मात्र से ही इस प्रकार के अप्रकाशित ग्रंथों के महत्व का पता चलता है। आमेर भांडार के सूचीपत्र में परवर्ती अपभ्रंश के कई नए कवियों का पता चलता है।

## अवहट्ट का गद्य

संस्कृत भाषा ने विपुल गद्य साहित्य उपलब्ध है। वाण, सुवन्धु, दंडी आदि ने गद्य साहित्य को जो चरम विकास दिया वह किसी भी भाषा के गद्य के लिए स्पर्धा की वस्तु है। गद्य के विभिन्न प्रकार निश्चित किए गए। वामन ने वृत्तगन्धि उत्कलिका ग्रंथ, और चूर्याक ये तीन भेद बताए जिसमें विश्वनाथ कविराज ने एक चौथा प्रकार मुक्तक भी स्वीकार किया। मुनि जिन विजय जी ने धनपाल नामक कवि की तिलकमंजरी के गद्य की बड़ी प्रशंसा की है “समस्त संस्कृत साहित्य के अनन्त ग्रंथ संग्रह में वाण की कादम्बरी के सिवाय इस कथा की तुलना में खड़ा हो सके ऐसा कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है। वाण पुरोग भी है, उसकी कादम्बरी की प्रेरणा से ही तिलकमंजरी रची गई है; पर वह निःसंदेह कहा जा सकता है कि धनपाल की अतिमा वाण की चढ़ाई हुई न हो तो उतरती हुई भी नहीं है।”

संस्कृत भाषा में के गद्य का अभाव सा हो जाता है और प्राकृत



में नाम के लिए थोड़ा सा गद्य प्राप्त है जिसे न होना ही कहना चाहिए। कौतूहल की लीलावर्द्धि में कुछ पंक्तियाँ मिलती हैं। 'सम्राट्त्वच कथा' और 'वसुदेव हिंडी' में भी गद्य है। अपभ्रंश में कुवलय माला कथा में कुछ गद्य मिलता है। इसके गद्य में तत्सम शब्दों की भरमार है। पर, संस्कृत की तरह बहुत लम्बे लम्बे समस्त पद नहीं मिलते न तो इसमें बीच बीच में तुकान्त करने की प्रवृत्ति ही दिखाई पड़ती है। एक छोटा सा उदाहरण नीचे है।

भो भो भट्टकृत्ता तुम्हें ण याणर यो राजकुले वृतान्त  
तेहिं भणियं भण्य हे व्याघ्रस्वामि का वार्ता राजकुले  
तेण भणियं कुवलयमालापुसिसदवधिपर पातओ लंविताः  
इमं च सोऊण अपफोडिऊण एको उट्टिउ चट्टो। मणियं च  
येणं यदि पांडित्येन ततो मई परियेतव्य कुवलयमाल।

पूर्ववर्ती अपभ्रंश में गद्य का प्रयोग बहुत कम दिखाई पड़ता है। परन्तु अवहट्ट काल में आते आते गद्य साहित्य का विकास होने लगता है। जैसा कि पहले ही कहा गया। अवहट्ट का विपुल साहित्य अद्यावधि अप्रकाशित ही पड़ा है। इस विशाल साहित्य का कुछ भाग कभी कभी विद्वानों द्वारा यत्र तत्र परिचय के लिए प्रकाशित अवश्य होता है जो उसके विकास और गठन की प्रौढ़ता का द्योतक तो अवश्य होता है किन्तु शास्त्रीय अध्ययन का विषय कठिनाई से बन सकता है। फिर भी इस साहित्य का बहुत भाग प्रकाश में आ गया है। प्राचीन गुर्जर कवियों संग्रह को ११ रचनाओं में ७ मध्य की रचनाएँ हैं, जो भिन्न भिन्न कालों के विकास के रूप में देखी जा सकती हैं। 'अवहट्ट मिश्रित गुजराती गद्य प्राचीन गुजराती गद्य सन्दर्भ' में संग्रहीत है। श्री अग्ररचन्द नाहटा ने सम्वत् १९६८ में ही किसी अप्रकाशित ग्रन्थ के कुछ नमूने 'वीरगाथा काल का जैन साहित्य' शीर्षक से नागरी प्रचारिणी पत्रिका में प्रकाशित कराया था।<sup>१</sup> इधर उन्होंने यू० पी० डिप्लोमेटिकल सोसाइटी के जर्नल के बारहवें भाग में तरुणप्रभ सूरि नामक जैन विद्वान की पुस्तक 'दशार्णभद्रकथा' की सूचना प्रकाशित कराई है। इससे मालूम होता है कि चौदहवीं शती के इस जैन कवि के गद्यों में भी तत्सम शब्दों की प्रधानता है।

पूर्वी क्षेत्रों में गद्य की दो पुस्तकें मिलती हैं। पहली ज्योतिरीश्वर ठाकुर

१. श्री अग्ररचन्द नाहटा का लेख, नागरी प्रचारिणी पत्रिका वर्ष ४६ अंक ३।

की वर्णरत्नाकर और विद्यापति की कीर्तिलता । वर्णरत्नाकर सम्पूर्णा गद्य में ही है । वर्णरत्नाकर की भाषा में जैसा निवेदन किया गया शब्द सङ्कलन की प्रधानता के कारण गद्य-प्रौढि का दर्शन नहीं होता । फिर भी गद्य को यह एक बड़ी ही अमूल्य निधि है । कीर्तिलता में गद्य का प्राधान्य है और यह अपनी अलग विशेषता रखता है । नीचे अवहट्ट गद्य के कुछ उदाहरण उपस्थित किए जाते हैं ।

१—उक्ति व्यक्ति प्रकरण

गाग न्हाएँ धर्म हो, पापु जा । जस जस धर्म बाढ़, तस तस पापु घाट । जब जब धर्म बाढ़, तब तब पापु ओहट । जैसे जैसे धर्म जाम तैसे तैसे पापु खाम । जेई जेई धर्मु पसर तेई तेई पापु ओसर । येहा येहा धर्मु चढ, तेहा तेहा पापु खस । जाहाँ जाहाँ धर्मु नाद, ताहाँ ताहाँ पापु मान्द ।

२—वर्णरत्नाकर

गौमेदक पारी चारिहु दिसि छललि अछ ! इन्द्रनीलक साटि पद्मराम चक्र हिमालयक पुरुष अधिष्ठान वइसल अछ्छ । चुत चन्दन चाप श्रीफल, अशोक, अगरु, अश्वत्थादि ये अनेक वृक्ष तेँ अलंकृत पंक तट अइसन सर्वगुण सम्पूर्णा पोखरा देषु ।

३—आराधना १३६० ।

परमेष्ठि नमस्कार जिन शासनसार चतुर्दशपूर्व समुद्धार सम्पादित सकल कल्याण सभारु विहित दुरितापहार क्षुद्रोपद्रवपर्वत वज्रप्रहार लीलाइलित संसार सु तुम्हि अनुकरहु पंचमरमेष्ठिनमस्कार स्मरहि, तज तुम्हि स्मरेवउ, अनइ परमेश्वरि तीर्यंकरदेवि, इसउ अर्थ मणियउ अछ्छइ । अनई ससारतणउ प्रतिमउ म करिसउ अनइ सिद्ध नमस्कारा इहालोकि परलोकि सम्पादियइ । आराधना समप्तेति ।

४—पृथ्वी चरित्र पृ० ६६ सम्बत् १४७८ । माणिक्य सुन्दरसूरि

तिथि पाटण्णि राजाधिराज पृथ्वीचन्द्र इसियं नामियं राज्य प्रतिपालइ । मुजबल करि वयरो वर्ग टालइ । जिथि राजा गोजु देश नउ राउ गंजिउ, भोटनठ भजिउ, पंचालनउ राज पालउ पुलइं करनडा देशनउ कोठारि रुलाई दोसमुद्रतउ ठौंमखाँ दोयइ, वावरउ धारि वइठउ, टगमग जोयइ, चौवनउ दंड चांपिउ, कश्मीरनउ कापिउ सोरठीयउ सेवइ, तुडि न करेइ देवइ ।

सभी रचनाएँ गुर्जर काव्य संग्रह से ली गई हैं ।

पृथ्वी चरित्र काफी लम्बी और परवर्ती अपभ्रंश गद्य की बड़ी ही प्रौढ़ रचना है।

५—अतिचार सम्वत् १३४०।

वारि भेदु तप छहि भेद। वाह्य अणसण इत्यादि। उपवास आंबुलनीविय, एकासणु पुरिगड्ड व्यासण, यथा शक्तिपु तथा ऊनोदरितपु वृत्तिसखेउ। उपवास कौधइ, वीरासइं सवित्त पाण्डिउ पीघउ हुअइ।

६—सम्वत् १३५८ सर्वतीर्थनमस्कारस्तवन।

पहिलउ त्रिकालअतीत अनागत वर्तमान वहचरि तीर्थकरि सर्वपाप क्षयकरे हउं नमस्करउ। तदनन्तर पाचे भरते, पांचे ऐरावते पांच महाविदेहे सन्तरिसउ उत्कृष्टकलि विहरभाग हउं नमस्करउं।

कीर्तिलता के उदाहरण नहीं दिए जा रहे हैं क्योंकि उसके गद्य का परिचय अपेक्षित नहीं है।

अवहट्ट गद्य की विशेषतायें ऊपर के उद्धरणों से स्पष्ट हो जाती हैं। जहाँ तक भाषा का सवाल है इसकी गठन से ही स्पष्ट है कि इस प्रकार का गद्य पूर्ववर्ती काल में नहीं लिखा जा सका। प्रथम तो गद्य की भाषा में जब तक संस्कृत शब्दों का मिश्रण नहीं होता आर्यभाषाओं में से किसी भाषा का भी गद्य विचारपूर्ण रचनाओं के लिए समर्थ नहीं हो पाता। ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान तथा भक्ति आन्दोलन के कारण तत्सम का प्रचार होने लगा। कुवलयमाला कथा, उक्तिव्यक्ति प्रकरण के उदाहरणों से स्पष्ट है कि १२वीं शती के आस पास ऐसी प्रवृत्ति दिखाई पड़ने लगती है। बाद में तो संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रचार ही नहीं उस भाषा के गद्य की बहुआहत समस्त पदों वाली पद्धति का भी अनुसरण किया गया। कीर्तिलता में ही लम्बे लम्बे तीन तीन वाक्यों के समस्त पद मिलते तो कोई बात भी थी। अन्य जो उदाहरण दिए गए हैं उनमें भी यह चीज परिलक्षित होती है। इस गद्य की दूसरी विशेषता है एक वाक्य में ही पदों के तुकान्त अथवा कभी कभी वाक्यान्तों में भी तुकान्त का प्रयोग। कीर्तिलता में यह बड़ी प्रचलित है।

‘अरे अरे लोकहु वृथाविस्मृत स्वामिशोकहु कुटिलराज नीति चतुरहु मोर वअन आकराणे करहु। तन्हि चेर्यान्हि करो सुखसारमडन्ते अलक तिलका पत्रावली खडन्ते, दिव्यावर पिन्वन्ते, उभारि उभारि कश पास बन्धन्ते, सरिवजन प्रेरन्ते, हसि हेरन्ते आदि।’ यह प्रवृत्ति आराधना, पृथ्वीचद्र, अतिचार आदि रचनाओं

के उदाहरणों में लक्ष्य की जा सकती है। यह अन्तर्पदीय तुकान्त की प्रवृत्ति निःसन्देह विदेशी है। मुसलमानों के सम्पर्क में आने पर फ़ारसी तुकों की तरह निर्मित मालूम होती है। हिन्दी गद्य के आरंभ में ऐसी प्रवृत्ति दिखाई पड़ी थी। खड़ी बोली के बहुत से नाटकों में भड़ौवा तर्ज के अन्तर्तुकान्त गद्य मिलेंगे। रासो की वचनिकाओं में भी यह प्रवृत्ति लक्षित होती है। गद्य की तीसरी विशेषता है वाक्य गठन की। इनमें वाक्यों को तोड़ तोड़ कर, सर्वनाम के प्रयोगों के साथ नए वाक्य जोड़ने (Periphrasis) की भी प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। ऊपर के कुछ गद्यों में 'इसिय' से वाक्य शुरू किया गया है।

## अवहट्ट की मुख्य विशेषताएँ और उसका हिन्दी पर प्रभाव

पिछले वर्षों में भाषाशास्त्र के अध्येता के सम्मुख अपभ्रंश की विपुल सामग्री उपस्थित हो गई है, इसलिए हिन्दी या आधुनिक आर्य भाषाओं के अध्ययन में अपभ्रंश की देन पर वह पिशेल या याकोबी से अधिक विश्वास के साथ विचार व्यक्त कर सकसा है। किन्तु इस पुष्कल सामग्री के उपलब्ध हो जाने के कारण भाषा का अध्ययन करने वालों का उत्तरदायित्व भी बढ़ गया है, अपभ्रंश, जैसा कि इसके इतिहास से प्रतीत होता है, ६ वीं ७ वीं शताब्दि से १६ वीं तक किसी न किसी रूप में साहित्य रचना के माध्यम के रूप में स्वीकृत रहा है, इसलिए सम्पूर्ण उपलब्ध साहित्य अपभ्रंश का ही कहा जाता है और उसे हम ज्यों का त्यों वर्तमान आर्य भाषाओं का पूर्ववर्ती साहित्य मानकर उसमें इन भाषाओं के उद्गम और विकास के सूत्र भी ढूँढ़ने लगते हैं। यह ठीक भी है किन्तु यदि अपभ्रंश की पूरी सामग्री की छान-बीन की जाय तो अपभ्रंश के दो रूप स्पष्ट मिलेंगे। एक रूप बहुत कुछ प्राकृत भाषाओं से प्रभावित है। इसमें प्राकृत के तद्भव शब्दों की अधिकता है, वाक्य-गठन भी प्राकृत की तरह ही है। कभी-कभी तो अपभ्रंश की प्राचीन रचनाओं में क्रियापदों के कुछ रूपों को छोड़ कर भाषा का पूरा स्वरूप प्राकृतवत लगता है। इसीलिए याकोबी ने कहा था कि अपभ्रंश मुख्यतः प्राकृत के शब्द कोश और देशभाषाओं के व्याकरणिक ढाँचे को लेकर खड़ा हुआ। देशभाषाएँ जो मुख्यतः पामरजन की भाषाएँ थीं वे शुद्ध रूप में साहित्य के माध्यम-रूप में गृहीत नहीं हुईं इसलिए वे साहित्यिक प्राकृत के भीतर सूत्र रूप से गूथ दी गईं और उसी का फल अपभ्रंश है।<sup>१</sup> याकोबी के इस कथन में जो भी तथ्य हो, इतना तो स्पष्ट ही है कि पूर्ववर्ती अपभ्रंश पर प्राकृत के घोर प्रभाव को देखकर ही याकोबी को इस तरह का विचार व्यक्त करना पड़ा। अपभ्रंश से हिन्दी के विकास का सूत्र सुलभाने वाले विद्वान्

१. याकोबी, भविसयत्त कहा पृ० ६८, भाषाशास्त्री द्वारा सन्देश रासक के व्याकरण में उद्धृत

भी पुरानी अपभ्रंश में हिन्दी के बीज ढूँढ़ने का कष्ट कम ही करते हैं। कारण स्पष्ट है। प्राचीन अपभ्रंश में उनको ऐसे सूत्र कम मिलते हैं, परवर्ती अपभ्रंश में ही इस तरह के सूत्र मिल सकते हैं क्योंकि परवर्ती काल में अपभ्रंश बहुत कुछ प्राकृत प्रभावों को भाड़ने लगा था और उसमें देशभाषाओं का वह मूल ढाँचा विकसित हो रहा था, जो एक तरफ अपभ्रंश से भिन्न जन भाषाओं में नया रूप ग्रहण कर रहा था। अपभ्रंश की न्यून सामग्री के आधार पर भी, गुलेरी जी ने इस तथ्य को पहचाना था और उन्होंने स्पष्ट कहा कि अपभ्रंश दो तरह की थी। “पुरानी अपभ्रंश संस्कृत और प्राकृत से मिलती थी, पिछली पुरानी हिन्दी से”<sup>१</sup> दूसरे स्थान पर उन्होंने कहा ‘विक्रम की सातवीं शताब्दी से ग्यारहवीं तक अपभ्रंश की प्रधानता रही, फिर वह पुरानी हिन्दी (परवर्ती अपभ्रंश) में परिणत हो गई।’<sup>२</sup>

हम इस स्थान पर यही दिखाना चाहते हैं कि परवर्ती अपभ्रंश किन बातों में पूर्ववर्ती से भिन्न था। वे कौन सी मुख्य विशेषताएँ हैं जो अचहट में तो दिखाई पड़ती हैं किन्तु जिनका परिनिष्ठित अपभ्रंश में अभाव है या वे अविकसित अवस्था में दिखाई पड़ती हैं। इसी के साथ-साथ प्रसंगानुसार हम यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये प्रवृत्तियाँ बाद में हिन्दी के विकास में कैसे सहायक हुईं। हिन्दी अचहट से विकसित नहीं हुईं। हिन्दी के विकास में इस अचहट का प्रभाव अवश्य माना जा सकता है। वैसे हिन्दी शब्द भी भाषा शास्त्रीय दृष्टि से उलझा हुआ है। स्पष्टीकरण के लिए इतना और निवेदन कर दूँ कि हिन्दी से मेरा मतलब पूर्वी और पश्चिमी हिन्दी है विशेषतः अवधी, ब्रज और खड़ी बोली।

अचहट की भाषा सम्बन्धी विशेषताओं पर विचार करने के पहले इतना और कह देना आवश्यक है कि अचहट के पूर्वी और पश्चिमी भेदों को अलग-अलग दिखाना उचित नहीं जान पड़ा। क्योंकि अचहट तो पूर्वी और पश्चिमी भेद नष्ट नहीं हैं, यानी ये भेद पूर्ववर्ती अपभ्रंश में भी थे। ये क्षेत्रीय विशेषताएँ हैं, इन्हें अचहट की मुख्य विशेषताएँ नहीं कह सकते; फिर भी क्षेत्रीय प्रयोगों में जो प्रयोग व्यापक और प्रभावशाली हैं, उनका प्रासंगिक रूप से वर्णन अवश्य किया जायेगा।

अचहट की प्रवृत्तियों के निर्धारण में मुख्यतया नेमिनाथ चतुष्पदिका

सन्देश रासक, प्राकृत पैगलाम्, थूलिभद्दु फागु, कीर्तिलता, वर्णरत्नाकर, चर्यागीत और उक्ति व्यक्ति की भाषा को ही आधार रूप में ग्रहण किया है।

## ध्वनि-सम्बन्धी विशेषताएँ

अपभ्रंश और अवहट्ट में ध्वनि-विचार की दृष्टि से कोई बहुत महत्वपूर्ण अन्तर नहीं दिखाई पड़ता, फिर भी परवर्ती अपभ्रंश में कुछ ऐसी बातें अवश्य मिलती हैं जो पूर्ववर्ती में नहीं हैं या कम हैं।

§१—पूर्व स्वर पर स्वराघात—प्राकृत के सयुक्त व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से थोड़ा सहज बनाने के लिए हटा दिया जाता है और उनके स्थान पर एक व्यंजन का प्रयोग होता है। ऐसी अवस्था में कभी संयुक्त व्यंजनद्वित्व के पूर्ववर्ती स्वर को दीर्घ कर दिया जाता है। कभी दीर्घ नहीं भी करते, परन्तु मुख-मुख के लिए द्वित्व को सरल कर लेते हैं। डा० देसीतरी ने इसे अवहट्ट की सर्व प्रमुख विशेषता स्वीकार किया।<sup>१</sup>

## क—क्षतिपूर्क दीर्घाकरण की सरलता

ठकुर ( कीर्ति २/१० < ठक्कुर ) दूसिहइ ( कीर्ति १/४ < दुस्सिहइ = दुस्स = दुष्य ) काज ( कीर्ति० ३/१३४ < कज्ज = कार्य ) लाग ( कीर्ति० २/१०८ < लग्ग = लग्ने ) ऊसास ( सं० रा० ६७ क < उस्सास = उच्छ्वास ) नीसास ( सं० रा० ८३ ग = निस्सा = निश्वासः ) वीसरइ ( सं० रा० ५४ ग < विस्स = विस्मरति ) दीसहि ( सं० रा० ६८ घ = दिस्स = दृश्यं ) पीसियइ ( सं० रा० १८७ क < पिस्स = पिष्य० ) आसोय ( सं० रा० १७२ क < \* अस्सउय < = अश्वयुज ) । नाचइ ( थूलि० फा० ६ < नच्चइ = नृत्यति ) आछइ ( नेमि० चतु० ११ < अच्छइ = \* अक्षति ) दीठइ ( नेमि० चतु० १६ < दिठ्ठइ दृष्ट० ) दीजइ ( नेमि० १६ दिज्जइ = दीयते ) सीक्क ( उ० व्यक्ति ५१/१६ सिज्ज = सिद्धयति ) बीदा ( उ० व्यक्ति १४/१६ < विद्दा < विद्या ) भूठ ( जूठ उ० व्यक्ति ५२/३ = उच्छिष्टम् ) मीत ( उ० व्यक्ति २३/८ < मित्त सं = मित्र ) सीघ ( उ० व्यक्ति ४७/१३ < = सिद्ध ) ईसर ( उक्ति० व्यक्ति ५०/१७ < इस्सर = सं० ईश्वर ) णीसक ( प्रा० पै० १२८/४ = निःशक ) तासु ( प्रा० पै० ३०/६ < तस्स = तस्य ) वीसाम ( प्रा० पै० १७३/४ = विश्रामः ) सूणी

<sup>१</sup>. देसी तरी, इंडियन ऐंटिक्वैरी. १३१४ O. W. R.

( ४८१/४ प्रा० पै० < = श्रुत्वा ) आछे ( प्रा० पै० ४६५/२ < अञ्छह ) ।  
 ख—कभी कभी द्वित्व और संयुक्त व्यञ्जन को मुख-मुख की दृष्टि से सरल  
 तो कर लेते हैं; परन्तु पूर्व स्वर को दीर्घ नहीं भी करते । द्वित्व या संयुक्त व्यञ्जन  
 को आसान करने के लिए एक व्यञ्जन कर देते हैं परन्तु पूर्ववर्ती स्वर को दीर्घ  
 नहीं करते । अपन, कीर्ति २।४८ < अप्ण्य (= आत्मनः) सवे, कीर्ति २।६०  
 < सवे (= सर्वे) वक्वार कीर्ति २।८३ (= वक्रद्वार) मच्छहटा कीर्ति २।१०३  
 < मच्छहट (= मत्स्यहाटक) रिज कीर्ति० २।११६ (= ऋजु) काअथ कीर्ति  
 २।१२१ < काअथ (= कायस्थ) वेसा कीर्ति २।१३५ (वेश्या) आअत ३।५७  
 (< आयत्त) राउत कीर्ति० ३।१४५ राउत्त (= राजपुत्र) तुरुक २।२११ तुरुक  
 (= तुरुक) सकुलिय सं० रा० २३ ख (= सक्कु° = शक्कुलिका) कणयार सं०  
 रा० ६० ख (= कणियार = कर्णिकार) वखाणियह सं० रा० ६५ ख (=  
 वक्त्वा° = व्याख्यान । इक्ति सं० रा० ८० ख (= इक्ति-एकत्र) आलस सं०  
 रा० १०५ (< आलस्य) कपूर सं० रा० ७० क < कर्पूर । संयुत प्रा० पै० ४००।४  
 ( < संयुक्त) । सहव प्रा० प्रै० २७०।४ (< सोढव्य) । उलस प्रा० प्रै० ५८१।५  
 < उल्लास, यहाँ ह्रस्व हो गया है । उवरल प्रा० पै० ८०।७ < उर्वरितं । अठाइस  
 प्रा० पै० २६६।१ < अठ्ठाइस < अष्टाविंशतिः । इंदासण प्रा० पै० २४।२ < इन्द्रा-  
 सनं । उपजति, उक्ति व्यक्ति १०।६ (= उत्पद्यन्ते) उडास उक्ति ४६।२७  
 (= उदासति) उवेल उक्ति ५२।१५ (= उद्वेलय) काठहू, उक्ति-व्यक्ति १३।२१  
 < काठम् मगसिरि नेमि० चतु० १४।क < मगसिर < मार्गशीर्ष । सामिय  
 नेमि० चतु २०। ग (= स्वामिन् )

सरलीकरण Simplification की प्रवृत्ति जो अवहट्ट के इस काल से  
 आरंभ हुई, वह बाद में चलकर आधुनिक आर्य भाषाओं में बहुत ही प्रबल दिखाई  
 पड़ती है । आधुनिक आर्य भाषाओं में प्राकृत के बहु-प्रयुक्त तद्भव शब्द जिनमें  
 द्वित्व के कारण कर्कशता दिखाई पड़ती है सरल या सहज बना लिए गए हैं ।  
 पूर्ववर्ती अपभ्रंश की कोई पंक्ति ऐसी न मिलेगी जिसके हर पद में द्वित्व या  
 संयुक्त व्यञ्जन न दिखाई पड़े । किन्तु बाद में आ० आर्य भाषाओं में यह प्रवृत्ति  
 नहीं दिखाई पड़ती । प्रायः यह सरलीकरण कभी संयुक्त व्यञ्जन—की जगह एक  
 व्यञ्जन करके पूर्ववर्ती स्वर को क्षतिपूर्ति के लिए दीर्घ करके होता है । कभी दीर्घ  
 नहीं भी करते और कभी दीर्घ का ह्रस्व तक हो जाता है । प्राकृत पैंगलम् में  
 उल्लास ५८१।५ > उलस हो गया है । उक्ति व्यक्ति प्रकरण में भी इस तरह की  
 प्रवृत्ति मिलती है । भिच्चा > भिन्त्वा > भीच्चा > भीख होता है परन्तु भिच्चाकारिक



<शब्द भिक्खा-आरिअ>भीख-आरिअ>भिखारी (४६।२०) होता है। चटर्जी ने इसका कारण वलाघात का परिवर्तन बताया है। ग्राम शब्द का रूप गाँव होता है इसमें स्वर ज्यों का त्यों है किन्तु जब ग्राम-कार का रूप बदलता है तब ग्रामकार>गाँवार>गमार ४१।८ होता है चटर्जी, [उक्ति व्यक्ति स्टडी] ३५। इस तरह की प्रवृत्ति अवहट्ट में प्रायः दिखाई पड़ती है। इसका प्रभाव हिन्दी की अवधी, ब्रज आदि सभी बोलियों पर दिखाई पड़ता है।

§ २—सरलीकरण (Simplification) का प्रभाव स्वरों की सानुनासिकता के प्रसंग में भी दिखाई पड़ता है। प्रा० भा० आर्य भाषा काल में अनुस्वार और सानुनासिकता दोनों का तात्पर्य स्वर की सानुनासिकता से था। स्पर्श व्यंजनों में अनुस्वार केवल य र ल व श प स ह के होने पर ही लगता था किन्तु म० आ० भाषा काल में अनुस्वार देने की प्रवृत्ति बढ़ गई। परवर्ती अपभ्रंश में इस अनुस्वार को भी श्रुतिसुख के लिए ह्रस्व कर देते हैं, इसकी क्षतिपूर्ति के लिए ही पूर्ववर्ती स्वर को दीर्घ कर देते हैं।

आँग (२।११० की० <अग) आँचर (की० २।१४६ <अञ्चल) काँड (की० ४।१६३ <करण <कर्ण) वाँधा (की० ४।४६ <बन्ध) बाँकुले (की० ४।४५ <वक्र) लाँधि (की० ४।४८ <लघ्) काँधअ (चर्या० ३ <कधा <स्कन्ध) साँगा (चर्या० ८ <संग) गाँग (उ० व्य० ५।२३ <गंगा) चाँद (वर्णरत्ना० १८ क ल चन्द्र) सोधा (व० र० ५० क सुगन्ध) 'काँट (वर्ण० ७५ ब ल कटक)। १३ वी चौदहवी शती के आस पास इस प्रकार के ह्रस्व सानुनासिकता को प्रवृत्ति बढ़ी। पूर्वी अवहट्ट में यह प्रवृत्ति ज्यादा दिखाई पड़ती हैं; पश्चिमी में अपेक्षाकृत कम; परन्तु ब्रजभाषा आदि वाद की भाषाओं में यह प्रवृत्ति बहुत बढ़ी। निसॉक आँक, वाँक आदि शब्द ब्रजभाषा में प्रचुर रूप से मिलते हैं। ज्ञानेश्वरी की भाषा में भी इस प्रकार की ह्रस्व सानुनासिकता की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। खाँव ल स्क्व; खॉडिजे ल खण्ड, पाँगु ल पगु आदि प्रयोगों के आधार एम० जी पसे ने उसे ज्ञानेश्वरी की भाषा की एक विशेषता स्वीकार किया है,<sup>१</sup> यह प्रवृत्ति उस काल की प्रायः अधिकांश रचनाओं में मिलती है।

१. बुलेटिन आव दि डेकेन कालेज रिसर्च इंस्टि० भाग १० सं० २ पृ०

§३—अकारण सानुनासिकता—आ० आर्य भाषाओं में कई में इस प्रकार की अकारण सानुनासिकता की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। इस प्रवृत्ति का आरम्भ अवहट्ट में ही हो गया था।

उच्छ्राह ( की० १/२६ ᳚ उसाह ) जूआ ( की० २/१४६ ᳚ द्यूत )  
उपाँस ( की० ३/११४ ᳚ उपवाम ) काँस ( की० २/१०१ ᳚ कास्य )  
वभण्य ( की० २/१२१ ᳚ ब्राह्मण ) अंसू ( प्रा० पै० १२५/२ ᳚ अश्रु )  
गते ( प्रा० पै० ४३६/३ ᳚ गात्र ) जपंड ( प्रा० पै० ४१३/३ ᳚ जल्पति )  
वभु ( प्रा० पै० २३/३ ᳚ ब्रह्म ) मॉकडि ( उ० व्यक्ति० ४६/६ ᳚ मर्कट )  
दू जणै ( उ० व्य० ४६/३ ᳚ दुर्जन ) मुँह ( उ० व्यक्ति ४४/१४ ᳚ मुख )  
गीवं ( उकि० ४६/६ ᳚ ग्रीवा )

परवर्ती भाषाओं ब्रज, अवधी आदि में तो प्रायः अकारण अनुस्वार देने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई। रासो आदि में तो चन्द्रविन्दु या अनुस्वार लगाकर संस्कृत का भ्रम फैलाने की भी कोशिश की गई। इस अकारण सानुनासिका की प्रवृत्ति को ज्ञानेश्वरी की भाषा में भी लक्षित किया जा सकता है। अकारण सानुनासिकता के बारे में जूल ब्लाक का विचार है कि यह प्रवृत्ति दीर्घस्वर के बाद र व्यंजन अथवा ऊर्ध्व वर्ण या महाप्राण ओष्ठ्य स्पर्श व्यंजन के आने पर होती है। ( ला लाँग मरीते § ६६ )<sup>१</sup>

§४—संयुक्त स्वर—प्राकृत काल में उद्धृत या सप्रयुक्त स्वरों का प्रचार बढ़ जाने से शब्द गत अस्पष्टता को दूर करने के लिए 'य' या 'व' श्रुति का विधान था। परवर्ती अपभ्रंश में इस प्रकार के उद्धृत स्वरों का संयुक्त स्वर ( Diphthongs ) हो जाता था। मध्यकालीन आर्य भाषाओं में ऐ और औ इन दो संयुक्त स्वरों का प्रयोग विरल है। अपभ्रंश ( पूर्ववर्ती ) में भी ये संयुक्त स्वर प्रायः नहीं मिलते किन्तु परवर्ती अपभ्रंश या अवहट्ट में इनका रूप लक्ष्य किया जा सकता है। प्राकृत अपभ्रंश में अइ अउ का प्रयोग संप्रयुक्त स्वर की तरह होता था बाद में परवर्ती अपभ्रंश में ए ऐ और औ संयुक्त स्वर के रूप में दिखाई पड़ते हैं।

ऐ—भुववै ( की० १/५० ᳚ भुववह ᳚ भूपति ) वैठाव ( की० २/१८४ ᳚ उप+विशू ) भै ( की० ३/८३ ᳚ भइ = भूत्वा ) बोलै ( की० ३/१६२ ᳚ बोलति ) पूतै ( उ० व्यक्ति १०/८ ᳚ पूतह ) वैस ( उ० व्यक्ति०

५०/२६  $\angle$  उपविष्  $\angle$  पै ( उक्ति० २०/२१  $\angle$  पइ  $\angle$  पाचित्र ) तूटै ( चर्या०  $\angle$  टुटट्ट  $\angle$  त्रुट्ट ) इसी तरह शानेश्वरी में आपैसा (  $\angle$  आत्मा + इदश ) पैजा  $\angle$  प्रतिज्ञा ( हिन्दी पैज ) आदि रूप मिलते हैं ।

औ—चौरा (की० २।२४६  $\angle$  चउवर  $\angle$  चत्वर ) कौडि (की० ३।१०१  $\angle$  कउडि  $\angle$  कपर्दिका ) भौह (की० ३।३५  $\angle$  भउ  $\angle$  भ्रु ) दौरि (की० २।१८१  $\angle$  दउरि  $\angle$  द्रव् ? ) चौक (उ० व्य० ४।१।४  $\angle$  चउक  $\angle$  चतुष्क ) लौडी (उ० ३।५।१६  $\angle$  लकुटिका ) हौँ (उक्ति० १६।७  $\angle$  अहकम )

एम० जी० पेंसे ने शानेश्वरी में बहुत से ऐसे उदाहरण दूँदें हैं :<sup>२</sup>  
काँपौलि  $\angle$  कम्पक + उल्लि; चौदा  $\angle$  चतुदश; मौअले  $\angle$  मृदु, बाजौले  $\angle$  वन्धा + उल्ल, रारवौडि  $\angle$  रत्ता + उडि

§१—रवर संकोचन :—(Vowel Contraction)

कही कही इस प्रकार (Diphthongs) की प्रक्रिया तो नहीं होती किंतु मध्यग क, ग च ज त द, प य व आदि के लोप होने पर सप्रयुक्त स्वरो को सन्धि या समीकरण करने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है ।

अन्धार (कीर्ति० ४।२०)  $\angle$  अन्ध आर  $\angle$  अन्धकार = अ + आ  $\angle$  आ  
उपास (कीर्ति० ३।११४)  $\angle$  उपआस  $\angle$  उपवास = अ + आ  $\angle$  आ  
कौसीस (कीर्ति० २।६८)  $\angle$  कोअसीस  $\angle$  कोट शीर्ष = ओ + अ  $\angle$  औ  
ऊंठ (की० २।१०५)  $\angle$  उइठु  $\angle$  उत्तिष्ठ = उ + इ  $\angle$  ऊ  
मोर (सन्देश० २।२२ क)  $\angle$  मऊर  $\angle$  मयूर = अ + ऊ  $\angle$  ओ  
इन्दोअ (सन्देश० १।४३ घ)  $\angle$  इंदओव  $\angle$  इन्द्रगोप = अ + ओ  $\angle$  ओ  
सामोर (सन्देश० ४२ क)  $\angle$  सम्मउर  $\angle$  सबपुर = अ + उ  $\angle$  ओ  
चोविह (प्रा० पै० ५।७।६)  $\angle$  चउविह  $\angle$  चतुर्विंशति = अ + इ  $\angle$  ओ

स्वर सङ्कोचन की इस प्रवृत्ति का प्रभाव शब्दों के रूपों के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण कहा जा सकता है । आधुनिक भाषाओं में तद्भव शब्दों में जो एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ता है, उनका मुख्य कारण सप्रयुक्त स्वरो को सङ्कोच देने को यह प्रवृत्ति ही है ।

§६—अकारण व्यञ्जन द्वित्व या सयुक्त व्यञ्जन बनाने की प्रवृत्ति भी इस काल की भाषा की एक विशेषता है । चन्द के रासो, तुलसी दास के छप्पयों

और इतर कवियों की रचनाओं में व्यञ्जन द्वित्व की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस प्रवृत्ति के मूल में कुछ तो छन्दानुरोध भी कारण हैं कुछ ओज या टंकारा लाने की भावना है। डिङल की रचनाओं में इस प्रवृत्ति का इतना प्रचार हुआ कि यह भाषा की एक मुख्य विशेषता बन गई।

सुसञ्जलो (प्रा० पै० ३०६।३<सु + सयल) मुक्खायाद (प्रा० पै० ३११।८<सुखानन्द) विन्खा (प्रा० पै० २७०।५<शिखा) ल्लाह (प्रा० पै० २२०।२<लभ्) विग्गाह (प्रा० पै० ३६।४<विगाथा) कालिका (प्रा० पै० ३६१।३८ कालिका) दोक्काण (की० २।१६३<दुकान) कम्भाग्य (की० २।१६०<कमान) चिरगय (१८२ क० सन्दे०<चिरगत) परव्वस (सन्दे० २१७ ग<परवश) सवभय (२०८ ग सन्दे०<सभय) तुस्सार (१८४ घ सन्दे०<तुयार)

अवहट्ट की रचनाओं में यह प्रवृत्ति खामतौर से पश्चिमी अवहट्ट में मुख्य रूप से पाई जाती है। और इसका प्रभाव भी पश्चिमी भाषाओं डिङल, राजस्थानी आदि पर अधिक पड़ा।

#### § ५—रूप विचार

अवहट्ट यानी परवर्ती अपभ्रंश तक आते आते अपभ्रंश के संज्ञा पदों में असाधारण परिवर्तन दिखाई पड़ता है। विभक्तियाँ घिस गईं, और उनके स्थान पर परसगों का प्रयोग बढ़ा। परसगों का प्रयोग प्रायः निर्विभक्तिक पदों के साथ होता है। किन्तु कीर्तिलता, वर्णारत्नाकर आदि पूर्वी तथा उक्ति व्यक्ति प्रकरण जैसी मध्यदेशी रचना में परसगों का प्रयोग निर्विभक्तिक या लुप्त-विभक्तिक पदों के साथ अपेक्षा कृत कम, और विकारी कारकों के साथ ज्यादा हुआ है। कीर्तिलता में 'न्दि' विभक्ति का प्रयोग बहुवचन में होता है (देखिए कीर्ति० भा० १२६) यह विभक्ति प्रायः सभी कारकों के बहुवचन रूपों में जुड़ी रहती है और इसके साथ ही परसगों का प्रयोग होता है। न्दि, नि की यह विभक्ति परवर्ती भाषाओं अवधी ब्रज आदि में बहुवचन (कारकों) में दिखाई पड़ती है।

युवराजन्दिह माँक (कीर्ति० १।७०) तान्दिह करो पुत्र (१।७०) जन्दिहं के (२।१२६)

युवतिन्दिह का उत्कंठा (वर्ण) (३०।ख) वायसन्दिह कोलाहल कर (वर्ण० २० २६ ख) उक्ति व्यक्ति में हिं और इं इन दो रूपों का प्रयोग मिलता है (चटर्जी स्टडी § ५६)

सामिहिं सेवक विनव (३६।२७) धूत गमारहिं अकल (४१।८)

ये रूप अवधी और ब्रज में नि (स्त्रीलिंग) न (पुलिंग) विभक्तियों के साथ दिखाई पड़ते हैं ।

बिहरति सखियनि संग (सूर)  
गाहि गहि बाँह सवनि कर ठाढ़ी (सूर)  
कपि चरनन्ह परयौ (तुलसी)  
मिटे न जोबन्ह केर कलेसा (तुलसी)

चटर्जी ने इस निहंनिकी व्युत्पत्ति संस्कृत षष्ठी विभक्ति अणाम्णं + तृतीया भिः > हि रूप से बताया है । (वर्णरत्नाकर § २७)  
§ ८ निर्विभक्तिक प्रयोग ।

अवहट्ट की सबसे बड़ी विशेषता उसका निर्विभक्तिक प्रयोग है ऐसे प्रयोग अवधी, ब्रज, आदि में प्रचुरता से मिलते हैं । ये प्रयोग अवहट्ट काल से ही आरंभ हो गए थे । निर्विभक्तिक प्रयोगों के कारण कभी कभी अर्थ का अनर्थ होने की संभावना भी रहती है । इसीलिए प्राकृत पैगलम् के टीकाकार ने निर्विभक्तिक प्रयोगों से भरी अवहट्ट भाषा में पूर्वनिपातादि नियमों के अभाव के कारण उत्पन्न गड़बड़ी को दूर करने के लिए अन्वय आदि की यथोचित योजना कर लेने की सलाह दी है । 'अवहट्ट भाषायाम् पूर्व निपातादिनियमाभावात् यथोचित योजना कार्या सर्वत्रैति बोध्यम् (प्राकृत पैगलम् पृ० ४७८)

कर्ता— ठाकुर ठक भए गेल (कीर्ति)  
कपं वियोइगि हीआ (प्रा० पै०)  
दूलह दुलाल (उक्ति)  
लखन कहा हँसि हमरे जाना (तुलसी)  
कुबजा हरि की दासी (सूर)

कर्म— महुअर वुझइ कुसुम रम (कीर्ति)  
मंजरि तेअइ चूआ (प्राकृ०)  
लेख वाच (उक्ति)  
कुस सांथरी निहारि सुहाई (तुलसी)  
सुफलकसुत दुख दूरि करौ (सूर)

करण— महुअर मद् मानस मोहिआ (कीर्ति)  
पीण पओहर भार लोलइ मोतिअहार (प्रा० पै०)  
मोरे कर ताकर वष होई (तुलसी)  
तिहि अनुराग वस्य भए ताके (सूर)

सम्बन्ध—	सुरराय नयर नाञ्जर रमनि (कीर्ति)
	असुर कुल मइया (प्राकृत)
	पुरुष जुगल बल रूप निधाना (तुलसी)
	विथा विरह जुर भारी (सूर)
अधिकरण—	वप्प वैर मिज ँचत्त धरिअ (कीर्ति)
	केअइ धूळि सब्ब दिस पसरइ (प्राकृत)
	गावि खेत चरि (उक्ति)
	आइ राम पद नावहि माथा (तुलसी)
	सथुरा वाजति आज बघाई (सूर)

तुलसी सूर आदि में तो अपादान, सम्प्रदान आदि में भी इस तरह के निर्विभक्तिक प्रयोग मिलते हैं; परन्तु अवहट्ट या अपभ्रंश में इन कारकों में निर्विभक्तिक पद कम मिलते हैं। सम्बन्ध में भी हम चाहें तो इसे समस्त पद कह लें। इन कारकों में अपेक्षाकृत परसगों का प्रयोग अधिक हुआ है और निर्विभक्तिक पदों का कम।

§ ६—चन्द्र विन्दु का कारक विभक्ति के रूप में प्रयोग

कीर्तिलता में कारक विभक्ति के रूप में चन्द्र विन्दुओं का अक्सर प्रयोग हुआ है (देखिए की० भा० § ३६) विद्यापति पदावली आदि में भी इस प्रकार के प्रयोग दिखाई पड़ते हैं। हिन्दी की प्रमुख विभाषाओं अवधी-ब्रज में तो इसकी प्रचुरता दिखाई पड़ती है। वैसे ये विभक्तियाँ अन्य कारकों में भी पाई जा सकती हैं; परन्तु मूल रूप से इनका प्रयोग कभी कभी कर्म और ज्यादा तर अधिकरण में हुआ है।

कर्म—	तुम्हें खगो रिउँ दखिअ (कीर्ति)
करण—	सत्रु घरँ उपजु डर (कीर्ति)
	सेजँ ओखर (उक्ति)
	गो वग्गम वधँ दोस न मानथि (कीर्ति)
	सेवो वइसखि छथि (वर्ण० २/क)
	बड़ी बढाई रावरी बाढ़ी गोकुल गावँ (सूर)
	गिरिवर गुहँ पैठि तब जाई (तुलसी)

इन रूपों को देखते हुए लगता है कि प्रयोग प्रायः अधिकरण में ही होता है। चटर्जी इसे अपभ्रंश अहिं (जो सभवतः >अहँ हो गया और बाद में संकोच के

कारण आँ के रूप में) से उत्पन्न मानते हैं। या तो षष्ठी अस्याम् > आँ के रूप में आया होगा। (वर्णरत्नाकर § ३५/४) इसकी व्युत्पत्ति कर्म के अम् (ग्राम) और स्त्रीलिंग रूपों के सप्तमी 'याम्' से भी संभव है।

### § १०—परसर्ग

कर्ता कारक में ब्रजभाषा और खड़ी बोली में 'ने' का प्रयोग होता है। यह विभक्ति है या परसर्ग यह विवाद का विषय हो सकता है, किन्तु खड़ी बोली में इसका प्रयोग परसर्गवत् ही होता है। यह परसर्ग कब शुरू हुआ, और इसके प्रारंभिक रूप क्या थे पता नहीं। इसके प्रयोग विकृत रूप में कीर्तिलता में मिलते हैं।

ने < एन्ने < एण = जेन्ने जाचक जन रंजिअ  
जेन्हे सरण परिहरिअ  
जेन्हे अस्थिजन विमन न किज्जिअ  
जेन्हे अतत्थ न भण्णिअ

### § ११ करण कारक—

सन < समम्

सन का परसर्ग अवहट्ट में प्रायः समता सूचक दिखाई पड़ता है।

कायेसर सन राय (कीर्ति)

किन्तु बाद में यह साथ सूचक हो गया और अवधी आदि में यह साथ सूचक ही चलता है।

एहि सन हठि करिहौँ पहचानी (तुलसी)

वादहि शूद्र द्विजन्ह सन (तुलसी)

जो कुछ भयौ सो कहिहौ तुगहसन (सूर)

२—सहुँ > सउँ—परवर्ती अपभ्रंश में केवल सउँ रूप ही नहीं मिलता बल्कि इसके बहुत से विकसित रूप भी मिलते हैं। ऊपर 'सन' की बात कही गई। से, सौँ, आदि परसर्ग, अवधी, ब्रज आदि में बहुत प्रचलित हैं, किन्तु प्रारंभिक रूप अवहट्ट में ही मिलने लगते हैं।

मानिनि जीवन मान सव्यो (कीर्ति)

दूजने सउँ सब काहु तूट (ऊक्ति)

हिसि हिसि दाम से (कीर्ति)

खोणि खुन्द तास से (कीर्ति)

सौं<सवो<सउँ—सो मो सो कहि जात न कैसे (तुलसी)  
 वैसहिं बात कहति सारथि सौ (सूर)  
 कलियुग हम सयूं खड़ पदा (कबीर)  
 एक जु वाद्या प्रीत सूँ (कबीर)

§१२ सम्प्रदान---

अपभ्रंश में सम्प्रदान में दो प्रमुख परसर्ग होने थे केहि और रेसि ।  
 आश्चर्य है कि इनमें से कोई भी कीर्तिलता में नहीं मिलता । परवर्ती अपभ्रंश  
 में सम्प्रदान कारक में वृद्धत से नए परसर्गों का प्रयोग हुआ । लागि, कारण,  
 काज ये तीन परसर्ग इस काल की भाषा में प्रयुक्त हुए ।

१—लागि—तबे मन बने तेसरा लागि (कीर्ति)  
 एहि आसि गए लागि (वर्षा)  
 काहे लागी बन्वर वेलावसि मुम् ( प्रा० ४६३।३ )  
 केहि लागि रानि रिसानि (तुलसी)  
 दरसन लागि पूजए नित काम (विद्यापति)

लग या लगे का अर्थ निकट भी होता है जो आज भी पूर्वी बोलियों में बहुत  
 प्रचलित है । यह प्रयोग भी प्राकृत पैगलम् में दिखाई पड़ता है ।

खगायाहि जख वड़ ( प्रा० पै० २४१।२ )

२—कारण—लिप के अर्थ में

वीर जुम्ह देखवह कारण (कीर्ति)  
 धुन्दकार कारण रण जुम्हइ (कीर्ति)  
 साजन कारण रजापस भउ (वर्षा)  
 माखन कारन आरि करत जो (सूर)  
 कारसि अपने राम (कबीर)

कारण या कारन का प्रयोग भोजपुरी आदि पूर्वी बोलियों में आज भी होता है ।

३—काज—लिप के अर्थ में

सरवस उपेरिबअ अम्ह काज (कीर्ति)  
 सामि काज संगरे (कीर्ति)  
 रंचक दधि के काज (सूर)

इन परसर्गों के अलावा प्रति आदि का भी प्रयोग हुआ है । कर्हें>कहँ का भी  
 प्रयोग मिलता है ।



§ १३—अपादान

कीर्ति लता मे अपादान का प्रसिद्ध परसर्ग सञो, सउँ है जो करण का भी है। किन्तु वहा अपभ्रंश के पुराने प्रत्यय हुन्तउ का रूप 'हुत' मिलता है। एक स्थान पर हुन्ते भी मिलता है।

दुरु हुन्ते आआ बड़ बड़ राआ (कीर्ति)

यात्राहुतह परखी क वलया भोंग (,,)

इस 'हुत' का प्रयोग अवधी ब्रज आदि मे भी पाया जाता है।

सिर हुँत विसहर परे भुईं वारा (जायसी)

मोरि हुँति विनय करब कर जोरि (तुलसी)

§ १४—सम्बन्ध—'करेण' का प्रयोग षष्ठी के परसर्ग के रूप मे हेम व्याकरण मे हुआ है।

जसु करेण हुँकारडए मुहहु पडन्ति तृणाईं (४४२२, १२)

सम्बन्ध के लिए करे और तण इन दो का प्रयोग अपभ्रंश मे मिलता है। अवहट्ट के रचनात्रो मे करे के प्रायः दो रूप करे और कर मिलते हैं। कै, का, को, की आदि का प्रयोग अवहट्ट मे मिलता है। लेकिन अपभ्रंश मे नहीं मिलता।

१—करे—

लोचन केरा वल्लहा लच्छी के विसराम (कीर्ति)

तँ दिस केरी राय घर तरुणी हट्ट विकाथि (कीर्ति)

नृपन केरि आसा निसि नासी (तुलसी)

ताकू केरे सूत ज्यौं (कबीर)

ऊपर के उदाहरण मे केरा, केरी पुल्लिंग और खीलिंग दोनों तरह के रूप दिखाई पड़ते हैं, इनमें अपभ्रंश संज्ञा के समान ही लिंग वचन आदि का निर्धारण होता है।

२—कर < केर

मभ्यान्हे करी बेला (कीर्ति)

पृथ्वीचक्र करेओ वस्तु (कीर्ति)

दुज्जन कर (उक्ति)

जाकरे रूपें (वर्णरत्नाकर)

वाणिएँ करेँ कवडा निखेव (उक्ति)

जेहि कर मन रसु जाहि सन (तुलसी)

३—कइ &gt; कै

पूज आस असवार कइ	(कीर्ति)
उस्थि सिर नवइ सन्ब कइ	(कीर्ति)
सभ कै सकति संभु धनु भानी	(तुलसी)
जाकैं घर निसि बसे कन्हारै	(सूर)
ता साहब कै क्षातौ साथा	(कबीर)

४—क, का, की, के, कां—

मानुस क मीसिपीसि	(कीर्ति)
वीर पुरिस का रीति	(कीर्ति)
एहि दिख उद्धार के	(कीर्ति)
दान खमा कौ मग्ग न	(कीर्ति)
मनु मधु कलस स्यामताई की	(सूर)
होनिहार का करतार को	(कबीर)
सब धरम क टीका	(तुलसी)

ऊपर के उदाहरणों से स्पष्ट है कि क, का, क, जैसे बहु विकसित परसर्ग तथा 'कर' आदि के बहुत से रूपान्तर पूर्वी अवहट्ट में ज्यादा मिलते हैं। 'कर' वस्तुतः पूर्वी श्रायभाषाओं का महत्वपूर्ण परसर्ग है जिसका प्रयोग कोसल से आसाम ओरिसा तक फैला हुआ है और इसी का परवर्ती रूप 'अर' है जिसका प्रयोग मागधन भाषाओं में आज भी मिलता है। दूसरी ओर को कौं केर के कुछ रूप और विशेषतः की कै, करी वगैरह रूप ब्रज, में ज्यादा मिलते हैं। खड़ी बोली में केवल के, का की का प्रचलन है।

§ १५—अधिकरण—अधिकरण कारक में अपभ्रंश में मज्जे (हि० ८।४।४०६) का रूप प्रचलित है। मज्जे का मज्जि और मज्जहे (४।३५०) रूप मिलते हैं? 'मांभ' अवहट्ट का विकसित (मज्जे) रूप है। इनके पाद में मभारी मजु, मभु आदि रूपान्तर हो गए हैं।

१—मांभ &lt; मज्जे =

मांभ सङ्गाम भेट हो	(कीर्ति)
बाद्य बाहु सेना मजु	(कीर्ति)
तेहुँ मांभ	(उक्ति)
मन्दिर मांभ भई नभबानी	(तुलसी)
कूदि जेउ तव सिद्ध मभारी	(तुलसी)

२—मैं, मँह, माहि—

मण्य माहि	(सन्देश रासक)
देवल माहै देहुरी	(कबीर)
तेहि मँह पितु आयसु बहुरि	(तुलसी)
राधा मन मै इहै विचारत	(सूर)

३—भीतर—

जाइ मुह भीतर जवहीं	(कीर्ति)
आस्थान भीतर इतरलोक	(बखी)
भित्तरि अप्पा अप्पी लुक्कीआ	(प्रा० पै०)
तन भीतर मन मानिआ	(कबीर)

५—पर, पै, ऊपर < उप्परि—

चूह ऊपर ढारिआ	(कीर्ति)
उप्परि पंचइ मत्त	(प्रा०)
नाथ सैख पर कपि पति रहई	(तुलसी)
हरि की कृपा जापर होइ	(सूर)
मौ पै कहा रिसान्यौ	(सूर)

§ १६ सर्वनाम—

किसी भी भाषा के परिवर्तित रूप और विकास का पता विशेषतः सर्वनामों को देखने से मिलता है। अवहट्ट के सर्वनामों को देखने पर जो बात स्पष्टतया मालूम होती है वह है कई बहु-विकसित, कभी कभी तो सर्वथा परिवर्तित सर्वनाम रूपों का प्रयोग।

उत्तम पुरुष

१. हौ—

सुपुरिस कहनी हौ कहहुँ	(कीर्ति)
गुण हव्यो कजो	(कीर्ति)
हौ	(उक्ति २१-१२)

जानत हौं जिहि गुनहि भरे हौ (सूर)

हौ का प्रयोग अवधी ब्रज आदि म धड़ल्ले से हुआ है। कीर्तिलता का हञो > हौ के रूप में दिखाई पड़ता है।

अवहट्ट की रचनाओं में मत् का प्रयोग हुआ है, उक्ति व्यक्ति में “को मैं

भोजन माँगव ( २२-६ ), का प्रयोग मिलता है। बाद में यही मैं ब्रज, अवधी और खड़ी बोली का उत्तम पुरुष का सर्वनाम हो गया।

२—मो, मोहि—अपभ्रंश में मो और मोहि का मिलना कठिन है; किन्तु अवहट्ट में मो और मोहि के प्रयोग विरल नहीं हैं।

धरणि सुख रखि वख नाहि मो ( कीर्ति )

ते मोन्वे भखणो निरुधि गए ( कीर्ति )

मोहि तहिं के बढ़ा विहति ( उक्ति २१-१२ )

मणो तोहि लए खानो ( वर्य ४१ क )

मो को अगम सुगम तुम को ( तुखसी )

जो पै मोहिं कान्ह जिय भावे ( सूर )

३—मोर, मेरा—

मोरहु जेठ गरिठ अछ ( कीर्ति )

मोर वअन आकराखे करहु ( कीर्ति )

मोर जेयी को करिह ( उक्ति )

मेरौ मन न धीर धरे ( सूर )

मेरा सुभसें कुछ नहीं ( कबीर )

चारि पदारथ करतख मोरे ( तुखसी )

ऊधौ एक मेरी बात ( सूर )

मेरा का प्रयोग खड़ी बोली में ही होता है, मेरहु कीर्तिलता में भी आया है। हमारी ( प्रा० पै० ४३५-४ ) प्रयोग वर्तमान बिल्कुल प्रयोगों की तरह बहु व० का षष्ठी रूप है।

§१७—मध्यम पुरुष—

तुम—अपभ्रंश में तुम के लिए तुम्ह का प्रयोग होता था। बाद में यही तुम्ह ७ तुम हो गया। अवहट्ट में तुम का प्रयोग कम मिलता है प्रायः वहाँ भी तुम्ह ही रूप हैं। किन्तु मध्य पुरुष में तोर, तोहार, तोहि, तोको आदि रूप पर-वर्ती अपभ्रंश में दिखाई पड़ते हैं जिनके परिनिष्ठित अपभ्रंश में प्रयोग नहीं मिलते।

१—तुम ८ तुम्ह

रखो हुमा ( तुम ) ( प्रा० पै० ३४२-४ )

२—तोहि, तोके—त्वां

तोहिं न होखेई अखहना ( कीर्ति )

तोके रोष नही ( कीर्ति )  
 तोहि त्वामेव ( उक्ति २२-४ )  
 तुहीं पिय भावति नाही आन ( सूर )  
 तोह मोहि नाते अनेक ( तुलसी )

३—तोर, तोहार, तैं

सो हर तोहर संकट संहर ( प्रा० ३११।२ )  
 तोहार कुडिया ( चर्या )  
 एन्ह माँक कवन तोर भाइ ( उक्ति १।३० )  
 मैं अरु मोर तोर तैं माया ( तुलसी )  
 कही तिहारीबात ( सूर )  
 मधुकर देखि स्याम तन तेरौ ( सूर )  
 मैं तुम्हार अनुचर मुनि राया ( तुलसी )

§ १८—दूरवर्ती निश्चय—

खड़ी बोली में दूरवर्ती निश्चय तथा अन्य पुरुष दोनों ही में वह, वे रूप प्रचलित हैं। वह किस शब्द से विकसित हुआ, इस पर मतैक्य नहीं है। चटर्जी इसे वैदिक 'ओ' से विकसित मानते हैं। हेमचन्द्र के 'बहुा घर ओइ' में कुछ लोग ओ को सर्वनाम और कुछ अन्यय मानते हैं। ओ कीर्तिलता में सर्वनाम की तरह ही प्रयुक्त हुआ है।

ओ परमेसर हर सिर सोहइ ( कीर्ति )  
 ओकरा काजर चोद कलंक ( कीर्ति )  
 ओके भूमिपालि राखि ( चर्या २६ ख )  
 ससी ओ जयी ओ ( प्रा० ३४८।१ )  
 ओहु खास दरबार ( कीर्ति )

इसी ओहु से वह का विकास हुआ है। ओ रूप पुरानी ब्रज वगैरह में नहीं मिलते हैं वह, वे आदि रूप वहाँ अवश्य मिलते हैं। उसका सम्बन्ध ओ से चाहें तो जोड़ सकते हैं।

§ १९—निकटवर्ती निश्चय—

यह/एह ई णिच्चइ नाअर मन मोहइ ( कीर्ति )  
 इन/एन्ह राय चरित्त रसाल एहु ( कीर्ति )  
 विश्वकर्मा एही कार्य छल ( कीर्ति )

को ए काह करत	( उक्ति )
एन्ह मॉक्क	( उक्ति )
एहि आलिंगण लागि	( वर्या )
एन्हकोंके रसायसु भउ	( वर्या )
अमिअ एहू	( प्रा० १६७-१ )
एहि कर फल पुनि विषय विरागा	( तुलसी )
ए कीरीट दसकन्धर केरे	( तुलसी )
स्याम को यहै परेखौ आवे	( सूर )
यै अवगुन सुन हरि के	( सूर )

ऊपर के उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि ओह 7 वह और एह 7 यह के रूप में विकसित हुए। इन ( वहु० व० ) का विकास अवहट्ट के एन्ह रूप से संभव है।

§२०—निज वाचक—

१—अपना  $\angle$  अप्पणउँ ( हेम )

अपने दोष ससंक	( कीर्ति )
अपनेहु साडे सम्पलहु	( कीर्ति )
अपना उपदशि गयि	( वर्या ६१ ख )
आपणे आलाप	( उक्ति ४४-२८ )
तब आपनु प्रभाव विस्तारा	( तुलसी )
अपने स्वारथ के सब कोऊ	( सूर )
अपनी गैयां घेरि लै	( सूर )

२—आप < आत्मन्

जाव ण अप्पं णिदंसेइ ( प्रा० १०७११ )

अप्पह् णिह्ण्य किं पिभयो ( सन्देश० १६ )

आपु कहावति बढी सयानी ( सूर )

आपु कदम चढ़ि देखत स्याम ( सूर )

आप का प्रयोग खड़ीबोली और ब्रजभाषा में आदरार्थ किया जाता है। और इसका प्रयोग पुरुषवाची सर्वनाम के रूप में होता है। इस प्रकार के प्रयोग भी अवहट्ट में मिलते हैं।

§२१—सर्वनामिक विशेषणों 'अइस' आदि के रूपों के भी परिवर्तन और

उनके विकास पर ध्यान देने पर अवहट्ट में बहुत सी बातें नई मिलेगी। ऐसा, अस, आदि रूप परवर्ती अपभ्रंश में मिलने लगते हैं। उसी प्रकार इतना, कितना आदि रूपों में भी बहुत कुछ विशेषताएँ लक्ष्य की जा सकती हैं। संख्या-वाचक विशेषणों में तीसरा, दूजा आदि रूप मिलते हैं जो पूर्ववर्ती अपभ्रंश में नहीं मिलते। इस प्रसंग में कीर्तिलता के उदाहरण आगे दिए हुए हैं ( देखिए कीर्ति० भाषा० §५४-५६ )

§२२—क्रिया ।

जब हम अवहट्ट की क्रियाओं पर विचार करते हैं तो यह कहने में हमें कोई सकोच नहीं होता कि क्रियाओं की दृष्टि से अवहट्ट में आधुनिक आर्यभाषाओं की क्रियाओं का ढाँचा स्पष्ट दिखाई पड़ता है। संस्कृत क्रियाओं के विधानों से स्वच्छन्द होने के लिए प्राकृत काल में ही ढिलाई बरती जाने लगी थी। गणों का विधान पाली काल में आते आते सरल हो गया और कई गणों की क्रियाओं में रूप-साभ्य दिखाई पड़ने लगा। दस गणों में कम से कम पाँच के रूप तो बहुत कुछ समान दिखाई पड़ते हैं। प्राकृतों में सरलता की इस प्रवृत्ति को और बढ़ाव मिला। फिर भी संस्कृत क्रियाओं की संयोगात्मक प्रवृत्ति से प्राकृत क्रियाये मुक्त नहीं कही जा सकतीं। अपभ्रंश में आते आते क्रियाओं के रूपों में आश्चर्यजनक परिवर्तन परिलक्षित होने लगा। संयोगात्मक क्रिया-रूप वियोगात्मक हुए। हिन्दी क्रियाओं में पाई जाने वाली बहुत सी प्रवृत्तियों परवर्ती अपभ्रंश काल में पूर्ण विकास पा चुकी थीं। कृदन्तों के सहारे क्रिया निर्माण की पद्धति अपभ्रंश काल में ही शुरू हुई; परन्तु उसके रूपों में इतना परिवर्तन और विकास नहीं दिखाई पड़ता। अवहट्ट में सयुक्त क्रियाओं का प्रयोग बढ़ा। कृदन्त और सहायक क्रियाओं के संयोग से भावों को प्रकट करने का ढग हिन्दी में इतने विचित्र रूप से विकसित है; कि कुछ विद्वानों को इसमें अन्य भाषा-परिवारों की छाप दिखाई पड़ती है; किन्तु यदि इसके विकास क्रम पर ध्यान दें तो स्पष्टतः इसके बीज (सयुक्त कालों के) अवहट्ट में ही दिखाई पड़ने लगे थे। हम अवहट्ट की विशेषताओं में केवल उन्हीं रूपों पर विचार करेंगे जो परिनिष्ठित अपभ्रंश में नहीं दिखाई पड़ते, या बीज रूप में दिखाई पड़ते हैं जिनमें विकास इस काल में हुआ।

§२३—वर्तमान काल—

अवहट्ट में वर्तमान काल में तीन प्रकार के रूपों का प्रयोग दिखाई पड़ता है।

१—प्राचीन तिङन्त-तद्भव रूप—जिनमें अन्तिम संप्रयुक्त स्वर संयुक्त हो जाते हैं ।

बोझै > बोझइ > बोझति

२—वर्तमान कृदन्तो का वर्तमान काल की क्रिया की तरह प्रयोग, वोलत < वोलन्त, वोलन्ते

३—मूल धातु के रूप में प्रयोग जिसका रूप अकारान्त होता है । शायद यह अइ > अ के रूप में विकसित हो ।

पण्व न पालै पउवा	(कीर्ति)
अंग न राखै राउ ।	(कीर्ति)
जो आपन चाहै कल्याना	(तुलसी)
दारुन दुख उपजै	(तुलसी)
मेरो मन न धीर धरै	(सूर)

कहीं कहीं अइ 7 अए के रूप में मिलता है ।

चिनु कारखहि कोहाएँ	(कीर्ति)
कुम्भ पिट्टि कंष धूलि सूर मंपए	(प्रा० पै०)
रहे तहों बहु भट रखवारे	(तुलसी)
कुछ मारेसि कछु जाइ पुकारे	(तुलसी)
रूपकों नृप केहि हेत तुलाए	(सूर)

यद्यपि नीचे के (सूर तुलसी) के उदाहरणों में क्रिया भूतार्थ द्योतक लगती है पर विकास की दृष्टि से यह अवस्था महत्त्व की वस्तु है ।

२—वर्तमान काल में कृदन्त रूपों का प्रयोग होता है । वर्तमान आर्य भाषाओं में वर्तमान काल में (हिन्दी-गुजराती आदि में) कृदन्त रूपों का प्रयोग होता है । आज के ता वाले रूप मध्यकाल के अन्तः वाले रूपों से विकसित हैं । ये रूप धातु 'अन्त' (शट् प्रत्यायन्त) लगाने से बनते हैं । इनके दो रूप दिखाई पड़ते हैं एक त या ता के साथ दूसरे 'अन्त' वाले । वर्तमान में दोनों का ही प्रयोग होता है ।

क.—

मधुर मेघ जिमि जिमि गाजन्ते	(धूलि)
पंच वाय निज कुसुम वाय तिमि तिमि	
साजन्ते	(धूलि)
कितेवा पढ़न्ता	(कीर्ति)



कलीमा कहन्ता	(कीर्ति)
पुहवी पाखा आवन्ता , वरिसहु भेट्ट न पावन्ता	(कीर्ति)
उद्धा हेरन्ता	(प्रा० पै० १०७/४)
मज्जे तिण्णि पलन्त	प्रा० पै० (१६६/२)
संत सुखी विचरन्त मही	(तुलसी)
ज्यों ज्यों नर निघरक फिरे ल्यों ल्यों/हाल हसन्त	(कबीर)

ख—

कइसे लागत आँचर वतास	(कीर्ति)
मिलअ महासुख सोंगा	(चर्या ८)
वाँटत को इहाँ काह करत	(उक्ति ३०/१२)
मोर अभाग जिआवत ओही	(तुलसी)
मनहु जरे पर खोन लगावत	(तुलसी)
भुज फरकत, अँगिया तरकति	(सूर)

न्त और न्ते वाले रूपों में अधिकांश बहुवचन के रूप हैं। जबकि त वाले रूप व्यादातर एक वचन के हैं। त वाले रूपों में स्त्रीलिंग का सूचक 'इ' प्रत्यय भी लगता है।

ग—तिङ्न्त (वर्तमान एक वचन अन्य पुरुष) के तद्भव रूप अकारान्त होते हैं।

कंप विओइण्णि हीआ	(प्रा० पै०)
महुमास पंचम गाव	(प्रा० पै० ८७)
हिन्दू बोलि दुरहि निकार	(कीर्ति)
देवहि नम, भजा पीड	(उक्ति)
कोचन कलश छाज	(कीर्ति)
तहँ रह सचिव सहित सुप्रीवा	(तुलसी)
पुलकित तन मुख आव न वचना	(तुलसी)

इस प्रकार के प्रयोग अवधी भाषा में बहुल रूप से प्राप्त होते हैं। उक्ति व्यक्ति की भाषा में भी इस प्रकार के प्रयोग मिलते हैं। एइ और अउ के उद्धृत स्वर, जो सामान्य वर्तमान के अन्य पुरुष एक वचन की क्रिया में दिखाई पड़ते हैं पुरानी कोसली में एक विचित्र प्रकार का रूपान्तर उपस्थित करते हैं।

अइ>अ। अइ का अ के रूप में परिवर्तन सम्भवतः कठिन है। फिर भी यह पुरानी कोसली का बहु प्रचलित प्रयोग है। इसमें प्रायः अन्य 'इ' का हास प्रतीत होता है। ईश्वरदास, जायसी और तुलसी की रचनाओं में प्रायः दोनों—अ और अइ तथा ऐ साथ ही—हिं भी मिलते हैं। [चटर्जी उक्ति रटडी §३६]। चटर्जी ने इस अइ>अ के विकास के लिए क्रम भी बताया है।

चलइ>चलएँ>चलें>चल आदि।

कई रूपों को देख कर मुझे लगता है कि यह 'त' वाला (शत्रु प्रत्यान्त) कृदन्त रूप है जो त के लोप के कारण अकारान्त दिखाई पड़ता है। क्योंकि इसका प्रयोग भूतकाल में भी होता है।

रहा न जोबन आव बुढापा (जायसी)

इस पक्ति में रहा स्पष्टतः भूतकाल द्योतक है, अगिले खण्ड में प्रयुक्त क्रिया 'आव' का वर्तमान में 'आवइ' बनाना उचित नहीं प्रतीत होता।

काहु ह्योअ अइसनेओ आस (कीर्तिलता)

यहाँ अकारान्त स्पष्ट होने पर भी क्रिया वर्तमान की ही है। जब की चटर्जी प्रायः 'इ' का लोप मानते हैं।

§२४—भूतकृदन्त में परिवर्तन

वर्तमान हिन्दी में तथा पछाहीं बोलियों में भूतकाल में प्रायः दो रूप प्राप्त होते हैं :

१—आ—अन्त वाले रूप गया, कहा, थका आदि

२—ओ—अन्त वाले रूप (ब्रज) चलयो, कह्यो आदि।

अपभ्रंश में प्रायः इअ वाले रूप, जो संस्कृत < इत (क्त प्रत्ययान्त) से विकसित हुआ, प्राप्त होते हैं।

ध्रुव कहिआ ( प्रा० पै० )

तेहि पुन कहा सुनहु दससीसा ( तुलसी )

अपभ्रंश में भूत कालिक कृदन्तज क्रियाओं में स्त्रीलिंग का कोई खास विधान न था। किन्तु परवर्ती अपभ्रंश में स्त्रीलिंग का ध्यान रखा गया हिन्दी में भी गया का गयी होता है।

लगो जही मही कही ( प्रा० पै० ३४१।३ )

कही सहित अभिमान अभागे ( तुलसी )

२—भूत कृदन्त के रूपों में अन्तिम उद्बृत्त स्वर अउ<ओ हो जाता है और इस प्रकार व्रजभाषा के भूतकालिक रूपों के सदृश क्रियायें दिखाई पड़ती हैं।

आओ पाउस कीलंताए ( प्रा० पै० ५१६।४ )

तह वे पओहर जाणिओ ( प्रा० पै० ४००।६ )

हंस काग को संग भयौ ( सूर )

दूर गयौ व्रज को रखवारो ( सूर )

३—पूर्वी अवहट्ट की रचनाओं में ल विभक्ति का प्रयोग दिखाई पड़ता है। बाद में पूर्वी भाषाओं में प्रायः सभी में ल का प्रयोग बहु प्रचलित हो गया। कीर्तिलता, वर्णरत्नाकर, चर्यागीत, में ल का प्रयोग मिलता है। इस सम्बन्ध में विस्तार से कीर्तिलता की भाषा वाले भाग में विचार किया गया है। ( की० भा० § ६५ )

§२५—दुहरी या (संयुक्त) पूर्वकालिक क्रियाओं का प्रयोग—

अवधी व्रज आदि में दुहरी पूर्वकालिक क्रियाओं का प्रयोग होता है। एक तो पूर्वसमाप्त कार्य की गहनता या पूर्णता सूचित करता है एक उसका नैरन्तर्य सूचित करता है। हिन्दी में भी 'पहने हुए' पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग होता है। ऐसे रूप अवहट्ट में मिलने लगते हैं।

पाछे पयदा ले ले भम ( कीर्ति )

आपहिं रहि रहि आवन्ता ( कीर्ति )

विरह तपाइ तपाइ ( कबीर )

हंसि हंसि कन्त न पाइए ( कबीर )

'सन्देस रासक' में श्री भायाणी ने इस प्रकार का एक प्रयोग देखा है।

विरहहुयासि दहेत्रिकरि आसा जल सिचेइ ( १०दाख )

इन्होंने इस दहेत्रिकरि का सम्बन्ध वर्तमान कह कर, जा कर के कर से जोड़ा है।

रैयत भेले ( होकर ) जीव रह	( कीर्ति )
गहिं गहिं बाँह सवनि कर ठाढी	( सूर )
भई जुरि कै ( जुबकर ) खडी	( सूर )
तहह गंध सज्जा किञ्चा	( प्रा० पै० २०६ । २ )

उक्तिव्यक्ति में भी इस प्रकार के प्रयोग मिलते हैं ।

खड़ खड़ पला	( १८१११ उक्ति )
मारि मारि खा	( ११११८ उक्ति )

### § २६—संयुक्तक्रिया

संयुक्त क्रियाओं का आधुनिक आर्य भाषाओं में अग्ना विशेष महत्त्व है । वैदिक और लौकिक दोनों ही संस्कृतों में उपसर्गों के प्रयोगों की छूट थी अतः वहाँ क्रियाओं को बिना संयुक्त किए भी काम चल जाता था । उपसर्गों के प्रयोग से ही वहाँ धात्व्यों में अन्तर हो जाता था किन्तु आधुनिक आर्य भाषा काल में उपसर्गों का प्रयोग नहीं होता अतः यहाँ संयुक्त क्रियाओं के बिना काम नहीं चल सकता । प्राचीन संस्कृत में कही कही संयुक्त क्रियाओं जैसे रूप मिलते हैं, ब्राह्मणों में वरया चकार, गमया चकार आदि रूप मिलते हैं, किन्तु बाद में इस तरह के प्रयोगों का अभाव है । प्राकृत, यहाँ तक की अपभ्रंश काल में भी इस तरह की क्रियाओं का विकास नहीं दिखाई पड़ता । अचहट काल से इस प्रवृत्ति का आरंभ होता है ।

किनइते पावथि	( २/११४ कीर्ति )
वसन पणेल	( कीर्ति० २/६२ )
खाए ले भांग क गुण्डा	( कीर्ति २/१७४ )
सैन्चान खेदि खा	( कीर्ति ४/१३३ )
पुनि उट्टइ संभलि	( प्रा० पै० १८०/५ )
भए गोलाह	( वर्ष १८ क )
तुम अति कासौ कहत बनाइ	( सूर )
उधौ कल्लुक ससुक्ति परी	( सूर )
तिन्हहि अभय कर पूछेसि जाई	( तुलसी )
तेज न सहि सक सो फिर आवा	( तुलसी )
हम देख आए	( खड़ी )

### § २७—संयुक्त काल

१—वर्तमान कालिक कृदन्त और सहायक क्रियाओं से बने हुए संयुक्त काल : Present Progressive

खिसियाय खाय है	(कीर्तिलता)
आँखि देखत आछ	(उक्ति)
भोजन करत आछ	(उक्ति)
मयूर चरइतँ अछ	(वर्ण)
स्याम करत हैं मन की चोरी	(सूर)
राजत हैं अतिसय रँग भीने	(सूर)

२—वर्तमान कृदन्त + सहायक क्रिया का भूतकालिक रूप (Past Progressive)

आवत्त हुअ हिन्दू दख	(कीर्ति)
को तहाँ जेवंत आछ = आसीत	(उक्ति २१/७)
स्याम नाम चकृत भई	(सूर)
प्रमदा अति हरषित भई सुनि बात	(सूर)

§ २८—सहायक क्रिया—

है, अछ—हिन्दी में आजकल जो 'है' सहायक क्रिया का रूप है, उसका विकास अस्ति 7 असति 7 अहइ 7 अहै 7 है से माना जाता है। इसके साथ ही अवहट्ट की रचनाओं में अछ या अछै रूप भी मिलता है। अपभ्रंश में अञ्छइ रूप मिलता है, इसका विकास लोग सभावित रूप अद्दति से मानते हैं। ऊपर संयुक्त काल के प्रसंग में है, अछ के रूप उद्धृत किए गए हैं। ब्रज भाषा में अहि रूप काफी प्रचलित है।

भूतकाल में छल, हुअ, भई, भए आदि रूप मिलते हैं।

§ २९ वाक्य विन्यास—

१—अवहट्ट वाक्य विन्यास की सबसे बड़ी विशेषता है निर्विभक्तिक प्रयोगों की वृत्तता। कारकों में सामान्य रूप से विभक्तियों का प्रयोग लुप्त दिखाई पड़ता है। इस प्रकार के प्रयोगों के आधिपत्य के कारण वाक्य में शब्दों के संगठन पर भी प्रभाव पड़ता है। इस सम्बन्ध में पीछे विचार किया गया है। अपभ्रंश में लुप्तविभक्तिक प्रयोग नहीं मिलते।

तयहँ तइज्जी भंगि नवि ते अवडयडि वसन्ति  
अह जणु लगिगवि उत्तरइ अह सह सइं मज्जन्ति

जइ तहँ तुइइ नेहडा मई सहुँ न वि तिल हार  
तं किहे वङ्गेहि लोअर्योहि जोइज्जउँ सय वार

२—अपभ्रंश के ऊपर के इन दो दोहों में शायद ही किसी कारक में लुप्तविभक्तिक सज्ञा शब्द दिखाई पड़ते हैं; किन्तु अवहट्ट में इनका प्रचुर प्रयोग मिलेगा। इस प्रकार के प्रयोगों के कारण वाक्य विन्यास की दूसरी विशेषता का विकास हुआ। वाक्य में पदों के स्थान पर भी महत्व दिया गया। हिन्दी वाक्यविन्यास की तरह कर्ता + कर्म और क्रिया के इस क्रम का बीजारोपण हुआ। संस्कृत भाषा में, प्राकृतों तथा पूर्ववर्ती अपभ्रंश में इस प्रकार के वाक्य गठन का रूप कम से कम दिखाई पड़ता है।

वरं कन्या तुलव (उक्ति) गुरु सीसन्ह ताड, केवट नाव घटाव ।

अहिर गोरू वाग मेलव (उक्ति) मेघु नदी बढाव । (उक्ति)

दास गोसाणु नि गहिअ (कीर्ति) भाहु भैसुर क सोऊ जाहि (कीर्ति) अघपर्यन्त  
विश्वकर्मा एही कार्य छल । काञ्चन कलश छाज । (कीर्ति)

३—सयुक्त क्रियाओं के प्रयोग के कारण भी वाक्य गठन के स्वरूप में परिवर्तन दिखाई पड़ता है। सयुक्त क्रियाओं पर पीछे विचार किया जा चुका है, उन्हें देखने से मालूम होगा कि सयुक्त क्रियाओं के द्वारा नए प्रकार के क्रियात्मक भावों को व्यक्त करने की प्रवृत्ति इसी काल में शुरू हुई।

§ ३० शब्द समूह—

परवर्ती अपभ्रंश की रचनाओं को देखने से मालूम होता है कि अवहट्ट शब्द समूह का अपभ्रंश से तीन कारणों से भिन्न दिखाई पड़ता है।

१—विदेशी शब्दों का प्रयोग—कीर्तिलता, समररास, रणमल्लछन्द आदि रचनाओं में जहाँ मुसलमानी सम्पर्क काव्य की घटनाओं में दिखाई पड़ता है, वहाँ तो अरबी फारसी के शब्दों का प्रचुर प्रयोग हुआ ही है, बहुत से शब्द इतने साधारण प्रयोगों में आ गए हैं, जिनको अन्यत्र भी लक्ष्य किया जा सकता है। वर्णरत्नाकर में नीक, तुर्क, तहसील, नौवति, हुदादार < ओहदादार, आदि शब्द मिलते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के आधार पर चटर्जी का विचार है कि १२ वीं शती तक गंगा की घाटी की भाषा में विदेशी शब्दों का प्रयोग कम दिखाई पड़ता है; पर उक्तिव्यक्ति अन्वल तो व्याकरण ग्रथ है, दूसरे उसमें तत्कालीन ऐतिहासिक घटनाओं का जिक्र कम से कम हुआ है, इसलिए उसकी भाषा के आधार पर हम यह नहीं कह सकते कि विदेशी शब्दों का प्रयोग प्रचलित नहीं था।

२—तत्सम शब्दों का, ब्राह्मणधर्म के पुनरुत्थान के कारण प्रचुर मात्रा में प्रयोग होने लगा, अवहट्ट के शब्द समूह में यह नया मोड़ है। इसके कारण प्राकृत तद्भव रूपों की गड़बड़ी भी दूर हो गई। तत्सम का प्रभाव न केवल शब्द रूपों पर बल्कि क्रिया में धातुओं पर भी दिखाई पड़ता है।

३—देशी शब्दों के प्रयोग की प्रचुरता दिखाई पड़ती है। इस प्रकार हमने देखा कि अवहट्ट भाषा अपभ्रंश के प्रभाव को सुरक्षित रखते हुए भी विलकुल बदली हुई मालूम होती है। उसमें बहुत से नवीन प्रकार के व्याकरणिक प्रयोग और विकास दिखाई पड़ने हैं। इस प्रकार के विश्लेषण से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दी आदि आधुनिक भाषाओं के विकास के भाषा शास्त्रीय अध्ययन के लिए पूर्ववर्ती अपभ्रंश की अपेक्षा अवहट्ट ज्यादा महत्व की वस्तु है।



## कीर्तिलता की भाषा

कीर्तिलता भारतीय ऐतिहासिक काव्यों की मणिमाला का सुमेरु है। मध्यकालीन भारतीय साहित्य में ऐतिहासिक काव्यों का उदय एक अकस्मात् घटना है। अपने छोटे से विकास-काल में इस जाति के साहित्य ने भारतीय वातावरण के भीतर एक ऐसी शैली का निर्माण किया जो अपनी अनेक कथानक रूढ़ियों, यथार्थ और कल्पनाजन्य घटनाओं के विचित्र मणिकाचन संयोग तथा नाना लोक चित्तोद्भूत छन्दों की भङ्गार से पूरे वाङ्मय में अपने तरह की अकेली है। कीर्तिलता इस शैली की चरम परिणति है। इसमें कथानक-रूढ़ियों और कल्पना के रंगीन चित्रों की कमी नहीं; पर इनके भीतर यथार्थ इतने प्रौढ़ रूप से अनुस्यूत है कि इतिहास की तथ्यात्मक घटनाओं के चढ़ाव उतार में भी कोई फर्क नहीं पड़ता।

यह तो साहित्यिक महत्व की बात है। कीर्तिलता की भाषा इससे कम महत्वपूर्ण वस्तु नहीं। परवर्ती अपभ्रंश स्वयं ही एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो मध्यकालीन आर्य और आधुनिक आर्य भाषाओं को विकास-क्रम में सबद्ध करती है। कीर्तिलता परवर्ती अपभ्रंश के स्वरूप को स्पष्ट करने का सर्वोत्तम आधार है। पिछले खंड में अवहट्ट की जिन प्रवृत्तियों का आकलन किया गया है, इनको और भी अधिक स्पष्ट करने के लिए कीर्तिलता की भाषा का विवेचन अपेक्षित है। कीर्तिलता की भाषा विवेचन से बहुत से ऐसे तथ्य उपलब्ध हो सकते हैं जो आधुनिक आर्य भाषाओं के विकास सम्बन्धी गुणधर्मों का सुलभाव दे सकते हैं।

### अनुलेखन पद्धति (Orthography)

“भारतीय अनुलेखन-पद्धति की परम्परा सदा रूढ़ रही है। प्रायः अपने समय की प्रचलित भाषा में न लिखकर ध्वनि और व्याकरण की दृष्टि से आर्ष और प्राचीनतर बनाने का प्रयत्न होता जा रहा है।<sup>१</sup> इस प्रकार के अनुलेखन के दो कारण हो सकते हैं। या तो लेखक स्वयं अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं के कारण ऐसा करते हो या लेखक के बाद की लिखी गई प्रतियों में तत्कालीन भाषा का ख्याल न करके लिपिकार अपने समय की भाषा का प्रभाव लाद देता



हो । अपभ्रंश के हस्तलेखों में प्रायः ऐसी गड़बड़ी हुई है । सन्देश रासक की अनुलेखन पद्धति पर विचार करते हुए श्री भायाणी ने अपभ्रंश-लेखों की कुछ समस्याओं की ओर संकेत किया है ।<sup>१</sup>

१—अनुनासिक निर्धारण में गड़बड़ी—केवल गणना द्वारा ही यह निश्चित किया जा सकता है कि वस्तुतः कौन सी प्रवृत्ति सही और प्रधान है और कौन सी गौण । उदाहरण के लिए तृतीया और सप्तमी के एक वचन में कहीं—  
हि मिलता है तो कहीं—हि । इसी तरह षष्ठी एक वचन में कहीं—हँ मिलेगा तो कहीं—ह ।

२—इ और य का परस्पर-विनिमय—यह दूसरी समस्या है । य और इ के इस विपर्यय के कारण बहुत से रूपों के विकास के क्रम-निर्धारण में कठिनाई होती है । इस तरह का विपर्यय दोहा कोश, चर्यांगीतों और प्राचीन परिचमी राजस्थानी में भी हुआ है । प्रा० प० रा० के लिए देखें तेसीतरी O W R § ४-५ ।

३—‘य’ श्रुति के निर्धारण में अनिश्चितता ।

४—ए और न के प्रयोगों में भी कोई नियम नहीं चलता

५—व और ब के अन्तर पर ध्यान नहीं दिया जाता । दोनों के लिए प्रायः व का प्रयोग कर दिया जाता है ।

कीर्तिलता भी इन दोषों से मुक्त नहीं है । उसमें भाषा को ज्यादा आर्ष और प्राचीन बनाने का मोह भी दिखाई पड़ता है और उपयुक्त पाँच प्रकार की त्रुटियों में भी कई पाई जाती हैं ।

§१—हि और—हिं ये दोनों तरह के प्रयोग कीर्तिलता में मिलते हैं । असंभहि (२।२५३) कलशहि (२।२६) तोषारहि (२।१७६) विवट्टवट्टहि (२।२४) आदि पदों में—हि के साथ अनुनासिक का प्रयोग नहीं हुआ है । साथ ही करवालही (३।७४) कव्वहीं (२।६१) कालहिं (३।५१) खेत्तहिं (१।१) ठडुहि (२।६४) ठामहिं (२।२३६) सहसहिं (४।२५) आदि पदों में—हि के साथ अनुनासिक का प्रयोग दिखाई पड़ता है । न केवल कारक-विभक्तियों (तृतीया-सप्तमी) के रूपों में ही अनुनासिक की अनियमितता पाई जाती है बल्कि क्रिया के रूपों में भी इसी प्रकार की टिलाई दिखाई पड़ती है । इस प्रकार के प्रयोगों के लिए

§—सन्देश रासक, व्याकरण § १-१४

लिपिकार का भी हाथ होता है, जिसके निकट अनुनासिक की एक रूपता कोई मूल्य नहीं रखती ।

§२—कीर्तिलता में न और ण के प्रयोगों में कोई नियम नहीं चलता । एक ही शब्द दोनों रूपों में लिखे पाये जाते हैं ।

न (२।१६) ण (२।५१) नञर (२।१२३ <नगर) णञर (२।१२३) ये दोनों शब्द तो एक ही पक्ति में मिलते हैं । नञ (१।६५ <नय) णय (३।१४३)

निञ (२।२३६<निज) णिञ (१।४०); निञ्चिन्ते (२।४०<निश्चिन्तेण) णिञ्चइ (निश्चय) (१।१२ <नित्य+एव); नाह (१।२५ <नाथ) णाह (१।४४) । फिर भी इन रूपों के आधार पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि न लिखने की प्रवृत्ति कुछ अधिक मालूम होती है । मध्यग न, ण के रूपों में भी इस प्रकार की गड़बड़ी मिलती है ।

§३—व और ब दोनों रूपों के अन्तर को सुरक्षित रखने का कोई प्रयत्न नहीं मालूम होता । ववरा (२।६० <बर्वर) वम्भ (४।१२६ <ब्रम्भ) बन्धव (४।२५७ <बान्धव) बञन (४।४५ <वचन, वलभद् (२।५१ <बलभद्); वमइ (१।६ <वमति) वणिजार (२।११३ <वाणिज्यकार) वडुआ (२।२०२ <वडुक) बकवार (२।८३ <वक्रद्वार)

बाजू (२।१६४ <बाजू-फा०) बहुल (३।१०१ <बहुल) आदि शब्दों को देखने से मालूम कही व का ठोक व है कही ब का व हो गया है । प्रायः व ज्यादा हैं । यह अन्तर कर सकना तो नितान्त असंभव है कि ब और व का अनुपात क्या है । इसीलिए इन शब्दों को केवल व से ही आरंभ या न कर शब्द सूची में इन्हें एक स्थान पर एकत्र कर दिया गया है ।

### ध्वनि विचार—(Phonology)

§४ स्वर—साधारण रूप से निम्नस्वरों का प्रयोग मिलता है

अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ

§५—इन स्वरों के अलावा ह्रस्व एँ और ह्रस्व ओँ के प्रयोग भी मिलते हैं । अपभ्रंश काल में ह्रस्व एँ और ओँ के प्रयोग अधिकता से मिलते हैं । कीर्तिलता ने इन प्रयोगों को सुरक्षित रखा है ।

अइसेँ ओ जसु परतापेँ रइ (२।११३) । अति गह सुमरि खोँ दापेँ खापेँ

(२११७४) खन एँक मन दएँ सुनओँ विअणखन (२११२४) एक्क धम्मे अओँका  
उपहास (२११६३) किहू वोलजोँ तुरुकाणजोँ लणखन (२११२५)।

इस प्रकार के ह्रस्व एँ और ओँ के प्रयोग कीर्तिलता में हर पृष्ठ पर पर्याप्तमात्रा में मिल जायेंगे।

§ ६—संयुक्त स्वर—इन स्वरो के अतिरिक्त कीर्तिलता की भाषा में दो संयुक्त स्वर (Diphthongs) भी पाये जाते हैं, ऐ, औ। प्राचीन आर्यभाषा में ये दोनों संयुक्त स्वर प्रचुरता से मिलते थे किन्तु मध्यकालीन आर्यभाषा काल में इनके रूप में परिवर्तन आ गया। मध्यकालीन युग में केवल ए और ओ ही मिलते हैं। मध्यकालीन आर्य भाषाओं में संयुक्त स्वरो का प्रयोग बढने लगा। बहुत से शब्दों में तो श्रुति (य, व) का प्रयोग करके इस समस्या को सहल बनाने की कोशिश की गई। वहाँ अइ, अउ जैसे संयुक्त स्वरो का प्रयोग विरल नहीं है। कीर्तिलता की भाषा में अइ और अउ तो मिलते ही हैं। इनके साथ ही, ऐ और औ दो संयुक्त स्वरो का प्रयोग भी मिलता है। कीर्तिलता में ऐ के प्रयोगों के उदाहरण इस प्रकार हैं।

भुववै (१५० = भुववइ < भूपति, भुजपति), वैठाव (२१८४ = उप + विशू) रहै (२१८४ = रहइ < रहति) तैसना (३१२२ = < ताहश) वोलै (३१६२ < वोलइ) ऐसो (४१०५ < अइस) पै (२१८५ = पइ) पैठि (२६६ < प्र + विशू) मै (३८६ < भइ = भूत्वा) लै (२१८४ = लइ = लेकर) भैसुर (४१४७ < भातृश्वसुर) औ के प्रयोगों वाले उदाहरण इस प्रकार हैं :

करौ (१७७ = करउ < करोतु) चौरा (२१४६ = चउवर < चत्वर)  
तौन (३१२३ = तवन > तउन) तौ (३१२३ = तउ < तोऽपि) औका (२१२६ = अओका < अपरक) कौडि (३१०१ < कउडि < कपर्दिका) कौसीस (२६८ < कोअसीस < कोट्टशीर्ष ?) चौहइ (२८८ चउहइ = < चतुःहाटक) जौ (२१८५ = जउ) दौरि (२१८१ = दउरि = दौड़कर) भौ (३३७ < भउ < भूतः) भौह (३३५ < भँउ < भू) हौ (१३६ < हँउ < अहकम)

§ ७—संयुक्त स्वर—संयुक्त स्वरो के साथ-साथ ही बहुत तरह के संयुक्त स्वरो का प्रयोग भी मिलता है। प्राकृत काल में कई स्वरो का साथ साथ

प्रयोग होता था । ये स्वर चँकि सयुक्त नहीं हैं इसलिए इन्हें यहाँ संप्रयुक्त कहा गया है । संप्रयुक्त यानी एक साथ प्रयुक्त स्वर । नीचे इस तरह के संप्रयुक्त स्वरों के उदाहरण उपस्थित किए जाते हैं ।

१—अइ = दूसिहइ (१।४) पससइ (१।४) बोलइ (१।५) लग्गइ (२।५३) होसइ (१।१५) अइस (२।५२) अइसनेओ (३।५४) कइ (२।११) किनइते (२।११४)

२—अआ = पआसओ (२।४६) प्रकाश)

३—अउ = अउताक (४।१२१) गउँ (२।३६) कियउ (३।६)

४—अए = दए (१।३०) करावए (३।२८) कहए (३।२०) गणए । (४।१०७)

नाए (२।६ = नागर), चलए (२।२३०), पएरहु (२।२०६)

५—अओ = जओ (३।६६) करओ (३।२५), दसओ (१।६३), दसओ (२।१६०) दासओ (३।१०४), पव्वतओ (४।२५)

६—आअ = काअर (२।२६) नाअर (१।१२ < नागर),

७—आओ = गाओष (२।८५ = गवात्त) पसाओ (३।४६ = प्रसाद)

८—आए = ( उपाय १।५४ ) = उपाय, खोदाए ( २।१७४ = खुदा, फा० );  
नाए ( २।६ = नागर )

९—आउ = कुसुमाउह (१।५७ = कुसुमायुध )

१०—आइ = धुमाइअ (३।६५); जाइअ (२।६३)

११—इअ = इअ (२।२२६ = इतः); इअरो ( १।२५ = इतर ), उद्धरिअउँ  
२।२ = उद्धरामि ); किजिअ ( ४।२५६ )

१२—इआ = पाइआ ( २।१०३ = पा ); पिआरिओ ( २।१२० = प्रिय कारिक )  
पेखिआ ( २।२२६ = प्रेक्षित )

१३—ईआ = पण्डीआ (२।२२६ = पण्डित), पारीआ ( २।२१६ = पारितः )

१४—उअ = उअआर ( १।१८ = उपकार ); धुअ ( १।४३ = ध्रुव ); दुअओ  
( २।५६ = द्वौ )

१५—एओ = करेओ ( २।१०३ ); धारेओ ( १।८४ ); सारेओ ( १।८० )  
विथ्येरेओ ( १।८८ )

१६—ए आ = पेआजू ( २।१६५ = प्याज़ )

१७—ओइ = ओइनी (१।४६), गोइ ( १।४४ )

१८—आए = गुरुलोए (२।२३ = गुरुलोक )

१९—आइअ = धुमाइअ ( ३।६५ ); जाइअ ( २।६३ )

२०—इअउ = करिअउ ( १।४१ ); उद्धरिअउँ ( २।२ ) गमिअउ ( ३।१०५ )

२१—उअउ = हुअउ ( २।४ )

२२—ऊअओ = दूअओ ( २।११४ = दूँ अपि )

२४—इउआ = पिउआ ( ४।१०३ = प्रिय प्रियक )

२५—अउअआ = पउअआ ( २।३६ = पर + उपकार )

ऊपर कोई पचीस तरह के मंप्रयुक्त स्वरों का उदाहरण उपस्थित किया गया। निचले कुछ उदाहरणों में तीन, चार-चार संप्रयुक्त स्वर दिखाई पड़ते हैं। वस्तुतः इन्हें खास प्रकार के स्वर समूह का ही उदाहरण कह सकते हैं। दो स्वरों के प्रयोगों में ही कभी कभी संयुक्त ( Diphthongs ) स्वर का भ्रम हो जाता है; परन्तु वहाँ भी उच्चारण की दृष्टि से सूक्ष्म अन्तर की स्थिति अवश्य रहती है। इस तरह के संप्रयुक्त स्वरों के विषय में डा० चटर्जी का विचार है कि जब इनका उच्चारण संयुक्त स्वरों की तरह होता है तब तो उच्चारण अवरोहित संयुक्त स्वर (falling diphthongs) की तरह होता है जिसमें प्रथम स्वर पर वलाघात दिया जाता है, या कभी कभी दोनों पर वलाघात दे कर सम उच्चारण (even) होता है, किन्तु इनका (rising diphthongs) की तरह उच्चारण नहीं होता। §६ [ उक्ति व्यक्ति स्टडी ] ऊपर कीर्तिलता के उदाहरणों में संभवतः कुछेक श्रौर संप्रयुक्त स्वर हों, जो इस सग्रह में न आसके हों।

§८ = ए = कीर्तिलता में कुछ शब्दों में य के स्थान पर ए का प्रयोग मिलता है। वालिराए ( १।३८ = वलिराय < वलिराज ) राए ( २।१२ = राय < राजन् ) माए ( २।२३ = माय < माइ > मातृ ) गुरुलोए ( २।२३ = गुरुलौय < गुरुलोक ) भाए ( २।४२ < भाय < भ्राता ) य श्रुति के स्थान पर यह ए रूप दिखाई पड़ता है। प्राकृत में क्, ग्, च्, ज्, त्, द्, प, व् के लोप हो जाने पर उनके स्थान पर 'अ' रह जाता है। ऐसी अवस्था में य या व श्रुति का विधान था। यहाँ प्रायः ए रखते हैं। ऊपर के उदाहरणों को देखते हुए लगता है कि इस पादान्त में आए ए पर मागधी के प्रथमा के एकारान्त का शायद प्रभाव हो, किन्तु यह ए स्वर पद के मध्य में भी दिखाई पड़ता है।

सुर राए नएर नाएर रमनि (२।६) इस एक पंक्ति में दो शब्दों नएर < नयर < नगर और नाएर < नायर < नागर में य के स्थान पर यह ए स्वर दिखाई पड़ता है। यह सर्वत्र ह्रस्व रूप में ही मिलता है। इस प्रकार के प्रयोगों में बहुधा इ और य के परस्पर विनिमेषता का प्रभाव प्रतीत होता है। 'य' श्रुति होने पर 'य' का 'इ' के रूप में और 'इ' की ह्रस्व 'ए' के रूप में कदाचित् परिणति हुई है।

वर्णरत्नाकर में भी इस तरह के रूप मिलते हैं। चटर्जी का विचार है कि ऐं और औं मुख्यतः किसी सयुक्त स्वर का जब भाग बन कर आते हैं तो वे प्रायः ह्रस्व होते हैं जैसे : वैं टिआ = बेटी ( वर्ण० ७६ ख ) कएँल = किया हुआ। पद के बीच में ऐं और औं प्रायः य और व के स्थान पर आते हैं। कएल और कयल दोनों ही रूप मिलते हैं। वर्णरत्ना कर §६। इस प्रकार के प्रयोग का चटर्जी ने कोई कारण नहीं बताया।

§ ६—इ स्वर का परिवर्तन ए के रूप में हो जाता है।

दएँ ( १/२० = दइ = √दा ) करावएँ ( ३/२८ = करावइ√कृ )  
कहएँ ( ३/२० = कहइ ) चलएँ ( २/२३० = चलइ = चल् ) (पससए ४/६३  
पसंसइ < \*प्रसांसति ) पुरवाए ( ३/११३ = पुरवइ = पूर्ण करता है )

मनुसाए ( ४/१३० = मनुसाइ = क्रुद्ध होकर )

इस तरह के परिवर्तन प्रायः क्रिया रूपों में ही दिखाई पड़ते हैं और अन्य स्वर में ही यह परिवर्तन होता है। यहाँ भी यह ऐं ह्रस्व ही है।

उक्ति-व्यक्ति प्रकरण में वर्तमान काल की अन्य पुरुष की क्रियाओं में अकारान्त रूप के कुछ प्रयोग मिलते हैं। ये प्रयोग कीर्तिलता में भी इसी काल की क्रिया में प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं। चटर्जी ने इस तरह के प्रयोगों पर विचार करते हुए लिखा है कि उद्बृत्त स्वर-समूह अइ एइ क्रिया के प्रत्यय के रूपों में वर्तमान काल के अन्य पुरुष में कुछ विचित्र प्रकार का परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन अइ, अए, या ए, न होकर अ होता है। बोल, कह, चल आदि रूप।

चटर्जी ने मत से अइ को अ के रूप में आने में इस प्रकार का विकास-क्रम पार करना पड़ा होगा :

अइ प्रथम विवृत्त अइ > अएँ के रूप से होते हुए अँ के रूप में दिखाई पड़ता है। इस प्रकार

चलति > चलइ > चलए > चल। उक्ति व्यक्ति स्टी § ३६

मै इ के ऐं रूप के परिवर्तन में एक सीढ़ी ऊपर के इन अएँ वाले रूपों को विचारार्थ उपस्थित कर रहा हूँ। कीर्तिलता की क्रियाओं पर विचार करते समय हम देखेंगे कि चँल > चलएँ चलइ इन तीनों रूपों का प्रचुर प्रयोग वर्तमान काल के अन्य पुरुष में प्राप्त होता है।

§ १०—आ कभी कभी ह्रस्व अ की तरह प्रयुक्त होता है। इस तरह के

के प्रयोग प्रायः समस्त पदों में तत्र होते हैं, जब इस पर से बलाघात हट जाता है।

तमकुण्ड (२/१७५ = ताम्रकुण्ड) तम्बारू (२/१६८ = ताम्रपात्र ?)  
मछहटा (२/१०३ मछ - हाट < मत्स्यहाट) वणिजार (२/११३ < वाणिज्य  
कार) सोन हटा (२/१०२ < स्वर्ण हाट)

§ ११—ऋ का उच्चारण इस काल में अवश्य ही रि था। किन्तु निखने में ऋ का प्रयोग हुआ है। यह बहुत कुछ कीर्तिलता के लेखक के तत्सम प्रेम का परिणाम है। इस तरह कीर्तिलता में ऋ रक्षित भी है, उसका लोप और रूपान्तर भी हुआ है। ऋ का रूप भृही (१११) में मध्य स्वर की तरह और ऋण (२।६६) में आदि स्वर की तरह दिखाई पड़ता है। कीर्तिलता के गद्यों में जहाँ संस्कृत शब्दावली का प्रचुर प्रयोग हुआ है ऋ के प्रयोग मिलते हैं। पितृ वैरी (१।८०) शृगाटक (२।६६) पृथ्वीचक (२।२०६) प्रभृति (४।५०)

ऋ का लोप भी होता है। तद्भव शब्दों में प्रायः ऋ का लोप हुआ है और वहाँ निम्न प्रकार से रूपान्तर दिखाई पड़ते हैं।—

ऋ > अ = कृष्ण > कन्ह (१।३८) गृह > घर (२।१०)

ऋ > आ = नृत्य > नाच (२।१८७)

ऋ > इ = हृदय > हियय (१।२८) अमृत > अमिअ (१।६)

वृतान्त > वितन्त (३।३) कृत्रिम > किचिम (२।१३१)

भृत्य > भित्त (३।११६)

ऋ > उ = पुच्छ > पुच्छु (३।१२) पृथ्वी > पुहवी (४।१०६)

पाकृत > पाउँअ (१।२०) शृणु > सुनु (३।६८)

ऋ > ए = मातृ > माए (२।४२) मातृ > माए (२।२३)

ऊपर के इन रूपों को देखते हुये इतना स्पष्ट मालूम होता है कि इसमें ऋ का इ ही अधिक हुआ है। उसके बाद ऋ का उ हुआ है। डा० तगारे का कहना है कि ऋ का इ रूपान्तर पूर्वी अपभ्रंश में अधिक मिलता है। पश्चिमी अपभ्रंश में ऋ का इ रूपान्तर ४३ प्रतिशत से ६६ तक दिखाई पड़ता है।

[हि० ग्रा० अप० पृ० ४१]

कृश का किरिअ (३।१०८) श्री का सिरि (३।११८) रूप भी मिलते हैं जिनमें स्वरभक्ति के कारण यह परिवर्तन उपस्थित हुआ है।

## सानुनासिकता (Nasalization)

### § १२—एवरो की सानुनासिकता—

कीर्तिलता में प्रायः स्वरो की सानुनासिकता प्रकट करने के लिए अनुस्वार का प्रयोग हुआ है किन्तु साथ ही साथ अनुनासिक स्वर के लिए ज का प्रयोग भी मिलता है। इस तरह अँ, आँ, ईँ, उँ, एँ अँ के लिए ज, जा, जि, जु, जे, जो के प्रयोग प्रायः मिलते हैं।

जानिज (२।२३६ = जानिअ) हिज (३।११ = हिय < हृदय) निज (२।२२६ = निज) मेजाणे (२।३६ = मेज्रोणे) काजि (१।१ = काई < किमि) गोसाजुनि (२।११ = गोसाउनि < गोस्वामिन्) जुण (२।४३ = उँण < पुनः) (जेहा ३।२१ = जेँ हा = जहाँ) जेजोन (२।२३६ = जेजोण) पाजे (२।५६ = पाए < पादेन) उद्वरजो (२।४३ = उद्वरजो) उपसजो (४।१०३ उपसजो) कहेजो (३।१४६ = कहजो) जेजोन (२।२३६ = जे जोण < जेमुन) गाजो (२।६२ = गाँवो) < ग्राम)

§ १३—सम्पर्क जनित सानुनासिकता (Cantegeous Nasali zation) के प्रचुर उदाहरण मिलते हैं। ऐसी अवस्था में अपने परवर्ती अनुनासिक या सानुनासिक स्वर के सम्पर्क के कारण कोई स्वर सानुनासिक हो सकता है। इस प्रकार के स्वर प्रायः अनुस्वार या चन्द्र विन्दु से व्यक्त किये जाते हैं।

उत्तम काँ (२।११३) कमन काँ (२।५३) नहीं (२।२००) = नहि साथ ही नहु १।२८ भी मिलता है। नाजो (२।६८ नाँव < नाम) कुसुमाउँह (१।५७ < कुसुमायुध)

§ १४—अकारण सानुनासिकता। इस प्रकार के उदाहरण भी कीर्तिलता में भरे पड़े हैं। अकारण सानुनासिकता आधुनिक आर्य भाषा काल में तो एक बहु-प्रचलित प्रवृत्ति सी हो गई है, किन्तु इसका आरंभ अवहट्ट काल से ही हो गया था। कीर्तिलता की भाषा में इस प्रकार की सानुनासिकता में बड़ी गड़बड़ी परिलक्षित होती है। क्योंकि कभी-कभी एक ही शब्द में निश्चित स्वर सानुनासिक होता है, कभी वह स्वर सानुनासिक नहीं होता।

उँच्छाहे (१।२६ = उत्साह) उँपताप (३।५४ < उपताप) उँपास ३।११४ < उपवास) काँसे (२।१०१ < कास्य) जूँआं (२।१४६ < जूत) पिउँआं (४।१०३ < प्रिय + वा) वभण (२।१२१ = ब्राह्मण) वघँ (४।८२ वघ) कँडु (३।१५३ = रुष्ट) हँख (३।७३ = हर्ष)



§१५—अपभ्रंश को उकार बहुला भाषा कहा गया है, इसलिए इस भाषा में प्रायः अन्त्य उ स्वर की प्रधानता रहती है। इस प्रकार के उ कीर्तिलता में प्रायः अनुनासिक मिलते हैं। 'उ' का प्रयोग भी विरल नहीं है, और यह बताना कठिन है कि इस तरह के अन्त्य उ और उँ में किसकी संख्या अधिक है पर अनुनासिक उँ की संख्या कम नहीं है, इतना अवश्य कहा जा सकता है। यह सानुनासिकता भी अकारण ही है।

उद्धरिअउँ ( २/२ ) करिअउँ ( १/४१ ) गोचरिअउँ ( ३/१५४ )  
परिअउँ ( ३/३५ ) पल्लानिअउँ ( ४/२७ ) वधिअउँ ( २/१६ ) वनिअउँ  
( २/५१ ) भरिअउँ ( ३/३१ )

ये उदाहरण संस्कृत कृदन्त 'क्त' प्रत्यय वाले रूपों के हैं जो अपभ्रंश में इत ७ इअ रूप में आते हैं। इनमें अक्षर 'उ' लग जाता है, पर यहाँ उँ की अधिकता दिखाई पड़ती है।

§१६—स्वर के क्षतिपूरक दीर्घीकरण के साथ अनुस्वार को ह्रस्व करने की प्रवृत्ति अवहट्ट की अपनी विशेषता है। मुख-मुख के लिए जिस प्रकार द्वित्व को सरल करने की प्रवृत्ति परवर्ती काल में बढ़ी, उसी प्रकार प्रायः पूर्ण अनुस्वार या वर्गीय आनुनासिक के स्थान पर ह्रस्व अनुस्वार चन्द्र विन्दु के रूप में रखते हैं और स्वर को क्षतिपूर्ति के लिए दीर्घ कर देते हैं।

आँग (२/११०८ अग ) आँचर ( २/१४६८ अंचल ) कौषा (४/४६८ स्कन्ध ) कौंड ( ४/१६३ = कण्ण८ कर्ण ) चाँद ( २/१३० = चद८ चन्द्र )  
बाँधा ( ४/४६८ बन्ध ) बाँकुले ( ४/४५ < वक्र ) भाँग ( २/१७४ = भग८ भग्न )  
लाँघि ( ४/४८८ लघ् )

## व्यंजन

§१७—कीर्तिलता में प्रायः वर्तमान कालीन आर्यभाषा के सभी व्यंजन पाए जाते हैं।

क ख ग घ ङ

त थ द ध न

च छ ज झ ञ

प फ ब भ म

ट ठ ड ढ ढ, ण

य र ल, व श, ष, स, ह

§ १८ ण और न में किसी प्रकार के अन्तर-निर्धारण का कोई नियम बना सकना कठिन है अनुलेखन-पद्धति (टिप्पणी § २) में इस प्रकार के शब्दों का उदाहरण दिया गया है जिनमें एक अवस्था में ण और दूसरी अवस्था में न

का प्रयोग मिलता है। फिर भी अपभ्रंश के प्रभाव से कुछ शब्दों के बहुप्रचलित न कोण करके भी लिखा गया है। अणवरत (४१६८अनवरत) कम्मान्ण (२।१६०८कमान) भाअण (४।७६८भोजन) मअरन्दपाण (२।८२८मकरन्दपान) माणा (४।१२२८मान) रअणि (३।४८रजनी) पाण (२।२२२८खान) सेयण (३।६५८सैन्य)। श को न करने की प्रवृत्ति तो बहुत प्रचलित है। कल्हान (३।१४८कल्याण); कन्न (१।३८८कृष्ण) तारुन्न (२।१३१८तारुण्य); तिहु अण (४।२४६८त्रभुवन), पुन्न (१।३६८पुण्य)

§ १६—ञ कीर्तिलता में खास व्यजन ह जो किसी भी स्वर की सानुनासाकित्ता द्योतित करने के लिए उक्त स्वर के साथ प्रयुक्त हाता है। इसके उदाहरण [टिप्पणी § १२] में दे दिए गए हैं। संस्कृत के तत्सम शब्दों में ञ का प्रयोग वर्गीय अनुनासिक के रूप में ही होता है। अञ्जल (२।१४२) नयनाञ्जल (२।१४२)

§ २०—क्ष का उच्चारण 'कख' की तरह होता था और लिखने में प्रायः यह ष्व हो जाता था। प्राचीन आर्य भाषा का 'क्ष' प्रायः 'कख' या 'छ' के रूप में रूपान्तरित होता है। वर्णरत्नाकर, पदावली (विद्यापति) आदि के प्रयोगों से मालूम होता है कि 'ष्व' प्राचीन मिथिला में बहुत प्रचलित था जो कख का लिपि में प्रतिनिधित्व करता है।

पेण्वन्ते (२।५३८प्रेक्षन्तो), विअण्वण (३।६०८विजकखण ८ विचक्षण); विपण्व (४।३७८विपक्ष), भण्विअ (३।१०७८भक्षित), रण्वओ २।४, ८ √रक्ष; लण्व (४।४२८लक्ष); लण्वण (२।१५७८लक्षण)।

क्ष का कही कही ष मात्र भी होता है। जषणे (४।१२० य+क्षणे) जाषरी (२।१८६ ८ यक्षिणी ?) लष (३।७३८लक्ष) षणे (३।३७८क्षणे) षेत (४।७६१८क्षेत्र); क्ष का 'कख' रूप भी मिलता है। पकखार (३।६८प्रक्षालन); पकख (३।१६१८पक्ष) भिकखारि (२।१४८भिक्षा कार); लकखअइ (१।३१७ √लक्ष) सिक्खवइ २।१४८ √शिक्ष

§ २१—श और स दोनों का प्रयोग मिलता है। श का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में ही मिलता है। स का प्रयोग तद्भव में प्रात होता है।

किन्तु ष का प्रयोग कीर्तिलता में बहुत महत्व का विषय है। इसका प्रयोग क्ष के लिए हुआ है, यह हम ऊपर दिखा चुके हैं। इसका प्रयोग 'ख' के लिए हुआ। ष के 'ख' में प्रयोग संस्था की दृष्टि से अधिक है।

षण्डिअ (३।६१८खंडित) षराव (२।१७८खराव) षरीदे (२।१६६ खरीदना षण (२।२२२८खान) षस (२।३२२८खास) षीसा (२।१६८ = सीसा)

इन प्रयोगों को देखने से मालूम होता है लिखने में भले 'घू' का प्रयोग किया गया हो किन्तु उच्चारण की दृष्टि से यह खू के निकट था। बहुत सी आधुनिक आर्य भाषाओं में घू का प्रयोग अघोष ऊष्म वर्ण के लिए न होकर महाप्राण कंठ्य ख के लिए हुआ। इसके बहुत से उदाहरण चन्द, कबीर, जायसी और तुलसी की रचनाओं में मिल सकते हैं। कीर्तिलता या मैथिली में यह पारम्परा-स्वीकृत प्रयोग प्रतीत होता है। यह प्रयोग जनता द्वारा गृहीत है। गियर्सन ने लिखा है कि 'घू' जब किसी व्यजन से संयुक्त न होकर अलम लिखा जायेगा तो उसका उच्चारण 'खू' ही होगा। घष्ठ का उच्चारण मैथिली में सर्वत्र स्रष्ट ही होता है। यह सार्वज्ञिक है। साधारण पढ़ा लिखा भी लिखता 'घू' है लेकिन उच्चारण खू ही करता है।<sup>१</sup>

§२२—कीर्तिलता की भाषा में र, ल, ड, के अन्तर को सुरक्षित रखने का प्रयत्न नहीं दिखाई पड़ता। पश्चिमी मागधी की वर्तमान आर्यभाषाओं मैथिली, भोजपुरी और मगही आदि में जिस प्रकार र, ल, ड परस्पर विनिमय हैं उसी प्रकार कीर्तिलता की भाषा में भी ये परस्पर विनिमय कहे जा सकते हैं।

घोल (२।६५<घोड़ा<घोटक) चोल (२।२२ = चौर) तुलकन्हि (४।१२०<तुर्क) दरवाल (२।२३८<दरवार) दवलि (२।१७७ = दवड़ि = दौड़) देउरि (२।२०७<देवकुल); पड़जल (२।१६८<पैजार ?) पकलि (४।१४८ = पकड़) सुरतानी (३।६६<सुलतानी), थोल (३।८७ = थोड़ा) तोर (२।२०४ = तोड़<त्रुट) कापल (२।६५<कापड़<कर्पट) करुआ (४।१०३ = कहुवा<कट्ट) काजर (२।१३०<काजल) आधा 'र' यानी रेफ जब बदल कर ड हो जाता है तो कुछ बड़े महत्वपूर्ण रूप दिखाई पड़ते हैं।

कांड (४।१३६<कर्ण) आकरडन (१।२६<आकर्ण)

§ ३—न का ल के रूप में परिवर्तन हो जाता है। इस तरह के रूपों में नहिअ (२।२३ = लहिअ<लम्) साथ ही लहिअ (३।१५६) भी मिलता है। इलामे (२।२२३ = इनाम) अब भी विहार के पूर्वी और पश्चिमी ब्रह्माल के कुछ पश्चिमी जिलों में न का ल या ल का न उच्चारण मिलता है। वीरभूमि जिले में इसका प्रयोग विशेष रूप से लक्ष्य करने योग्य है। [वीरभूमि डाइलेक्ट] §२४—अपभ्रंश की तरह कीर्तिलता में भी अघोष व्यजन किसी स्वर के बाद प्रयुक्त होने पर प्रायः धोष हो जाते हैं।

सगरे (३।७८<सकल) बेगार (३।२०१ = बेकार) सोग (३।१४७ = शोक) लोग (२।३१<लोक)

बहुत कम स्थलों में इस नियम के प्रतिकूल उदाहरण प्राप्त होता है। हमारे देखने में सिर्फ एक स्थान पर घोष का अघोष रूप दिखाई पड़ता है। अदप (३।४३ = अदव)।

§ २५—कीर्तिलता में भी अवहट्ट की मुख्य प्रवृत्ति सरलीकरण (Simplification) के प्रभाव के फलस्वरूप द्वित्व को तोड़कर एक व्यंजन कर दिया गया है और उसके स्थान पर क्षतिपूर्ति के लिए परवर्ती स्वर को दीर्घ कर दिया गया है। काजर (२।१३० < कज्जल) कापल (२।६५ < कर्पट) ठाकुर (२।१० = ठक्कुर) दूसिहइ (१।४<दुस्सिहइ<दूसइस्सइ<दूषयिष्यति) जासु (१।२६ < जस्स<यस्य), भूट (२।१०४<उच्छिष्टम्) तीनू (२।३६<तिन्न) नाच (२।१२७<नृत्य) पाळा (२।१७६<पञ्च<पश्च) पीटिआ (४।४७<पिट्टु<पृष्ठ) पूहवी (२।२२०<पृथ्वी) पैठि (२।६६<पइट्ट) भागि (३।७५<भग्न<sup>०</sup>) भीतर (२।८०<अभ्यन्तर) भूखल (४।११६<मुक्षित) माये (२।२४३<मस्तके) मानुस (२।१०७<मनुष्य) राखेहु (१।४४<रक्ष्) लागि (२।१४०<लग्नि) दाप (४।६७ <दर्प) पोखरि (२।८३<पुष्करिणी)

कभी कभी सरलीकृत तो कर देते हैं किन्तु क्षतिपूर्ति के लिए स्वर को दीर्घ नहीं करते। कुछ स्थितियों में जो स्वर दीर्घ हैं वे दीर्घ ही रह जाते हैं कभी कभी ह्रस्व भी हो जाते हैं पर ऐसे उदाहरण विरल ही हैं।

इस तरह के उदाहरण नीचे दिए जाते हैं।

अछए (३।१३१ < अञ्छइ) अपनेहु (३।३८ < अप्पण < आत्मन्) यहाँ आत्मन् का 'अ' ह्रस्व होकर 'अ' हो गया है। उपजु (३।७६ < उप्पज < उत्पद्यते) परिठव (२।६५ < परिष्ठव) विका (३।११०) विसवासि (२।७ < विश्वास) वाज (२।२४४ < वाद्य) मुक्क (३।१२८ < मुक्क < महाम्) मूले (४।४४ < मूल्य) सौभागे (२।१३२ < सौभाग्य) हासह (४.८४ < हास्य)

**रूप-विचार** ( Morphology )

§ २६ संज्ञा— कीर्तिलता से अपभ्रंश के प्रभाव के कारण उकारान्त रूपों की अधिकता होनी चाहिए थी किन्तु अकारान्त रूप ही सर्वाधिक रूप से

मिलते हैं। उकारान्त प्रातिपादिकों की संख्या कुल करीब पचास के आस पास पहुँचती है जबकि अकारान्त शब्दों की संख्या डेढ़ हजार से ऊपर है।

कीर्तिलता में प्रायः सभी स्वरों से अन्त होने वाले प्रतपादिक (संज्ञा) मिलते हैं।

अ—वल्लीअ ( २।१६६ ∟ वली-फा० )

आ—अलहना ( २।१३४ ∟ अ + √लम् ) असहना ( २।१३४ ∟ अ + सह् ) कुण्डा ( २।१७५ ∟ कुण्ड ) करुआ ( ३।१०३ ∟ कडु ) बटुआ ( २।२०२ ∟ बटुक ) ओभा ( ३।१४३ ∟ उपाध्याय )

इ—अग्नि ( ३।१५२ ∟ अग्नि ) जाति ( २।१३ ) अघश्रोगति ( २।१४२ ), आगरि ( २।११५ ) गोरि ( २।२०८ ∟ गोर = कर् ) गोसाजुनि ( २।११ ∟ गोस्वामिन् ), कौडि ( ३।१०१ ∟ कपार्दिका )

ई—अटारी ( २।६७ ∟ अटारिका ), अन्तावली ( ४।१६७ ) कट-कानी ( ३।१५८ ∟ कटक ) गअण्डी ( ४।१६६ ) जापरी ( २।१८६ ∟ यक्षिणी ? ) देहली ( २।१२४ ) दाढी ( १।७७ )

उ—वथु ( ४।११६ ∟ वस्तु ) विजु ( ४।२३१ ∟ विद्युत् )

ऊ—तम्बारू ( २।१६८ ∟ ताम्रपात्र ) गोरू ( ४।८७ ∟ गोरूप )

ए—खोदाए ( २।१७४ ∟ खुदा ) दोहाए ( २।६६ = दुहाई )

ऐ—भुववै ( १।५० ∟ भूपति )

ओ—नाओ ( २।६८ ∟ नाम ) गावों ( २।६७ ∟ ग्राम )

प्राचीन आर्य भाषा काल में संज्ञाओं में अधिक शब्द व्यजनान्त होते थे। इन व्यजनान्त शब्दों के कारण उत्पन्न व्याकरण गत जटिलता को मिटाने की प्रवृत्ति तो प्राकृत-पाली काल में ही दिखाई पड़ने लगी। वहाँ भी व्यजनान्त शब्दों को या तो हटा दिया गया या उन्हें संस्कृत के अकारान्त शब्दों की तरह सुवन्त रूप दिया गया। रामस्स की तरह अग्निस्स और बाउस्स भी होने लगे। अपभ्रंश काल में आते आते इस प्रवृत्ति में काफी विकास हुआ और आगे चल कर विभक्तियों में कोई निश्चित विधान ही नहीं रह गया।

कीर्तिलता में भी इ कारान्त और उकारान्त शब्दों को अकारान्त बनाया गया है। गरुअ ( ३।१३७ ७ गुरु + क ) और लच्छिअ ( ४।५६ ∟ लक्ष्मी ) ऐसे शब्दों के उदाहरण हैं।

§१७—मैथिली के प्रभाव से संज्ञा शब्दों को ह्रस्व स्वरांत बनाया गया है। प्रियसंन ने मैथिली की संज्ञाओं के चार प्रकार के रूप लक्षित किए थे। उन्होंने बताया कि घोड़ा के चार रूप घोड़, घोड़ा, घोड़वा, और घोड़ौवा मिलते हैं।<sup>१</sup> कीर्तिलता में घोल, घोर आदि रूप तो मिलते हैं। वा प्रत्यान्त रूप भी मिलते हैं पउवा ( ३।१६१ = प्रभु + वा ) पिउवा ( ४।१०३ = प्रिय + वा ) वटुआ ( २।२०२ = वटु + वा ) आदि रूप विशेष महत्व के हैं।

§२८ (लग) अपभ्रंश में लिंग व्यवस्था को सभी ने अनियमित माना है। हेमचन्द्र ने इसे अतत्र कहा है।<sup>२</sup> पिशल ने इसे लचीला और अस्थिर कहा। कीर्तिलता में भी अपभ्रंश का यह गुण पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। देवता ४।५१ आकारान्त होते हुए भी पुल्लिंग है जबकि आशा, रमा, और दया आदि स्त्रीलिंग। तिरहुत स्त्रीलिंग है और उसका विशेषण इ पवित्री ४।३। राह (४।८) का प्रयोग पुल्लिंग में हुआ है। तेन्नि (४।४८) स्त्रीलिंग है। कीर्तिलता में संस्कृत के प्रभाव के कारण शायद अधिक गड़बड़ कम मिलेगा पर अपभ्रंश के प्रभाव के कारण उनमें अव्यवस्था स्वाभाविक है। बड़ि नाजो (२।६४) में नाम स्त्रीलिंग है।

कीर्तिलता के लिंग विधान की सबसे बड़ी विशेषता है विशेषणों और कृदन्तज विशेषण रूपों में लिंग व्यवस्था। विभूति (१।८६) स्त्रीलिंग है उसका कृदन्तज विशेषण रूपलि भी स्त्रीलिंग है। दोखे हीनि, माभ् खीनि, रसिके आनलि (२।१४६) में सर्वत्र स्त्रीलिंग विशेषणों का प्रयोग हुआ है। विद्यापति के पदों में भी इस प्रकार की स्त्रीलिंग क्रियाया और विशेषणों का बहुत प्रयोग मिलता है।

§२९ (वचन) संस्कृत काल में तीन वचनों में से पाली युग तक आते आते केवल दो शेष रह गए। बहुवचन ने ही द्विवचन का भी स्थान ले लिया। अपभ्रंश काल में अधिकांश स्थलों पर कर्ता में लुप्तविभक्तिक प्रयोग के कारण वचन का निर्णय केवल क्रिया रूपों को देख कर ही हो सकता है। कर्ता से भिन्न कारकों में कीर्तिलता में बहुवचन के लिए संज्ञा और सर्वनाम दोनों में 'न्हि' या 'न्ह' का प्रयोग मिलता है।

तान्हि वेश्यान्हि (२।१३६) युवराजन्हि मांभ (१।७०), तान्हिकरो पुत्र

१. जार्ज रिचर्सन मैथिली डाइलेक्ट पृ० ११

२. क्षिणमतंत्रम् हेम ८।४।४४५

(१।७०), जन्हि के (२।१२६), मन्तिन्ह (३।६) महाजन्हि करो (२।२८), नगरन्हि करो । (२।६०) ।

इन रूपों के अलावा कुछ ऐसे भी रूप बनते हैं जिसमें 'सर्व' के किसी रूप को जोड़ कर बहुवचन बनाया जाता है ।

सव्वउं नारि विअण्खनी सव्वउं सुस्थित लोक (२।१५२)

इन रूपों में सज्ञा या सर्वनाम का मूल रूप एक वचन का ही गृहीत होता है । वह प्रवृत्ति मैथिली में भी दिखाई पड़ती है ।

कीर्तिलता में एक स्थान पर कर्ता कारक में 'हुँकारे' शब्द आया है ।

वीर हुकारें होहि आगु रोवंचिय अंगे (४।१६५)

हसमें हुकारें का 'ए' कारक विभक्ति तो नहीं ही है । इसे बहुवचन की विभक्ति मानने की सभावना हो सकती है ।

§ ३०—कारक : आधुनिक हिन्दी में तो कारक विभक्तियों के प्रयोग का अत्यन्त अभाव है । अब तो कारक विभक्तियों का स्थान परसगों ने ले लिया है । कारको का विभक्तियों के लोप की प्रक्रिया अपभ्रंश काल में ही आरम्भ हो गई थी और अवरुद्ध काल तक आते आते तो इसमें और भी अधिक वृद्धि हो गई । कीर्तिलता में कारक विभक्तियों से कहीं ज्यादा प्रयोग परसगों का हुआ है । इस पर हम आगे विचार करेंगे । विभक्तियों का अध्ययन उनके समान प्रयोगों को देखकर समूहों में होने लगा है । सर्व प्रथम ऐसा अध्ययन डा० स्पेयर ने पाली की विभक्तियों का किया जिसमें चतुर्थी और षष्ठी की विभक्तियों का एक साथ विवेचन मिलता है ।<sup>१</sup> डा० तगारे ने सविभक्तिक प्रयोगों को देखकर यह स्वीकार किया है कि इनके मुख्य दो समूह हैं । पहला समूह तृतीया और सप्तमी का दूसरा चतुर्थी पञ्चमी और षष्ठी का ।<sup>२</sup> प्रथम द्वितीया और सम्बोधन प्रायः निर्विभक्तिक होते हैं । अतः इन्हें भी एक समूह में रखा जा सकता है और इनके अपवादों पर विचार किया जा सकता है ।

§ ३१ कीर्तिलता में तृतीया सप्तमी के लिए प्रायः तीन विभक्तियों का प्रयोग हुआ है । ए, ए, हि ।

१. डा० स्पेयर वैदिक संस्कृत सिन्टेक्स § ४३, तगारे द्वारा उद्धृत पृ० २१ ।

२. डा० तगारे हि० ग्रे०अप० पृ० २४ भूमिका ।

तृतीया ए-दाने दलिय दारिद् ( १।४७ ) वित्ते बटोरइ कीत्ति ( १।४८ )  
सत्तु जुञ्भइ ( १।४८ ) कोहे रज परिहरिअ ( २।२५ )

हिं—कनक कलशहि कमल पत्र पमान नेत्तिहिं

तृतीया मे एन और एहि विभक्तियाँ भी मिलती हैं। पुरिसत्तयेन (१।३२)  
जम्ममत्तेन (१।३२) जलदानेन (१।३३) और गमनेन (४।१०६) इनमें संस्कृत  
विभक्ति 'एण' का स्पष्ट प्रभाव है। परक्कमेहि ( ४।३० ) चामरेहि ( ४।३६ )  
पळ्लरेहि ( ४।४२ ) में एहि का प्रयोग मिलता है।

सप्तमी—सज्जन चिन्तइ मनहि मने (१।७) रहसे दव्व दए विस्सरइ (१।३०)

घरे घरे उग्गिह चन्द (२।१२५) आँतरे-आँतरे (२।६२)

आँतरे पतरे सोहन्ता (२।२३०) सथ्य सथ्येहिं (२।६३)

परनिष्ठित अपभ्रंश में भी, दइए पवसन्तेण, में ए विभक्ति तृतीया के लिए  
आई है। वैसे ही बहुवचन करण में 'गुणहिं न संपइ' में हि मिलता है। अधिक-  
रण में भी ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं। एं या ए विभक्ति की उत्पत्ति पर भिन्न  
भिन्न मत हैं। जून ब्लाक एं को संस्कृत तृतीया की विभक्ति एण से उत्पन्न  
मानते हैं।<sup>१</sup> यही मत ठीक माना जाता है। टर्नर का भी ऐसा ही मत है।<sup>२</sup> हिं  
के विषय में काफी मतभेद है। ग्रियर्सन ने 'इं' के सिलसिले में इसकी व्युत्पत्ति  
म० मा० आ० भाषा के अधिकरण 'अहि' से बतायी है।<sup>३</sup>

इन तमाम मतों का अध्ययन करते हुए डा० तगारे ने कहा कि इस  
समूह की विभक्तियाँ हिं, एं, अइ इ, इत्यादि संस्कृत तृतीया बहुवचन एभिः तथा  
सप्तमी एक वचन अस्मिन् इन दोनों के मिश्रण से बनी हैं।<sup>४</sup> चटर्जी 'भिः'  
और षष्ठी के अणाम के 'न' के मिश्रण से मानते हैं।<sup>५</sup>

§ ३२ चतुर्थी षष्ठी और पंचमी समूह की सबसे प्रधान विभक्ति ह, हं  
और हुँ आदि हैं। इनका प्रयोग कीर्तिलता में इस प्रकार हुआ है।

१. जूल ब्लाक, लांग मारते § १६३।

२. दि फोनटिक वीकनेस अच् टरमिनेशनल एलमेंट इन इंडो आर्यन रा०  
ए० जनल (१६२७ पृ० २२७—३६।)

३. क्रिटिकलू रिन्व्यू अच् मि० जूल ब्लाक ला लांग मारते, रा० ए०  
ज० १६२१ पृ० २६।

४. डा० तगारे, हि० प्र० ३ अ० § ८१

५. चटर्जी, बबुआ मिश्र, वर्णरत्नाकर अंग्रेजी भूमिका § ३७।



मन्ती रज्जह नीति (२।३३) मेरहु जेट्ट जरिट्ट अछ (२।४२)  
 लोअह सम्मदे (२।१७२) राअह नन्दन (२।१२२)  
 विश्वकर्माहुँ मेले वढ प्रयास (चतुर्थी) (२।१२८)

इस वर्ग की विभक्तियों से सम्प्रदान और अपादान की विभक्तियाँ कीर्तिलता में नहीं के बराबर मिलती हैं। यह आश्चर्य की वस्तु है कि जो विभक्ति समूह अपभ्रंश काल में सर्वप्रधान माना जाता था इसकी विभक्तियाँ कीर्तिलता में बहुत कम मिलती हैं ह या हँ : षष्ठी में तथा हुँ (सम्प्रदान) में मिलती है अन्यथा परसर्ग का ही प्रयोग हुआ है। तुरुकाणो लक्षण (२।१५७) में संस्कृत-षष्ठी 'आणाम्' का प्रभाव स्पष्ट मालूम होता है।

§३३—षष्ठी की कीर्तिलता में एक विभक्ति 'क' मानी जाती है। इसे कुछ लोग विभक्ति मानने के पक्ष में हैं। इसका आधार यह मानते हैं कि यह विभक्ति संज्ञा के साथ एक भूटके से उच्चारित हो जाती है। पर जब हम इसकी व्युत्पत्ति आदि पर विचार करते हैं तो इसे परसर्ग मानना ही अधिक उचित जान पड़ता है। कीर्तिलता के उदाहरण :

१. न दीनाक दया न सकता क डर (४।१६) न आपक गरहान पुण्य क काज (४।१८) शत्रु क शंका न मित्र क लाज (४।१६) भाग क गुंडा (२।१७४) राजपथ क सन्निधान (२।१२६) ब्राह्मण क यज्ञोपवीत (२।१०६)

§३४ यह विभक्ति मैथिली में पाई जाती है। भोजपुरी में भी इसका प्रयोग होता है। इसकी व्युत्पत्ति काफी सन्देहास्पद है। अब तक के नाना मत-मतान्तर का सारी नीचे दिया जाता है।

१ संस्कृत के क प्रत्यय : मद्रवृज्यो : कन पाणिनी ४।२।१३ से ही इसकी उत्पत्ति हो सकती है। मद्रक-मद्र देश का।

२. कुछ लोग इसकी उत्पत्ति संस्कृत कृत से भी मानते हैं हार्नली ने इसका विकास इस प्रकार माना है :

सं० कृतः > प्रा० करितो > करिओ > केरको > अपभ्रंश केरओ केरो > हिन्दी केर > का।<sup>१</sup>

और इसी से क भी संभव है। वीम्स भी 'का' की उत्पत्ति कृत (संस्कृत) से ही मानते हैं।

३. पिशेल तथा अन्य विद्वानों की धारणा है कि इसकी उत्पत्ति संस्कृत कार्य से सम्भव है।

४ चटर्जी इसका सम्बन्ध प्राकृत 'क्क' से करते हैं। अपने तर्क के पक्ष में वे कहते हैं कि संस्कृत कृन्ः के प्राकृत रूप कक्क का आधुनिक काल तक आते आते 'क' बना रहना सम्भव नहीं है।<sup>१</sup>

इस प्रकार हमने देखा कि क के विषय में विभिन्न विद्वानों की विभिन्न रायें हैं।

इन सब रूपों, कृत, कार्य, या प्राकृत कक्क को देखते हुए, जिससे क की व्युत्पत्ति मानी गई है, इसे परसर्ग कहना ही अधिक ठीक है।

§ ३५—हमारे सामने तीसरा वर्ग आता है कर्ता कर्म और सम्बोधन का। कर्ता कर्म में ए और ओ विभक्तियाँ मिलती हैं।

**कर्ता** हुकारे होहि (४।१६५) पवत्तओ बडल ४।२५  
राओ विअक्खण (३।६०) सवे किड्डु किनइते पावथि (२।११४)  
राओ पुत्ते मंडिआ २।२२८ •

**कर्म** : दासओ छपाइअ । कर्म के बहुवचन में हिं विभक्ति प्रायः मिलती है।

सन्नुहि भित्त कए (२/२७) फग्माणहिं बाँचिअइ (४/१५५)  
असवारहिं मारिअ (४/१३०)

कर्ताकारक की ए ओ ए विभक्ति विद्यापति की पदावली और वर्ण रत्नाकर में भी मिलती है। पदावली में कामे ससार सिरजल, काम्य सवे शरीर, आदि तथा वर्णरत्नाकर में ब्रह्माजे, चिन्ताए आदि रूप मिलते हैं। ओ विभक्ति प्राकृत के प्रभाव के कारण कीर्तिलता की गाथाओं (१।३२) में भी दिखाई पड़ती है।

‘ए’ विभक्ति को डा० तगारे ने पूर्वी अपभ्रंश की विशेषता मानी है। दोहा कोश में सुन्नए, परिपुण्णए, साहाबे, परमत्थए आदि रूप मिलते हैं। तगारे का कहना है कि यह रूप स्वार्थे क प्रत्यय से बना है। जैसे मकरन्दए (कएइया) <मकरन्दक, होमे<होमक, अ-न्यासे<अभ्यासक आदि रूप बनते हैं उसकी उत्पत्ति अक>अय>अए इस रूप में हुई है।<sup>२</sup> शुक्ल जो ने जायसी की

१ चटर्जी, वैलें. पृ० ५०३।

२. डा० तगारे, हि० ग्रे० अप० पृ० १८

रचनाओं से इस प्रकार के कई प्रयोग छूटते हैं ]

क. सुए तहँ दिन दस कल काटी

ख. राजे खीन्ह ऊबि के सांसा

ग. राजे कहा सत्य कहु सूआ

बंगला मगही और भोजपुरी में भी यह प्रयोग मिलता है। मागधी में प्रथमा के रूप एकारान्त होते थे।

‘ओ’ प्राकृत प्रभाव है। हिं विभक्ति कर्म में आती है। यह संस्कृत की नपुंसक लिंग के शब्दों की द्वितीया के ‘नि’ से सम्व है। नि, इ या हिं के रूप में दिखाई पड़ती है। कीर्तिलता में सम्बोधन में प्रायः निर्विभक्तिक प्रयोग मिलते हैं। कुछ स्थान पर हु विभक्ति मिलती है।

अरे अरे लोगहु, वृथा विस्तृत स्वामि शोकहु, कुटिल राज नीति चतुरहु  
परिनिष्ठित अपभ्रश की ‘हो’ विभक्ति का ह्रस्वीकरण के कारण ‘हु’  
रूप हो गया है।

§ ३६ विभक्ति के रूप में चन्द्र विन्दु का प्रयोग :

विभक्ति के रूप में चन्द्र विन्दु का प्रयोग कीर्तिलता की अपनी विशेषता है। यह प्रयोग प्रायः एक से अधिक कारकों के लिये सामान्य रूप से हुआ है। नीचे इसके उदाहरण दिए जा रहे हैं।

अधिकरण : सब दिसेँ पसरु पसार (२।११५)

मथो चढ़ावए गाइक बुहुआ (२।२०३)

गौ वम्भन धेँ दोस न मानहि (४।८२)

सत्तु घरँ उपजु उर (३।७६)

कर्म : तुम्हे खगो रिउँ दखिय (३।३०)

न पाउँ उमग नहिँ दिजिय (१।५३)

चन्द्रविन्दु के रूप में कारक विभक्ति का प्रयोग केवल कीर्तिलता में ही नहीं विद्यापति की पदावली, वर्णरत्नाकर में भी पाया जाता है।

विद्यापति की पदावली के उदाहरण दिए जाते हैं।<sup>२</sup>

उदअं कुसुद जनि होए (कर्ता)

सखि बुझावए धरिए हाथ (कर्म)

१. शुक्ल रामचन्द्र, जायसी ग्रंथावली भूमिका पृ० २५३. ५४

२. शिवनन्दन ठाकुर द्वारा विद्यापति की भाषा पृ० ६ पर उद्धृत

ते विहँ कह मोर सम अरवधान (करण)  
 कमल मरु मकरुदा (आपादान)  
 अथिरँ मानस लाव अधिकरण)  
 वर्णरत्नाकर मे भी चन्द्रविन्दु विभक्तियो के रूप में व्यवहृत हुआ है।  
 सेवो बइसलि छवि पृ०८ (अधिकरण)  
 बाँच प्रभात ज्ञान कराओल

चर्यागीतो मे भी कुछ लोग चन्द्रविन्दु के रूप में विभक्ति का प्रयोग मानते हैं,<sup>१</sup> परन्तु मुझे कोई ऐसा प्रयोग नहीं मिला। चर्यागीत के प्रयोग का शिवनन्दन ठाकुर ने निम्न उदाहरण दिया है।

विसअ विशुद्धिमइ बुडिमअ आनन्दे ( चर्या ३० )

विसअ का 'विषमाणा विशुद्धा' अर्थ टीकाकार ने किया है। इसके आधार पर चन्द्रविन्दु की कल्पना तो ठीक नहीं है क्योंकि निर्विभक्तिक प्रयोग अरवहट्ट में विरल नहीं है। चर्या में विसअ पर चन्द्र विन्दु नहीं है।

शिवनन्दन ठाकुर ने इसकी व्युत्पत्ति एं से की है और कहा है एं ही शायद लोप होकर चन्द्रविन्दु के रूप मे अरवशिष्ट रह गया।<sup>२</sup>

विद्यापति की पदावली के उदाहरण सभी कारकों में हैं; किन्तु उनमें अधिकरण और कर्म को छोड़कर बाकी बहुत विश्वसनीय नहीं लगते। बिना चन्द्रविन्दु के भी तृतीया लगता है।

इन प्रयोगो को देखने से मालूम होता है कि ये केवल दो कारकों में ही आए हैं। अधिकरण और कर्म मे। कर्म मे कम और अधिकरण में अपेक्षाकृति अधिक इसे या तो अनुनासिक मान लेना चाहिए या अधिकरण या कर्म के 'अम्र' का विकसित रूप। आज भी भोजपुरिया में बोलते हैं :

बलियाँ गइले, गाँव गइले

यह ग्रामम् और बलियाम् का ही विकसित रूप जान पड़ता है।

§३७ विभक्ति लोप : अरवहट्ट भाषा की विशेषता वाले अध्याय में दिखाया गया है कि लुप्तविभक्तिक प्रयोगों का बाहुल्य मिलता है। हेमचन्द्र ने अपने व्याकरण में कुछ कारकों में ही विभक्ति लोप बताया है, पर अरवहट्ट मे प्रायः सभी ]

कारक मे विभक्ति लोप के उदाहरण मिलते हैं । कीर्तिलता के उदाहरण नीचे दिए जाते हैं :

कर्ता	काई तसु किच्चि वल्लि पसरेइ (१११) दुञ्जन बोलइ मंद (११२) सकल पृथ्वी चक्र करे ओ वस्तु विकाएँ आएँ दाज
कर्म	पहिलि नेवाला खाय जव (२१५२) महुअर बुज्झइ कुसुम रस (१११७) धनि छड्डिअ नव यौव्वना (२१५७)
करण	भुवन जगाइ तुम्ह परताप (३१२६) मकरन्द पाण विसुद्ध महुअर सद मानस मोहिआ (२१५२)
सम्प्रदान	ताकुल केरा वड्डिपन कहवा कवन उपाय (११५४) दिग्धि जय छूट (४१२०)
सम्बन्ध	सुरराय नयर नायर रमनि (२१६) हरिशङ्कर तनु एक्कु रहु (४१२६)
अधिकरण	भोगीसतनय सुपसिद्ध जग (११६६) वप्प वैर निज चित्त धरिअ (२१२५)
सम्बोधन	मानिन जीवन मान सजो (११२४) कहानी पिय कहहु (२१३)

इस प्रकार हम देखते हैं कि कीर्तिलता में प्रायः सभी कारको मे निर्विभक्तिक प्रयोग मिलते हैं ।

### परसर्ग

§ ३८—संहिति प्रधान होने के कारण संस्कृत भाषा में परसर्गों का अभाव है । संस्कृत में कुछ शब्द अवश्य मिलते हैं जिनका परसर्गवत् प्रयोग होता था । समीपे, पार्श्वे, अन्तिके, उपरि आदि बहुत से शब्द मिलेंगे । कालान्तर में भाषा में परिवर्तन होने से, विभक्तियों के घिस जाने, अथवा त्प्रतिभक्तिक प्रयोगों के बढ़ने या एक ही विभक्ति के कई कारको में होने वाले प्रयोगों से उत्पन्न भ्रम के निवारण के लिए परसर्गों का प्रयोग होने लगा । पहले इन शब्दों का अपना अर्थ होता था बाद में ये द्योतक शब्द मात्र रह गए । परसर्गों का प्रयोग अपभ्रंश काल में दिखाई पड़ता है । अपभ्रंश काल के परसर्ग बहुत कुछ द्योतक शब्द ही हैं इनकी व्युत्पत्ति करते समय हम इनके मूल शब्दों पर पहुँचते हैं पर इस विकास-क्रम को समझने के लिए बीच के स्तरों का कोई आधार नहीं मिलता ।

उदाहरणार्थ कदम् से 'को' तक पहुँचने में कब क्या परिवर्तन हुए इसका आधार भाषा में प्राप्त नहीं है। कीर्तिलता में अपभ्रंश के परसर्ग मिलते अवश्य हैं किन्तु उनके अतिरिक्त बहुत से नए शब्द परसर्ग के रूप में दिखाई पड़ते हैं। अपभ्रंश की चतुर्थी के प्रसिद्ध परसर्ग 'केहि' और 'रेसि' अब कीर्तिलता में नहीं मिलते। पुराने परसर्गों का भी बढ़ा विकास हो गया है।

§ ३६—करण कारक के परसर्ग : कीर्तिलता में करण कारक का मुख्य परसर्ग सजो है। यह सजो अपभ्रंश सउं का ही रूपान्तर है। इसके अलावा दो तरह के और परसर्गों का प्रयोग मिलता है। सथ्य, सथहि आदि साथ सूचक और सन, सम, समान, पमान आदि समता सूचक।

१. सथ्ये सत्थहि यह 'सथ्य' शब्द के अधिकरण के रूप हैं। कीर्तिलता में इनका प्रयोग निम्न प्रकार हुआ है।

१. सथहि साथहि जाइआ (२।३३)

२. मत्त मतगंज पाळु होथ फरिआइत्त सथ्ये (४-६८)

२. सम, सन, समान, पमान यह समता सूचक परसर्ग हैं। संस्कृत में यह 'सामेण समम्' आदि रूपों में आता है। इस आधार पर इसे तृतीया का परसर्ग माना जाता है। कीर्तिलता में इसके उदाहरण इस प्रकार मिलते हैं।

उज्जम्मिअ उप्पन्नमत्ति कामेसर सन राय (१।१५)

जो आनिअ आन कपूर सम (२।१८५)

थल कमलपत्त पमान नेत्तहिं (२।८७)

सन का प्रत्यय बाद में समता सूचक न रह कर साथ सूचक हो गया।

एहि सन हठि करिहौ पहिचानी (तुलसी)

बादहिं शुद्ध द्विजन्ह सन हम तुमसों कळु घाटि (तुलसी)

३. संस्कृत के प्रभाव के कारण कीर्तिलता में समतासूचक संस्कृत शब्दों को परसर्गवत् व्यवहृत किया गया है। प्रायः सकास प्रभृति आदि।

ससुद्ध पैण प्राय यश उंद्धरि दिगन्त विथ्येरेओ (१।८८)

वित्थरिअ कित्ति महि मंडलहिं कित्ति कुसुम संकास जस (१।६१)

मंडली प्रभृति नाना गति करन्ते (४।५०)

४. सजो—यह करण कारक और अपादान दोनों में समान रूप से व्यवहृत होता है। नीचे करण कारक के उदाहरण दिये जाते हैं।

अस्सवार असिधार तुरअ राउत सजो दुइइ (४।१८४)

मानिनि जीवन मान सजो वीर पुरुष अवतार (१।२४)

सजो भी समझ का ही विकसित रूप है। सजो का ही रूप अपभ्रंश में सउ, ढोला में सिउ, वर्णरत्नाकर में सजो और स के रूप में दिखाई पड़ता है।

§४० सम्प्रदान के परसर्ग—हेमचन्द्र के बताए हुए चतुर्थी के परसर्ग रेसि और केहि कीर्तिलता में नहीं पाए जाते। कीर्तिलता में इस कारण में तीन नए परसर्गों का विकास हुआ है। लागि, काज और कारण।

१. लागि : लागि का प्रयोग कीर्तिलता में हुआ है। नीचे इसका उदाहरण दिया जाता है।

तबे मन कर तेसरा लागि ( २।१४० )

लागि या लगि की व्युत्पत्ति संस्कृत लग्ने से मानी जाती है। स लग्ने ७ प्रा० लग्ने ७ और बाद से लागि ७ लागि यह इसके विकास का क्रम मान्य होता है। अर्वाची और ब्रज आदि में भी यह लागि या लाग प्रयुक्त होता है।

केहि लागि रानि रिसानि ( तुलसी )

विद्यापति की पदावली में भी यह प्रयोग विरल नहीं है।

दरसन लागि पूज्य नित काम

तोहरा प्रेम लागि धनि खिन भेल ।

२ काज : यह परसर्ग कार्य से बना है।

सरवत्स उपेखिय अम्ह काज ( ४।१३४ )

सामि काज संगरे (४।३४ )

३. कारण का भी सम्प्रदान में प्रयोग होता है।

एह भरिअ वीर जुअक देखह कारण (४।१६०)

षुन्दकार कारण रण जुअकयो (४।७५)

कारण परसर्ग वर्णरत्नाकर में भी प्रयुक्त हुआ है।

साजन कारण रजाएल भउ ( ४७ ख, वर्णरत्नाकर )

§ ४१ अपादान के परसर्ग—अपादान के परसर्ग-रूप में कीर्तिलता

में सजो और 'हुँते' दोनों का प्रयोग हुआ है।

१. सजो की व्युत्पत्ति पहले ही बतायी जा चुकी है।

अपभ्रंश काल में भी सउं करण और अपादान दोनों के लिए प्रयुक्त होता था।

सजो के अपादान प्रयोग कीर्तिलता में मिलते हैं।

१. विन्ध्यसजो (४।२४) २. दीठि सजो पीठि दए (४।२४६)

२. हुँते या हुँति : इसका प्रयोग कीर्तिलता में केवल दो बार हुआ है।

(१) दुरुहुँते आआ बड बड राआ (२।२१८)

## (२) यात्राहुतह परस्त्री का बलया भांग (२११०३)

हुते या हुतः अपभ्रंश 'हुन्तउ' का ही विकसित रूप है। हेमचन्द्र के उदाहरणों से स्पष्ट रूप से मालूम होता है कि होन्तउ पञ्चमी परसर्ग है। तहाँ होन्तउ आग दो ( हेम ८।४।३५५ ) का अर्थ वहाँ से होता हुआ आया ही किया जायेगा 'होन्तउ' वस्तुतः भूत कृदन्त का रूप है। यद्यपि इसका प्रयोग परसर्गवत् होता है।

३—हिसि हिसि दाम से (४।३७) खोद खुन्दि तास से (४।३८) में 'से' परसर्ग दिखाई पड़ता है जो अपादान और करण दोनो का परसर्ग कहा जा सकता है।

§४२ सम्बन्धकारक के परसर्ग—कीर्तिलता में सबसे अधिक प्रयोग सम्बन्धकारक के परसर्गों का हुआ है और वे भी विविध रूपों में। नीचे उदाहरण दिए जाते हैं।

१. साहि करो मनोरथ पूरेओ ( १।८० )
२. उत्तम कां पारक ( २।१३ )
३. दान खग को मम्म न जानइ ( २।३८ )
४. लोअन केरा चलहा ( २।७८ )
५. मछुहटा करेओ सुख रव कथा कहन्ते ( २।१०३ )
६. पयोधर के भरे ( २।१४७ )
७. कखोलिनी करो वीचिचिवर्त ( २।१४४ )

सम्बन्ध के इन सभी परसर्गों क, करो, को, का, केरा, करेओ, के, का, आदि की व्युत्पत्ति पहले ही 'क' परसर्ग के प्रसंग में ही दे चुके हैं। इन सभी की उत्पत्ति कार्य > प्रा० कज् > केरा करेउ रूपों में मानी जाती है। अन्य प्रकार के मत भी पहले ही दिए जा चुके हैं। इन परसर्गों में पूर्ववर्ती संज्ञा शब्द, जिसके साथ ये लगते हैं, वचन लिंग का विधान उसी शब्द के अनुसार होता है। सम्पर्क सानुनासिकता के कारक का कौ हो जाता है [देखिए टिप्पणी १३]

§४३ अधिकरण के परसर्ग—कीर्तिलता में सप्तमी में खास कर दो परसर्गों का बहुत प्रयोग हुआ है, माभ और उप्परि का। भीतर का भी प्रयोग हुआ है।

१. मांभ : युवराजन्दि मांभ पवित्र ( १।७० )

मांभ संगाम भेह हो (४।१८२)

मांभ की उत्पत्ति मध्ये से हुई है। अपभ्रंश में मांभ का रूप मज्भ होता है।



अवधी ब्रज के मंह माफ़, मभारी, तथा खडी बोली का 'मे' सब रूप इसी से विकसित होकर बने है।

२. उप्परि : १. राअ सबे नअर ऊप्परि ( २।१२३ )

२. भ्रु बहु उप्पर जा ( २।१३० )

३. महिमंडल उप्परि ( २।२३२ )

४. तसु उप्परि करतार ( २।२३७ )

३. मुहु भीतर जबहीं' (२/१८२) में भीतर का भी उदाहरण मिलता है।  
रासो के पुरातन प्रबन्ध संग्रह वाले छप्पयो में एक में भितरि का प्रयोग मिलता है।  
भितरि सडिहडिउ पु० प्र० ( ८७/२७५ )

### १४४ सर्वनाम

सर्वनामों के मानी में कीर्तिलता पर्याप्त धनी है। भाषाविज्ञान की दृष्टि से सर्वनामों का विशेष महत्त्व है क्योंकि ध्वनि सम्बन्धी विकीर्णता के साथ शीघ्र रूप परिवर्तन भी इनमें दिखाई पड़ता है। नीचे कीर्तिलता के सर्वनामों का विवेचन प्रस्तुत किया जाता है।

### पुरुष वाचक सर्वनाम

#### उत्तम पुरुष

एक वचन

बहुवचन

कर्ता हजो (४।४) हौ (१।३६)

×

कर्म ×

करण ×

सम्प्रदान ×

अपादान ×

सम्बन्ध—मोर (२।३२) मो (३।६८) मुझु (३।१३०)

अम्ह

मोरहु (२।४२) मम (२।४८) मझु (३।१५)

(३।१३५)

अधिकरण—महु (४।२२३) मोजे (१।३)

उत्तम पुरुष के रूप केवल दो कारकों में ही प्राप्त होते हैं। इनमें हजो या हौ अहकर्म से विकसित हुआ है।

मझु, मुझु मझु आदि रूपों का विकास इस प्रकार हुआ है

स० मह्यम् > प्रा० > मह्यं > मझु > मुझु।

मोर, मोरहु आदि रूप निःसन्देह बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये रूप वस्तुतः

विशेषण के समान प्रयुक्त होते हैं। अतः इनके साथ आने वाली संज्ञा के लिए वचन के अनुसार इनमें भी परिवर्तन होता है।

प्रा० मह केरो > म्हारो > मारो > मेरा आदि रूपों से इनका विकास सम्भव है।<sup>१</sup> मो का सम्बन्ध वीम्स मम से बतलाते हैं। प्राकृत मह ही अपभ्रंश का महु है।<sup>२</sup> बहुवचन रूप अम्ह <अप० अम्हे <पा० अम्हे स० अस्मे से विकसित हुआ है।

### §४५- मध्यम पुरुष

ए० व०	बहु० वच०
कर्ता—तोजे (४।२५०) तुम्हे, (३।६०) तोहे (३।६१) ...	
कर्म—तुम्हे (३।३०) तोहि (४।२५१) तोके (३।२५) ...	
करण ×	...
सम्प्र० तुज्भ (४।२४६)	...
अपा० ×	...
सम्बन्ध—तुम्हे, (३।३१) तुम्ह (३।२६) तुज्भ (३।२२) ...	
अधि० ×	...

तोजे < प्रा० तुम < स० त्वम्। तोहि > प्रा० तो < तव। मोहि मोरा को तरह इसमें 'हि' या रा लग कर तोहि तोरा बनता है। तुज्भ की उत्पत्ति प्राकृत पट्टी के तुह के रूपान्तर तुज्भ से मानी जा सकती है। तुम्ह स्पष्टतया सं तुस्मे\* > प्रा० तुम्हे > अप तुम्ह से विकसित हुआ है। तोके में कर्म का परसर्ग 'के' है और तो संस्कृत तव का रूपान्तर है।

### § ४६ प्रथम पुरुष

ए० व०	बहु० व०
कर्ता-सो, (१।१६) तौन ३।२३	ते (४।११८) तन्हि, तान्हि (१।७०)
कर्म-ताहि (२।६५), तं (२।५)	
करण-तेन (२।२)	तेन्हे (३।१५४)
सम्प्र० ×	
अपा० ×	×
अधि० ×	

१. डा० धीरेन्द्र वर्मा हि० भा० इति०

२. वीम्स० क० गै० भाग २, ६३

सम्बन्ध तिसु (३।१४४) तेन्हि (३।४५)  
तसु (२।१२५) तामु (१।६२)  
ता (१।५४)

ये सभी रूप संस्कृत 'तद्' के विभिन्न रूपों से विकसित हुये हैं। सः का ही रूप सो है। तन्हि तान्हि तेन्हे आदि रूपों में 'न्हि' विभक्ति लगी है जो कीर्तिलता में बहुवचन सूचक है [देखिए § २६] इन रूपों के साथ परसर्ग का प्रयोग करते हैं। ये रूप सीधे किसी कारक में नहीं आते। ते (कर्ता बहु) की उत्पत्ति संस्कृत तेभिः ७ प्रा० तेहि ७ अप० ते के रूप में हुई है। कर्म ताहि के साथ कर्म की दो विभक्तियाँ लगी हैं। इसकी उत्पत्ति स० ताधिञ् ७ ताहि ७ ताइ ७ ताइ के साथ 'हि' विभक्ति के संयोग से हुई है। तेन संस्कृत तेण है।

§ ४७—निश्चयवाचक सर्वनाम—ये सर्वनाम निर्दिष्ट वस्तु के स्थान भेद से दो तरह के होते हैं।

१—निकटवर्ती निश्चय २—दूरवर्ती निश्चय।

निकटवर्ती निश्चय—कीर्तिलता में इनके उदाहरण इस प्रकार हैं।

१—ईं णिच्चइ नाअर मन मोहइ (१।१२) २—एहि दिन उद्धर के (२।७६)

३—एही कार्य छल (२।२४१) ४—एहु पातिसाह (२।२३७)

ईं स्त्रीलिंग इयम् का विकसित रूपान्तर मालूम होता है। डा० चटर्जी का कहना है कि संस्कृत में इस प्रकार के दो सर्वनाम पाये जाते हैं। पहला एत् जिसका पुल्लिङ्ग रूप एषः स्त्रीलिंग एषा और नपुंसक लिंग का रूप एतद् होता है। दूसरा इदम् जिसका पुल्लिङ्ग में अयम् स्त्रीलिंग इयम् और नपुंसक में इदम् ये तीन रूप होते हैं।<sup>१</sup> हेमचन्द्र ने एहो और एहु का प्रयोग किया है उनके मत से एतद् का एहो पुल्लिङ्ग का, और एहु नपुंसक लिंग के रूप हैं।<sup>२</sup> इस प्रकार हम ईं को इयम् का (स्त्री) और एहु को एतद् (नपु) का विकसित रूप मान सकते हैं।

२—दूरवर्ती निश्चय—

ओ परमेश्वर हर सिर सोहइ (१।११) ओहु रात्रो विअरखण (३।६०)  
ओ और ओहु ये दोनों रूपों की वास्तविक व्युत्पत्ति पर मतभेद है। संस्कृत में ओ का प्रयोग अव्यय रूप में हुआ है। कीर्तिलता में भी ओ (२।७१) अव्यय रूप में

१ चटर्जी व० लै० §२६६

२. हेमचन्द्र ८।४।३६८

प्रयुक्त हुआ है। हेमचन्द्र ने ओइ और ओ का प्रयोग किया है (दा४।३६४) और (दा४।४०१) हेमचन्द्र ने इसे अदस का रूप माना है। असौ 7 अहौ 7 ओह > ओउ चटर्जी इसे सर्वनाम स्वीकार करते हैं। डा० पी० यल० वैद्य ने ओ सूचनायाम् के सकेत से इसे अव्यय ही पाना है।<sup>१</sup> ओकरा (२।१३०) में ओ के साथ करा परसर्ग का भी प्रयोग हुआ है।

§ ४८ सम्बन्ध वाचक सर्वनाम—

ए० व०		व० व०
कर्ता—जजोन(२।७६) जे (१।४३)		×
जो (१।१६)		
कर्म—	×	
करण—	जेन (१।३६) जेन्ने (१।६४)	
	जेइ (१।५४)	×
सम्प्रदान०	×	
अपा०	×	
अधिक०	×	×
सम्बन्ध—जस (१।३४) जसु (२।२१३)		जन्हि के (२।१२८)
जासु (१।२६) जेहे (२।६३)—		

ये यद् के ही भिन्न रूप हैं। यः का रूप जो है। कः पुनः > कवण > कजोन के टंग पर यः पुनः > यवण > जजोन। जिसका अर्थ जौन है पूर्वी बोलियों में यह अब भी 'जवन' कहा जाता है। बाबूराम सक्सेना जजोन को जेमुन से व्युत्पन्न मानते हैं। (कीर्तिलता पृ० ४१ न० स०) जेण का ही रूप जेन और जेन्ने हैं। जेन्ने में एन विभक्ति दो बार लगी हुई है। यस्य के रूप जसु जासु आदि हैं। जे मागधी प्रभावित हैं।

§ ४९ प्रश्न वाचक सर्वनाम—

ए० व०		वहु० वच०
कर्ता	कमन (४।२४३) कवणे (२।२२७) कि (२।२)	×
	कजोण (३।१६) को (१।१४६) की (१।२३)	×
करण	केण (४।६७) केन (४।१४३)	×
हेमचन्द्र	किम् से काइ और कवण की उत्पत्ति मानते हैं। (२।४।३६७)	

ऐसा विश्वास किया जाता है कि लौकिक संस्कृत में एक ही प्रश्न वाचक किम् वैदिक संस्कृत में दो रूप रखता था कत् और किम् । कच्चित् में यही कत् है जिसका रूप तद् के समान चलता था । परवर्ती आर्यभाषाओं में क और किम् दोनों के विकास है कदर्थ वाचक का पुरुष कत् + पुरुष है और किनर किंस्ववा या किपुरुष में किम् दिखाई पड़ता है । हार्नली कवन की उत्पत्ति अपभ्रंश केवडु से मानते हैं । किन्तु केवडु संस्कृत कति से माना जाता है । चटर्जी इसे कि + पुनः से उत्पन्न मानते हैं ।

§ ५० अनिश्चय वाचक : कीर्तिलता में अनिश्चयवाचक सर्वनाम के कोए, कोइ, काहु, केहु और कछु का प्रयोग हुआ है ।

१. मित्त करिअ सब कोए (११७)
२. कोइ नहिं होइ विचारक (२१२)
३. काहु सम्बल देल थोल (३१६६)
४. काहु काहु अइसनो संक (२१३०)
५. आन किछु काहु न भावइ (२१८७)

अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोऽपि के विकसित रूप हैं । संस्कृत कोऽपि प्रा० कोवि अपभ्रंश में कोवि के रूप में दिखाई पड़ता है । यही कोउ कोइ, कोए, के रूप में बदल गया है । पुरानी हिंदी में कोउ रूप भी मिलता है जो कोऽपि से ही बना है । उसी प्रकार सोऽपि से सोऊ तथा योऽपि से जोऊ बने हैं । आन का मूल रूप अन्य है ।

किछु शब्द किंच हु के योग से बना है । हार्नली उसकी उत्पत्ति प्राकृत के सम्भावित रूप कच्छु से मानते हैं ।

§ ५१ निजवाचक सर्वनाम : कीर्तिलता में निजवाचक सर्वनाम के रूप में अपने, स्वय और निज इन तीन शब्दों का प्रयोग मिलता है । अपभ्रंश की दृष्टि से ये बहुत पीछे के और बहुत आंशों में आ० भा० आ० काल के लगते हैं ।

१—अपने . २।४८) अपने (२।१२०) अपनेहु (३।३८) अप्पा (४।१८०) अप्प (२।११८)

२—निअ (२।२२६) निज (२।२२६) णिअ (१।४०)

३—पुर पुर मारि सबो गहओ (२।४१)

अपने < अप्प < आत्मन् संस्कृत का रूप है । इसका प्रयोग आदरार्थ सूचक रूप में भी होता है ।

सओ—संस्कृत स्वयम् का ही रूपान्तर है ।

निज—मूल रूप संस्कृत से ही आया है । इसका अपभ्रंश रूप निअ,

शिज भी होता है ।

§५२ अन्य सर्वनामो मे सब्ब प्रमुख है ।

सव्वउँ नारि विअण्खनी सव्वउँ सुस्थित लोक (२।१५२)

सव्वउँ केरा रिजु नयन (२।११९)

यह सव्व या सब प्रायः बहुवचन की सूचना के लिए आता है । इसका एक रूप, 'सवे' भी है । सवे किछु किनइते पावधि । यह कर्ता के मागधी एकारान्त का प्रभाव है ।

२. आण, अओका ये दो शब्द भी कीर्तिलता मे आये हैं ।

१. आण करइते आण भउ (३।४६)

२. आण कहु काहु न भावइ (२।१८७)

३. अओका एकक धम्मे अओका उपहास (२।१६३)

संस्कृत अन्य > पाली अन्न > आण के रूप से दिखाई पड़ता है । अओक शब्द विद्यापति की पदावली में भी आया है ।

कटिक गौश्व पावोल नितम्ब एक करवीन अओक अवलम्ब । वर्णरत्नाकर में (पृष्ठ ४५) पर इसका प्रयोग हुआ है । यह शब्द अपरक > अओक के रूप में संभव है । सगरे राह रोल पडु मे सकल का सगरे रूप मिलता है । इतर का इअरो रूप प्रथम पल्लव की गाहा मे आया है ।

§ ५३ विशेषण :

कीर्तिलता मे विशेषणो का प्रचुर प्रयोग हुआ है । इनमे से कुछ तो संज्ञा से बने विशेषण हैं कुछ क्रियाओ से । कृदन्तज विशेषणों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनमे विशेष्य की तरह ही लिंग वचन का निर्धारण होता है । कृदन्तज विशेषणों के अलावा अन्य विशेषणों में भी लिंग का निर्धारण दिखाई पड़ता है ।

१—अग्गिम (३।३६ < अग्गिम), आङ्गी दीठि (२।१७७ = वक्र दृष्टि) उत्तम (२।१३), काचले नयने (४।४६ = काचल, चमकीले); काँच (४।७६ = कच्चा) कित्तिम (२।१३१ < कृत्रिम) किरिस (३।१०८ < कृश); गरिट्ट (१।७६ < गरिष्ठ) गरुअ (३।१३ < गुरुक); गरुवि (२।१८६७ < गुरु (?)) (स्त्री); गाटिम (४।११२ < गूढ) चङ्गिम (४।२३० = सुन्दर), चरस (२।१८७ < चक्र ?); चागु (४।४५ = चंगा); चारु कला (४।२३०); छोटाहु (३।६३ < क्षुद्र) जुवल (३।३५ < युगल) जूठ (२।१८८ < उच्छिष्ट); जेठ (२।४२ < ज्येष्ठ), भूट २।१०४ < उच्छिष्ट ?) ततत (२।१७८ < तत ?) तातल (२।१७५ < तत); तीखे (४।४६ <

तीन्हा) तेतुली (२।२८) थोल (३।८७ = थोड़ा) देसिल (१।२१ < देशी) नव  
 यौवना (२।५७) निद्राण (२।२६) नीक (२।४७ < नेक) नीच (२।४७) पविस्ती  
 तिरहुत (४।३८ < पवित्री) पिच्छल (४।२१८) पेषणी (२।१३८) फुर (१।२३८  
 स्फुट) वङ्क (२।११६) बड़ (३।१०४) वड़ा (३।४२) वड्डिम ४ (१।६५) बड़ी  
 (२।१४४) वड्डेओ (२।८४) वाकुले (४।४५ < वक्र) विश्र ष्ववण (३।६० < विच-  
 क्षण) मन्द ( २।१८) रूसलिं (१।८६ = रुष्ट) सिमान ( २।२४८ = सज्ञान)

२—सर्वनामिक विशेषण—

पुरुष वाचक और निजवाचक इन दो प्रकार के सर्वनामों को छोड़कर बाकी सभी  
 प्रकार के सर्वनाम विशेषणवत् प्रयुक्त हो सकते हैं। फिर भी इस वर्ग में दो  
 मुख्य रूप से सर्वनामिक विशेषण माने जाते हैं।

क—अइस (< ऐस हेमचन्द्र ( ८।४।४०३ ) प्रकार सूचक

अइस (२।५२) अस (२।१७) ऐसो (४।१०५)

कइसे (२।१४६) जइसओ (१।३०) तइसना (३।५२)

ख—एत्तिय—एवड्डु और एत्तुल हेम० ( ८।४।४०७ ) परिमाण सूचक

एत्ता (३।१२८) एत्ते ( १।३१)

कत (३।१५०) कतन्हि (४।६०) कतहु ( २।१६४)

कत्त (३।१३८)

§५४ संख्या वाचक विशेषण—संख्या वाचक विशेषण का इतिहास  
 बड़ा ही विचित्र और मनोरंजक है। इसमें कालानुक्रम से विकसित इतिहास का  
 कोई भी पारपरिक रूप नहीं मिलता। डा० चटर्जी की राय है कि ये विशेषण  
 आर्य भाषाओं में अन्य विशेषणों के समान संस्कृत और प्राकृत से होकर आए  
 हुए नहीं मालूम होते। ऐसा लगता है कि समस्त आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं  
 के विशेषण पाली या मध्यकालीन आर्यभाषाओं के सदृश किसी सर्वप्रचलित भाषा  
 से आए हुए हैं। कुछ रूपों में प्रादेशिक प्राकृतों और अर्धश की छाप संभव  
 है। जैसे गुजराती वे 'मराठी' 'दौन', 'बंगाली' दूई।<sup>१</sup> कीर्तिलता में प्रयुक्त संख्या  
 वाचक विशेषणों का विवरण नीचे दिया जाता है।

§५५ पूर्णसंख्यावाचक—कीर्तिलता में पूर्णसंख्या वाचक विशेषणों का  
 कुछ प्रयोग हुआ है। उनके उदाहरण और विकास की सभावित अवस्थाएँ नीचे  
 दी जाती हैं।

१. चटर्जी, वै० लै० § २११

१. वेवि सहोदर (२।५०) वेवि 'दोनो' के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। संस्कृत में इसके लिए द्वो और प्राकृत में 'दो' शब्द मिलते हैं। यह शब्द उभयेपि से बना है। द्वो का 'वि' या 'वा' रूप केवल संयुक्तसंख्याओं में दिखाई पड़ता है। वाइस, वत्तिस, वासठ, वानवे में वा या व इसी के अवशिष्ट अंश मालूम होते हैं। पात्रे चलि दुअत्रो कुमर ( २।५६ ) में द्वो का 'दो' रूप भी प्राप्त है।

२. एकः एक या एक प्राकृत एक ऽ संस्कृत ऽ एक से विकसित हुआ है। कीर्तिलता में नारि के विशेषण के रूप में एक का स्त्रीलिंग 'एक्का' का दिया गया है। एक्का नारि ( ३।२७ )

३. वेद पढ़ तिन्नि ( १।४६ ) तिन्नि का विकास क्रम इस प्रकार माना जाता है।

सं० त्रीणि ७ प्रा० तिन्निण ७ अ० तिन्नि

कीर्तिलता में इसका एक रूप तीनू भी मिलता है।

तीनू उपेष्णित्र ( २।३६ ) एक स्थान पर तीनहु ( १।८५ ) भी मिलता है। वस्तुतः ये दोनो तिन्न या तीन के द्वितीया के रूप हैं जिनमें उ या हु विभक्तियों लगी है। हु अव्यय के रूप में भी माना जा सकता है 'तीनो ही' के अर्थ में।

४. चारी (३।१४२) और चारु (४।४६) ये चार के दो रूप मिलते हैं।

५. पंच (२।४) संस्कृत पंच का रूप है। उसी प्रकार सात (२।२४३) सप्त का, दसओ (१।६३) दश का और बीस (४।७८) विशति के रूपान्तर हैं।

६. अट्टाइस (२।२४४) अट्टाइस < अट्टावीस < अष्टाविशति

७. सए (२।३२) संस्कृत शत > प्राकृत सय से बना है। य का ए कीर्तिलता की एक विशेषता है।

८. सहन (३।१५०) संस्कृत के सहस्र का विकास है।

९. हजारी मअगा : (२।१५६) सहस्र और हज्र एक ही मूल एडो एरियन के विकास हैं। हज्र ही परवर्ती हजार है। सहस्र का अर्थ अनन्त है।

१०. लष्व संख (४।४३) लक्षावधि (४।६) : लष्व लक्ष का ही भ्रष्ट लेखन का परिणाम है। संस्कृत में लक्ष चलता है जो लक्षावधि में वर्तमान है। कीर्तिलता में ये पूर्ण संख्या वाचक विशेषण पाए जाते हैं।

§ ५६—अपूर्ण संख्यावाचक : अपूर्ण संख्या वाचक विशेषण कीर्तिलता में एकाध ही मिलते हैं।

३—योजन बीस दिनदे धावधि (४।७८)



यह 'अद्धे' संस्कृत अर्द्ध का रूपान्तर है ।

३—त्रितीय भागे तीन भुवन साह (२।१४७) त्रितीय<तृतीय  
§ ५७—क्रमसंख्या वाचक :

प्रथम>पदम : तम्मद्दु मासहि पदम षण्ण (२।२)

यह 'पदम' प्रथम का परिवर्तित रूप है । प्रथम पदम इस में थ का मूर्धन्यीकरण हो गया है ।

२. पहिल नेचाला खाइ ( २।१८२)

धीरेन्द्र जी ने पहिल की उत्पत्ति का क्रम इस प्रकार रखा है । पहिला <प्रा० पटिल्ल\* <पथिल्ल\* <स० प्रथइल\* ।<sup>१</sup> वीम्स ने पहिल की उत्पत्ति प्रथम वा प्रथर से माना है ।<sup>१</sup>

३. दोसरी अमरावती क अवतार भा (२।१६६)

४. तीसरा लागि तीनु उपेखिअ (२।१४०)

वीम्स इन शब्दों का सम्बन्ध स द्वि + सुतः, त्रि + सुतः, से जोड़ते हैं ।<sup>२</sup> द्वितीय तृतीय से इनकी उत्पत्ति संभव नहीं है कि क्योंकि इनके विकसित रूप दूसरा तीसरा नहीं दूजा तीजा हो सकते हैं ।

५—पचम (१।५८) <पचम से विकसित है ।

§५८ : आवृत्ति संख्यावाचक : कीर्तिलता में एक शब्द आता है 'सथि' दस सथि मानुस करो मेड (४।२३)

यह 'सथि' गुणवाचक है । संस्कृत का शक्ति शायद इसका मूल रूप हो ।

§५९ समुदाय संख्यावाचक :

कीर्तिलता में एक प्रयोग वेण्डा मिलता है । |

वे भूपाला मेइनी वेण्डा एक्का नारि (३।२७)

अर्थात् दो राजाओं की पृथ्वी और दो पुरुष की एक नारि । सोचना है कि इस वेण्डा की उत्पत्ति में समुदायक वाचक गंडा कहाँ तक सहायक है ।

गण्डजे गण्णिअ उपास (३।११४)

का अर्थ गण्डो में ( चार चार दिन ) गिन कर उपवास करने लगे ।

यहाँ 'गण्डा' शब्द भी मिलता है ।

१. हि० मा० इति० § २८०

२. वीनस क० ग्रा० भाग २ § २७।

## §६० क्रिया—

मध्यकालीन आर्यभाषा काल में संस्कृत क्रियाओं के रूप में आश्चर्यजनक परिवर्तन उपस्थित हो गए। संस्कृत के गण-विधान का पंजा ढीला पड़ गया। विकरण के आधार पर संस्कृत में गणों का निर्माण हुआ किन्तु इस काल में—अ वर्ग के अन्दर ही सभी प्रकार के धातुवर्ग समाहित हो गए। कीर्तिलता में न केवल शब्दों में ही संस्कृत के प्रभाव से तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है बल्कि क्रियाओं में भी संस्कृत की धातुओं की (अकारान्त रूप में ही) प्रचुरता दिखाई पड़ती है। कीर्तिलता एक ऐतिहासिक काव्य है इसलिए लेखक प्रायः इसकी कथा को मूलतः 'बीती हुई कथा' के रूप में ही सुनाता है इसलिए भूतकाल के प्रयोग निःसन्देह सर्वाधिक हुए हैं, किन्तु कथा क्रम में वह वर्णनों का जब सहारा लेता है ऐतिहासिक वर्तमान की क्रियाएँ भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती हैं। ये क्रियाएँ अर्थतः भूतकाल की ही सूचना देती हैं परन्तु इनका रूप वर्तमान का ही होता है।

## §६१ वर्तमान काल—

संस्कृत और मध्यकालीन आर्यभाषा की वर्तमान काल (लट् रूप) की क्रियाएँ विकसित रूप में दिखाई पड़ती हैं। इनमें जैसा कहा गया कोई गण-विधान या विशेष रूप नहीं होते, सकर्मक अकर्मक का भी कोई खास भेद नहीं किया गया है। कीर्तिलता में इनका स्वरूप इस प्रकार मिलता है :

ए० व०	बहु वचन
उत्तम—करञो, करउँ	×
मध्यम—करसि, करहि	×
अन्य—करइ, करए, कर, करथि, करै	करन्ति, हि, करहि

करञो (२१२०) कहञो (३१३८) जम्पञो (१८२) परबोधञो (१३०) आदि रूपों में—ञो तथा कहउँ (१३६) किंकरउँ (३११४) आदि में—उ का प्रयोग हुआ है। चटर्जी के अनुसार करउँ प्राचीन करोमि रूप पर आधारित है। करोमि के अन्य इ के हास के कारण यह रूप करोमि > करोवि > करउँ > करञो आदि रूपान्तर को प्राप्त हुआ है। प्राचीन कुर्मः > करामह > म० का० करोमो > करउँ के रूप में भी यह विकास संभव है। [ उक्ति व्यक्ति § ७१ ]

भग्गमि (४१२५०) जासि (४१२४५) जीवसि (२१२४८) आदि रूपों में

सि विभक्ति को प्राचीन लट् के मध्यम पुरुष की 'षि' विभक्ति का विकास समझना चाहिए ।

वर्तमान काल में सबसे महत्वपूर्ण रूप अन्य पुरुष के दिखाई पड़ते हैं ।  
 §६२ करइ कर और करए—इस तरह के रूपों के कुछ उदाहरण दिए जाते हैं

अइ—अंगवइ (२।२२) उपेखइ (३।१३४) उफ्फलइ (४।१८३)  
 कम्पइ (२।२२६) गणइ (३।७५) चित्तइ (३।११५) जुज्भइ (१।४८) धँसमसइ  
 (४।५६) धुन्नइ (२।१८) नवइ (२।२३४) पज्जटइ (२।६३) पड़इ (३।६६)  
 पावइ (१।२०)

अ—कह (२।११७) चाट (२।२०४) चाह (२।१४७) निकार (२।२१०)  
 निहार (२।१७७) पछुवाव (४।५५) पाव (२।१८६) भर (३।२८) चूह (२।८०)  
 छाज (२।२४२) छाड (२।१५१)

अए—अछए (३।१३१) आनए (२।२०२) करावए (३।२८) कोहाए  
 (२।१७५) गणए (४।१०७) जाए (२।४१) विज्जए (४।२१७)

अइ प्राचीन अति का ही रूपान्तर है । करोति > करति > करइ । करए का =  
 आए इसी अइ का विकास है । ध्वनि सम्बन्धी विवेचन में इसका विस्तृत परिचय  
 दिया गया है । [ देखिए §६ ]

इसी अइ के उद्भूत स्वरो से ऐ का संयुक्त स्वर बनता है । कीर्तिलता  
 में अन्य ऐ वाले रूप भी उपलब्ध होते हैं ।

पाणै (२/१६१ = भणइ) राखै (३।१६१ = राखइ) लगावै (२।१६० =  
 लगावइ ) लाणै ( ३।१४४ = लागइ )

—अ कारान्त क्रिया रूपों के विषय में चटर्जी ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण  
 में विस्तार से विचार किया है । ( उक्ति व्यक्ति §३६ ) चटर्जी ने इसका  
 विकास अति > अइ > अए > अ के रूप में माना है । इस तरह के रूप  
 तुलसी, जायसी आदि में भी पाये जाते हैं । इनके मूल में कृदन्तज रूपों का  
 कहाँ तक योग है, यह भी विचारणीय प्रश्न है ।

सोइ प्रगटत जिमि मोल रतन ते (तुलसी)

कह रावण सुनु सुसुखि सयानी (तुलसी)

ऊपर के रूपों में प्रगटत स्पष्टतः कृदन्त रूप हैं कह को कहत से विकसित माना  
 जा सकता है । ये रूप कभी कभी भूतकाल में भी प्रयोग में आते हैं । वेद पढ़  
 तिनि ( कीर्ति० १।४६ ) = तीनों वेद पढ़ा ।

मधुर वचन सीता जब बोला ( तुलसी ) = सीता बोली

रहा न जोवन आव बुढापा ( जायसी ) = यौवन नहीं रहा, बुढापा  
आया ।

ये पद, बोल, आव आदि रूप भूलकाल के हैं । ऐसी अवस्था में इन्हे पढ़इ बोलइ, आवइ आदि से विकसित मानने में कठिनाई उपस्थित होती है ।

उक्ति व्यक्ति, प्राकृत पैलगम, चर्यागीत, कीर्तिलता जायसी और तुलसी की रचनाओं में इस प्रकार के रूपा का बाहुल्य देखकर यह अनुमान करना तो सहज है कि यह उस जमाने के प्रचलित प्रयोग है ।

१६३—कीर्तिलता में वर्तमान काल के अन्य पुरुष में 'थि' विभक्ति का प्रयोग मिलता है । यह 'थि' विभक्ति मैथिली की अपनी विशेषता मानी जाती है । 'थि' विभक्ति का प्रयोग कीर्तिलता में कुल १३ बार मिलता है । नीचे कुछ उदाहरण दिए जाते हैं ।

१. अणवरत हाथि भयमन्त जाथि ( ४११६ )
२. सबे किछु किनइते पावथि ( २१११४ )
३. धाए पइसथि परयुथे ( ४११६७ )
४. जोअन बीस दिनछे धावथि ( ४१७८ )
५. बगल क रोटी दिवस गमावथि ( ४१७६ )

थि का प्रयोग इन उदाहरणों से स्पष्ट है । केवल अन्य पुरुष के बहुवचन में पाया जाता है । थि विभक्ति की उत्पत्ति विचारणीय है । डा० चटर्जी इसकी उत्पत्ति संस्कृत के वर्तमान काल के अन्य पुरुष बहुवचन की विभक्ति 'न्ति' से मानते हैं । उनका कहना है कि 'न्ति' विभक्ति का अवशेष त् है जो 'हि' निश्चयार्थ अव्यय से संयुक्त होकर 'थि' का रूप ग्रहण करता है ।

१. बहुवचन अन्य पुरुष के लिए कीर्तिलता में संस्कृत के प्रभाव से 'न्ति' विभक्ति का भी प्रयोग हुआ है ।

१. तोलन्ति हेरा लसूला पेयाजू ( २११६२ )
२. वसाहन्ति धीसा पहज्जल्ल मोजा ( २१६१ )
३. पम्फालेन्ति पाआ ( ४११६६ )

२. अन्य पुरुष एक वचन में कही कही 'ति' भी मिलती है अथ मृ गी पुनः पृच्छति ( २११ )

३. नथि ( ३१११० ) < नास्ति का परवर्ती रूपान्तर है ।

बहुवचन में—'हिं' विभक्ति का भी अन्य पुरुष में प्रयोग होता है ।

आनहिं ( २।२० ) आवहि ( २।२१६ ) हेरहिं ( २।२२८ ) । इनमे -हि विभक्ति का सम्बन्ध प्राचीन 'अ.नेत्' से माना जाता है ।

### §६४—भूतकाल

अपभ्रंश काल तक आते आते भूतकाल के क्रिया रूपों में आश्चर्य जनक परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं । संस्कृत के लुट्, लङ्, और लिट् ये तीनों लकार पाली काल में नहीं दिखाई पड़ते । पाली में केवल लुट् का प्रयोग दिखाई पड़ता है । प्राकृतों में इस काल में लकारों का लोप हो गया और क्त प्रत्यय के कृदन्तों का प्रयोग होने लगा । क्त प्रत्ययान्त कृदन्तों का प्रयोग संस्कृत में केवल कर्म वाच्य में ही होता था यह नियम अपभ्रंश काल में बहुत ढीला पड़ गया । पूर्वी प्रदेशों में 'ल' प्रत्यय वाले रूपों का प्रचार बढ़ा ।

इन रूपों की विशेषता यह है कि ये भूतकृदन्तज विशेषणों के रूप में प्रयुक्त होते हैं और इसमें क्रिया में कर्ता के अनुसार लिंग वचन का आरोप होता है ।

१—विद्यापति की कीर्तिलता में भूतकाल के कृदन्त रूपों की अधिकता है । कृदन्त प्रायः दो रूप में दिखाई पड़ते हैं । 'इअ' और 'इज' दोनों रूपों के प्रयोग मिलते हैं । 'इज' रूप प्रायः शौरसेनी अपभ्रंश या पश्चिमी अपभ्रंश की रचनाओं में ही मिलता है । इसका प्रयोग पूर्वी अपभ्रंश या अवहट्ट में बहुत विरल मिलते हैं ।

धनि पेक्खिअ सानन्द (२।१२४) रअण्णि विरमिअ (३।४)

एम कोप्पिय, सुनिय सुरतान (३।३४) तवहु न खुक्किय (३।११८)

इस प्रकार के 'इअ' वाले रूप ही मिलते हैं । मेरे देखने में कोई इज वाला रूप नहीं आया । दो स्थल पर दिखाई भी पड़ते हैं, वे कर्मणि प्रयोग हैं ।

जेहि न पाउं उमग दिज्जिय (१।५३)

अस्थिजन विमन न किज्जिय (१।५२)

इज वाले रूपों का पश्चिमी अपभ्रंश में बहुत प्रयोग हुआ है ।

२—कीर्तिलता में भूतकाल के इन रूपों में कुछ में अनुस्वार युक्त 'उ' लगाने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है ।

पुरुष हुअउं बलिराय (१।३८) खत्तिय खय करिअउं (१।४१)

किमि उपन्नउं बैरिण (२।२) किमि उद्धरिउं तेन (२।२)

कुछ रूपों में उ तो लगता है, परन्तु वह अनुनासिक नहीं होता । ये

रूप स्वार्थक 'अ' : कः प्रत्यय के रूप हैं। हेमचन्द्र के दोहों में भी चलयिउ, क्रियउ, देखिखउ रूप मिलते हैं। जोइन्दु के जगु जाणियउ < ज्ञातः तथा स्वयंभू के 'थिरभावाउल रस पूरियउ' में पूरियउ < पूरतः तथा हरिस विसाउ पवराणउ < प्रपन्न : आदि रूपों में भी वही प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है।

कुछ रूपों में अउ के स्थान पर अओ रूप हो जाता है। करेओ (२।१०३) प्धारेओ (१।८४) सारेओ (१।८७) विथरेओ (१।८८)

३—कीर्तिलता में भूतकाल में कुछ उकारान्त रूप मिलते हैं जो 'क्त' कृदन्त के रूपों से विकसित मालूम होते हैं।

गतः ७ गतो ७ गदो ७ गओ ७ गउ कीर्तिलता से निम्न उदाहरण उपस्थित किए जाते हैं :

पाएँ चलु दुअओ कुमर	( २।५२ )
काहु सेवक लागु पैठि	( २।६६ )
क्तेहु दिनै वाट संचरु	( २।७४ )
उपजु डर	( ३।७६ )

इस तरह के कर, पर, लर, जागु, पलु, मउ, भउं आदि बहुत से रूप मिल जायेंगे। यह अवहट्ट काल की रचनाओं में प्रायः साधारण प्रवृत्ति हो गई थी।

४. भूतकाल के कृदन्त रूपों में 'इ अ' को इ आ कर देने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। यह प्रवृत्ति अपभ्रंश काल में भी मिलती है।

१. अम्बर मंडल पूरीआ	( २।११६ )
२. पअ भरे पाथरं चूरीआ	( २।११७ )
३. सेना संचरिआ	( ४।२ )
४. अप्पे क्के थप्पिआ	( ३।८२ )
५. धूल भरे कं पिआ	( ३।७० )

ऐसा भी हो सकता है कि बाद पूर्ति के लिए ही अन्तिम स्वर को दीर्घ कर दिया गया है। यो कीर्तिलता में ही नहीं, चर्यांगीतो, प्राकृत पैगलम् तथा पश्चिमी अवहट्ट की अन्य रचनाओं में भी यह प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। खड़ी बोली के आकारान्त क्रिया पदों का मूल भी इसी प्रवृत्ति में ढूँढा जा सकता है।

भल्ला हुआ जो मारिआ बहिणि म्हारो कंतु।

इस क्रिया मारिआ का नाम खड़ी बोली की क्रियाओं के विकास के सिलसिले में लिया जाता है किन्तु अवहट्ट युग में तो यह एक साधारण प्रयोग-सा हो गया था।

, कीर्तिलता में एक बिल्कुल खड़ी बोली जैसा क्रिया पद भी मिलता है।

चान्दन क मूल्य इन्धन विका

(३।११०)

वस्तुतः यह विक्रिआ का ही सरलीकृत रूप है। इसी प्रकार अवहट्ट को इन क्रियाओं में खड़ी बोलो के अन्य क्रियाओं का मूल ढूँढा जा सकता है।

१६५ ल प्रत्यय : कीर्तिलता में भूतकाल में 'ल' का प्रयोग हुआ है। गेल, भेल, कहल आदि इसके उदाहरण हैं। ये रूप थोड़ी भिन्नता से दो तरह के हैं। एक जिनकी धातुओं में परिवर्तन नहीं हुआ है उनमें सीधे 'ल' जोड़ दिया गया है। दूसरों में थोड़ा परिवर्तन के बाद 'ल' जुड़ता है। इस तरह 'कहल, मारल, चलल, मिलल पहली तरह के रूप हैं गेल, भेल, देल आदि दूसरे प्रकार के उदाहरण हैं। कीर्तिलता में ये दोनों प्रकार मिलते हैं।

१. काहु वाट कहल सोक	(२।७२)
२. गएनेसर मारल	(२।७)
३. तुरुक तोषारहिं चलल	(२।१७६)
४. भेल वड प्रयास	(२।१२८)
५. ठाकुर ठक भए गेल	(२।१०)
६. काहु देल ऋण उधार	(२।६६)

इन कृदन्तों में कर्ता के अनुसार लिंग भेद भी होता है।

ल का प्रयोग पूर्वी भाषाओं में तो होता ही है अवहट्ट की पश्चिमी रचनाओं में भी कृदन्तज विशेषण के रूप में इसका प्रयोग मिलता है। डा० तेसीतरी ने प्राचीन राजस्थानी के प्रसंग में सुनिल और 'धुनिल' में दो उदाहरण बताए। इस 'ल' या 'इ' अथवा 'अल' की व्युत्पत्ति के विषय में बहुत विवाद है। विद्वानों की राय है कि 'इत' प्राकृत में 'इड' 'इड' फिर 'इर' और 'इल' हो गया। परन्तु प्राकृत में त का ड होना असंभव है। डा० हार्नली ने इस कठिनाई को दूर करने के लिए इत से इल ही माना। उनके बीच के इड या इड रूपों को हटा दिया। पिशेल और जूल ब्लाक ने इसकी उत्पत्ति संस्कृत के ल प्रत्यय से स्वीकार किया। कैलाग और वीम्स और आगे बटे और इन लोगों ने इसका सम्बन्ध रूसी 'ल' प्रत्यय से जोड़ने की चेष्टा की। वस्तुतः इसकी उत्पत्ति इत और ल के सयोग से हुई है यह इल्ल रूप पुराना है। सर चार्ल्स लायल ने सर्व प्रथम इस ल या इल का सम्बन्ध प्राकृत 'इल्ल' से जोड़ा। स्केच आव् दि

हिन्दुस्तानी लैग्वेज नामक निबन्ध में उन्होंने इस विषय पर विचार किया। इसी व्युत्पत्ति को आज कल ठीक माना जाता है।<sup>१</sup>

§६६ भविष्यत् काल : भविष्य निश्चयार्थ :

अपभ्रंश में भविष्यत् काल के प्रायः दो प्रकार के रूप मिलते हैं। कुछ रूपों में विभक्ति के रूप में स या उसके परिवर्तित रूप मिलते हैं कुछ में ह या उसके विकृत रूप प्राप्त होते हैं।

उदाहरण के लिए कृ धातु के दो तरह के रूप बन सकते हैं। एक और जहाँ करिसुं करसेहु, करसहि करीस, करसेह और करिसई रूप मिलेंगे वहीं दूसरी ओर करीहि, करहु, करिहि, करिहिहि, करिहि आदि दूसरे प्रकार के रूप भी मिलेंगे।

कीर्तिलता में कुछ और भी अधिक परिवर्तित होकर दोनो प्रकार के रूप मिलते हैं। स विभक्ति या उसके परिवर्तित रूपों के उदाहरण नीचे हैं।

१. होणा होसइ एक्क पइ वीर पुरिष उच्छाह (२।५९)

२. तुम्हें न होसउं असहना (३।३२)

३. जइ सुरसा होसइ मसु भासा (१।१५)

इस स विभक्ति वाले रूपों की संख्या बहुत थोड़ी है। किन्तु ह विभक्ति के रूप बहुलता से पाए जाते हैं। वस्तुतः स वाले रूप पश्चिमी अपभ्रंश में ही अधिक पाए जाते हैं। नीचे ह विभक्ति वाले रूपों के उदाहरण दिए जाते हैं।

१. जो बुजिह (१।१६)

२. सो करिह (१।१६)

३. ध्रुव न धरिजिह सोग (३।१४७)

४. कालहि चुकिह कज (३।५१)

५. पुनुवि परिश्रम सीकिहइ (३।५१)

६. किमि जिविहि मसु माजे (३।२७)

इन 'इह' और 'इस' दोनों प्रकार के रूपों की व्युत्पत्ति संस्कृत के इष्य रूप से ही हुई है।

इह और इस < प्राकृत इस्स < संस्कृत इष्य

चर्यागीत, दोहाकोप और अन्य रचनाओं में इस प्रवृत्ति के आभास होते हैं। भोजपुरिया, मैथिली, और बंगला आदि में आज भी ह या उसके विकृत रूपों का प्रयोग होता है। व विभक्ति जो पदावली तथा अन्य पूर्वा भाषाओं

१. इंडियन ऐटिक्वेरी पुरानी राजस्थानी § १२६।५



मे मिलती है। कीर्तिलता में नहीं मिलती। केवल एक स्थान पर 'क्वेटे' के साथ 'करना' क्रिया का प्रयोग हुआ है।

मंज करिक्वेटे काह (३।२१)

यह 'तव्यत्' से विकसित हुआ है।

§६७—भविष्य संभावना के भी कुछ प्रयोग मिलते हैं।

ते रहउ कि जाउ कि रज्ज मम् (२।४८)

ऐसे प्रयोग अवधी में भी मिलते हैं।

जोवन जाउ जाउ सो भँवरा (जायसी)

अजस होउ जग सुजस नसाइ (तुलसी)

§६८—कृदन्त का वर्तमान में प्रयोग :

वर्तमान कालिक कृदन्त रूपों का वर्तमान काल में क्रिया की तरह प्रयोग होता है।

कढ़न्ता (२।१७२ = काढ़ते हैं), करन्ता (२।२२७ = करते हैं) चाहन्ते (२।२१६ = चाहते हैं) चापन्ते (२।१७ = चापते हैं) दूटन्ता (४।१७६ = दूटते हैं) देखन्ते (२।२४० = देखते हैं) निन्दन्ते (२।१४५ = निन्दा करते हैं) पिअन्ता (२।१७० = पीते हैं) पावन्ता (२।२२१ = पाते हैं) सोहन्ता (२।२३० = शोभित होते हैं) ये रूप धातु में अंत (शतृ प्रत्ययान्त) लगने से बनते हैं यही रूप बाद में 'ता' रूपों में दिखाई पड़ते हैं जिसके साथ सहायक क्रिया का प्रयोग करके हिन्दी के वर्तमान जाता है, पढ़ता है आदि रूपों का निर्माण होता है। इन कृदन्त रूपों की यह पहली स्थिति है जिससे विकसित होकर वे हिन्दी के वर्तमान रूपों में आए।

§६९—अपूर्ण कृदन्त—

कीर्तिलता में प्रायः सयुक्त क्रियाओं में अपूर्ण कृदन्तों का प्रयोग हुआ है। इनके उदाहरण नीचे उपस्थित किए जाते हैं।

किनइते पावथि (२।११४ = खरीद पाते हैं) जाइते घर (२।२०१ = जाते हुए पकड़ लेते हैं) आन करइते आन भउ (३।४६ = दूसरा करते दूसरा हुआ)।

चटर्जी इन्हे (Present Progressive) का उदाहरण मानते हैं होइते अछ, (वर्ण १३ क) करइते आह। (३७ ख) चरइते अछ (वर्ण) रूपों का उदाहरण देते हुए चटर्जी ने कहा कि वर्तमान मैथिली में 'करइते अछ' और 'करइछ' दोनों रूप मिलते हैं (वर्ण० २० § ५०) डॉ० बाबू राम सक्सेना

इन रूपों को क्रियार्थक संज्ञा के विकृत रूप बताते हैं [कीर्तिलता, न० सं० पृ० ५४] हिन्दी में भी इस प्रकार के प्रयोग मिलते हैं। उसे काम करते देर हो गई, मे 'करते' अपूर्ण क्रिया द्योतक कृदन्त है जो वर्तमान कालिक कृदन्त का विकृत रूप मात्र है।<sup>१</sup>

§७० प्रेरणार्थक क्रिया—

कीर्तिलता के निम्नलिखित उदाहरणों में प्रेरणार्थक रूप उपलब्ध होते हैं।

करावए ( २।२८ = कराता है ) वैठाव ( २।१८४ = बिठलाता है ), लवावै ( २।१६० = लिवा आता है ) पलटाए ( १।८६ = पलटा कर ) इन क्रिया रूपों में 'आव' लगा हुआ है। संस्कृत में प्रेरणार्थक (णिजन्त) रूप धातु में—अय लगा कर बनते थे। स्वरान्त धातुओं में—अय के बीच में—प भी लगता था। इसी आप (दापयति) का विकृत रूप आव है।

§७१ आज्ञार्थक—

हेमचन्द्र ने आज्ञार्थक क्रिया के लिए 'हिस्वयोरिदुदेत्' ( ८।४।३८७ ) सूत्र के उदाहरण में जो तीन रूप बताए हैं सुमरि, विलम्बु, और करे उनमें-इ, उ, ए ये तीन प्रकार दिखाई पड़ते हैं। कीर्तिलता के आज्ञार्थक रूपों में कई नए प्रकार भी दिखाई पड़ते हैं।

मूल धातु रूप ही आज्ञार्थक का बोध कराते हैं ये प्रायः अ स्वरान्त होते हैं।

१—अ—

अनुसर ( ४।२५ ) कह कह कन्ता ( ४।२ ) भण ( २।४८ ) सुन ( १।२३ )

२—उ—

जियउ ( १।७७ ) जीअउ ( २।२१३ ) साहउ ( १।७७ )

३—ओ—

सुनओ ( २।१५६ ) करो ( २।११० )

४—हु—

कहहु ( ३।३ ) करहु ( २।३२ ) भुंजहु ( २।२७ ) राखेहु ( १।४४ ) सगलहु ( २।३८ )

५—सि—

कहसि (१।२६)

६—हि—

जाहि (४।२२२) अप्पहि (४।४)

७—आदरार्थ आना—इअ—

करिअइ (२।२४=कीजिए) किजिअ (४।२५६) छानिअ (३।६८)

छपाइअ (३।१०४) धरिअ (२।१८१)

८—करिषु (३।५६) हरिजिषु (३।५६-पाठभेद)

उ और ओ—रूप प्राचीन तु (करोतु) पर आधारित हैं। हु की व्युत्पत्ति सदिग्ध है। चटर्जी ने 'हु' के लिए :

कुरुष्व > करस्स > करहु > का क्रम बताया है।—सि पर वर्तमान मध्य-पुरुष की विभक्ति-सि का प्रभाव है।

मुंज म करसि विसाउ (मुंजराज प्रबन्ध दो० सं० ३४) में करसि ऐसा ही रूप है। छानिअ, छपाइअ आदि इअ रूप भूतकालिक कृदन्त के इ त वाले रूपों से विकास ही हैं। करिसु का सुलृष्व से विकसित है।

§ ७२—पूर्वकालिक क्रिया—अपभ्रंश में पूर्वकालिक क्रिया बनाने के लिए कई प्रकार के प्रत्ययों का प्रयोग होता था।

हेमचन्द्र के अनुसार ये इस प्रकार हैं।

—इ —इउ — इवि — अवि

—एप्पि —एप्पिसु — एप्पिक्कि — एप्पिसु

इन प्रत्ययों में कीर्तिलतायें 'इ' प्रत्यय ही सर्वाधिक रूप से उपलब्ध हैं।

इ—उट्टि (३।६) उभारि (२।१३७ उभार कर); कट्टि (३।७८ = काटकर); खुखुन्दि (४।१३५ = खोदकर) गोइ (१।४४ = छिपाकर) चापि (३।१४६ = चाँप कर) छाँडि (२।१०५ = छोड़कर) जिजि (४।२५४ = जीत कर) टोप्पि (४।२३२ रुक कर) दमसि (४।१२८ = मर्दित करके) दौरि (२।१८१ = दौड़ कर) धरि २।२२२ = पकड़ कर) धाइ (२।४१ = दौड़ कर) नामि (३।२२ = नवा कर) पकलि (४।१४८२)। इ का कुछ रूपों में ए हो जाता है। नीचे—ए वाले रूपों के उदाहरण दिये जाते हैं।

ए—गए (१।३ = जाकर) पइट्टे (२।३६ पैठकर) पलटाए (१।८६ = पलटा कर) मेले (३।६० = होकर) लै (२।१८४ = लेकर) धै (२।१८४ = पकड़कर)

कुछ रूपों में पूर्वकालिक क्रिया का एक साथ दो बार प्रयोग होता है। वर्तमान हिन्दी में पहन कर या पहने हुये इसी तरह के रूप कहे जा सकते हैं।

वल कर ( २।०० = वल करके ) भेले ( ३।६० = होकर ) रहि रहि  
( २।२२३ = रह रह कर ) ले ले ( २।१७६ = ले कर )

कुछ ऐसे भी रूप हैं जिनमें अ प्रत्यय लगा है ।

सारिअ ( ४।४७ ), सुनिअ ( ३।३४ = सुनकर ) सम्मद् ( २।१०६ = सम-  
दित करके )

§ ७३—क्रियार्थक संज्ञा

१—अण < प्रा० अन के रूप जो 'ना' के रूप में दिखाई पड़ता है ।

जीअना ( २।३६ = जीना ) देना ( २।२०७ ) भोअना ( २।३५ )

वजन ( ४।२५५ ) वटुराना ( २।२२५ ) वसन ( २।६२ ), होणा २।५६

२—ब या बा—

कहवा ( १।५४ ) विकाइवा ( २।१०७ ) हेरब ( ४।१२६ ) पेल्लव ( ४।१२७ )

३—ए—

गणाए ( ४।१०७ = गणना ) चलए ( २।२३० = चलना ) पीवए  
( ३।६८ = पीना ) हिएडए ( २।११३ = हीड़ना, घूमना )

४—निहार—

बुज्भनिहार ( २।१४ )

§ ७४—सहायक क्रिया

कीर्तिलता में चार सहायक क्रियाओं का प्रयोग हुआ है ।

१—अच्छ—१—मेरहु जेठ गरिष्ठ अच्छ ( २।४२ )

२—तहाँ अच्छए मन्ति ( ३।१३१ )

३—अचै मन्ति विअखण्णा ( ३।१२६ )

अच्छइ-या अच्छए का विकास अपभ्रंश अच्छइ < अच्छति < अच्छति से  
संभव है ।

२—अह—

खिसियाय खाए है ( २।१८० )

संस्कृत अस् > अह की व्युत्पत्ति हुई है ।

३—हो < भू

हुअउं ( ३।४ ) हुअ ( २।२ ) हो ( २।१७२ ) भउं ( ३।४६ )

४—रह

रैयत भले जीव रह ( ३।६० )

साकी रहै तसु तीर लै ( २।१८४ )

§ ७५—संयुक्त क्रिया—

१—चाह (आरम्भ सूचक)

भागए चाह (२।१४७ = भागना चाहती है)

चढ़ावए चाह घोर (२।२०५ = चढ़ाना चाहता है)

२—पार (सामर्थ्य सूचक)

सहहि न पारइ (३।२८)

गणए न पारीआ (२।११३)

३—पाव (प्राप्ति सूचक या सामर्थ्य सूचक)

किनइते पावथि (२।११४)

वसन पाजे ल (२।६२)

४—जा, ले, दे, खा, आदि के साथ भी संयुक्त क्रियाएँ बनती हैं जो सभी कार्य की पूर्णता व्योक्त करते हैं।

जा (२।१३०) जाइ (२।१८२) जाइअ (२।६३)

खाए ले भांग क गुणडा (२।१७४)

मंचो बंधि न देइ (१।२)

सैच्चान खेदि खा (४।१३३)

५—लागु भी आरम्भ सूचक सहायक क्रिया की तरह प्रयुक्त होता है।

भैटि लागु (२।६८)

§ ७६—संयुक्त काल—

अवत्त हुआ (४।१०६)

खिखियाय खाण है (२।१८०)

देखि न हो भान (२।२१२)

बाकी उदाहरण सहायक क्रियाओं के प्रसंग में दिये गए हैं [§ ७४]

क्रिया-विशेषण अव्यय

§ ७७—कीर्तिलता में निम्नलिखित क्रिया विशेषण अव्यय मिलते हैं।

१—काल वाचक

अज (३।१४) अद्य (३।६५) एथ्यन्तर (३।४७)

जबे (२।४) जबहीं (२।१८२) ततो (२।१५८) तबे (२।१४०) तबहीं

(२।१८३) अवहिं (३।४४)

२—स्थान वाचक

इअ (२।२२६ = इतः) इथियथ (४।१२) उत्थि (२।२३४) उपर

( २।२०५ ) और ( २।५२ ) कहीं ( २।१६० ) जहाँ ( ३।६३ ) तहाँ  
 ( ३।१३१ ) निअर ( ४।२२३ ) पटरे ( २।२३० ) पाछा ( २।१७६  
 < पश्च ) वगल ( ४।७६ ) वाजू ( २।१६४ ) भीतर ( २।८० )  
 रहसैं ( १।३० )

## ३—रीति वाचक—

एम ( ४।२५३ ) एव ( ३।१०५ ), काजि ( १।१ ) किमि ( २।२ ) जजो  
 ( २।४७ = ज्यों ) भाटे ( ३।१४६ < भटित ) न ( २।१६ ) नहिं  
 ( २।४५ ) नहु ( १।२८ ) गिच्चइ ( १।१२ ) पइ ( २।३४ ) फुर  
 ( ३।१६२ < स्फुट ) विनु ( ३।१५० )

## ४—सदृश सूचक—

जनि ( जनि ( २।१०४ ), जनु ( २।१४१ ) सजो ( २।४७ ) समाण  
 ( ३।१४६ )

## ५—विविध—

अरु ( ३।१८ ) अवच ( २।५८ ) एवञ्च ( ४।१३६ ) तोवि ( ४।१६७ <  
 तोऽपि )

अवस ( ३।२८ = अवश्य ), कलु ( ३।११४ < खलु ), तौ ( ३।२३ ) अवि  
 अवि च ( २।११० )

## ६—विस्मय सूचक

अहो ( २।३३८ ) अहह ( ३।११४ )

§७८—रचनात्मक प्रत्यय

कीर्तिलता के रचनात्मक प्रत्ययों में अधिकांश अपना विकास प्राचीन तथा मध्यकालीन आर्य भाषा के प्रत्ययों से द्योतित करते हैं। नीचे इन प्रत्ययों के उदाहरण और इनके विकास का क्रम उपस्थित किया जाता है।

१—अ < स्वार्थे क ( संस्कृत )

गुरुअ ( ३।१३७ < गुरुक )

२—अण < म० अण < प्रा० अन ।

जोअना ( २।३६ ) होणा ( २।५६ ) देना ( २।२०६ ) भोअना ( २।३५ )

३—अनिहार < म० अणिअ < सं० अनिका + हार < धार

बुभनिहार ( २।१४ ) भंजनिहार ( ४।१५८ )

४—अव < म० इ अव्व < प्रा० इतव्य — भविष्यत् क्रियार्थक संज्ञा

कहवा ( २।५४ ) विक्कइ बा ( २।१०७ ) हेरव ( ४।३२६ ) येत्त्व ( ४।१२७ )

५—आर<कारः

वखिजार (२।११३<वाखिज्यकार) गमार (२।१५१ <ग्रामकार)

६—आरि<कारिक

भिक्वारि (२।१४<भिक्षाकारिक) मियागिओ (२।१२०<प्रियकारिका)

७—आण—करने वाला,

कोहाण (४।२२२) खोहण (४।२२<क्षोभ + आण) सरोसान (४।२०५  
= स + रोष + आण) निद्राण (२।१९६)

८—ई<इका

कहाणी (१।३६ <कथानिका) अटारी २।६७<अट्टालिका)

९—इ<स्वार्थे ट (क)

शोल ऽथोडा (३।८७<स्तोक + ड)

१०—मन्त<वन्त

गुणमन्ता (२।१३०<गुणवन्त)

११—पण भाववाचक

वड्डिपन (१।५४) कैरिपण (२।२)

१२—ई भाववाचक

बडाई (३।१३८) दोहाण (३।३६ = दोहाई)

१३—दार (फारसी)

दोककाणदारा (३।१६३)

१४—तण (अपभ्रंश, भाववाचक)

वीरत्तण (३।३३) जम्मत्तणोन १।३२ = जन्मत्वेण)

१५—वा <स्वार्थे क-मैथिली का अपना प्रत्यय है।

पउवा (३।१६१<प्रभुवा) प्रिउवा (४।१०३<प्रिय वा)

§ ७६ समास—

कीर्तिलता के गद्य में पाये जाने वाले प्रायः अधिकांश समासों का रूप संस्कृत जैसा ही है। गद्य में लेखक ने संस्कृत गद्य का पूर्ण रूप से अनुसरण करना चाहा है। ऐसे स्थलों पर तीन-तीन पक्तियों तक के समास मिलते हैं।

प्रबलशत्रु बलसंधट्टसंमिलन सम्मदसंजातपदाघाततरलतरगुरंगरखुरलुन्न  
वसुन्धराधूलि सभारघनान्धकार श्यामसमरनिशाभिसारिका प्राय जयलक्ष्मी  
करग्रहण करेश्रो । (१।८०)

गद्यों के अलावा, पद्यों में भी समस्तपद मिलते हैं। इनमें कुछ तो

तत्सम प्रभावित हैं कुछ मध्यकालीन समासों की तरह प्राचीन नियमों में से थोड़े स्वतंत्र दिखाई पड़ते हैं। नीचे थोड़े से उदाहरण उपस्थित किये जाते हैं।

अत्यिजन (१५२) अतुलतर विक्रम (११८) अष्टघातु (२१००) उष्णमति (१५५) उरिधान (२१०६) कुसुमाउह (१५७ < कुसुमायुध) केदारदान (१५८) कौसीस (२१८८ कोटशीर्ष ?) चारुकला (४२३०) जलजलि (३१२६) ढलवाइक (४७१) तम्बारू (२११८) तक्कककस (१४६ < तर्क कर्कश) महु-मास (२१५) निमाजगह (२१३६) पक्वानहटा (२१३०) पञ्चशर (२१४५) पनहटा (२१०३) परउँअरारे २१३६ परयुत्ये (४१६७) पाणिगगह (३१२५) पुच्छ विहूना (१३५) विवट्टवट्ट (२८४) विसहर (११६) वैरुद्धार (२२१) रज्ज-लुद्ध (२१६) शाखानगर (२१६६) सोनहटा (२१०२) हुआसन (१५७)

#### § ८०—वाक्य विन्यास (Syntax)

कीर्तिलता में हमने अब तक पदों के विवेचन के सिलसिले में महत्त्वपूर्ण प्रयोगों पर विचार किया। पूरे वाक्य की गठन की दृष्टि से, पदों के पारस्परिक प्रयोग और सम्बन्ध तथा क्रम की दृष्टि से भी इसकी भाषा विशेष विचार ही वस्तु है।

वाक्यों की गठन ( गद्य में ) प्रायः वैसी ही है जैसी वर्तमान हिन्दी की होती हैं। यानी कारक ( सज्ञा, सर्वनाम) फिर कर्म और अन्त में क्रिया।

दोसरी अमरावती क अवतार भा (२११६)

मानो दूसरी अमरावती का अवतार हुआ

आनक तिलक आनकाँ लाग (२१०८)

दूसरे का तिलक दूसरे को लग जाता

मर्यादा छाँडि महार्याव ऊठ (२१०५)

मर्यादा छोड़ कर महार्याव उठ पड़ा।

ठाकुर ठक भए गेल (२१०)

ठाकुर ठग हो गए

राजपथ के सन्निधान सँचरन्ते अनेक देशिअ वेश्यन्हि करो निवास  
जन्हि के निर्माये विश्वकर्महु भेल बड़ प्रयास

वहाँ इस तरह के लम्बे वाक्य हैं वहाँ अवश्य ही अन्तर्कान्त देने की प्रवृत्ति के कारण इस क्रम में थोड़ा अन्तर आ जाता है।

२—वाक्य गठन की दूसरी विशेषता है संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग।



क्रियाओं वाले भाग में उस पर विचार किया गया है और उदाहरण भी दिए गये हैं। इनमें कहीं कहीं प्रयोग बिल्कुल वर्तमान भाषा के ढंग के होते हैं। [देखिए § ७५-७६]

३—कीर्तिलता में कुछ प्रयोग ऐसे हैं जो ठेठ जन-प्रयोग हैं, ऐसे स्थलों पर भाषा बड़ी ही पैनी और वाक्य छोटे छोटे तथा अर्थपूर्ण होते हैं।

१—भाहु भैसुर क सोम जाहि ४।२४७—बहू (अनुजवधू) भसुर के सोम जाती है। 'सोम (सामने) का प्रयोग खड़ी बोली में नहीं होता किन्तु पूर्वी भाषाओं में यह अब भी चलता है।

२—काहु होत अइसनो आस, कइसे लागत आँचर बतास (२।१४६)

३—रैयत मेले जीव रह—प्रजा होने पर ही जीव रहता है। रहता है प्रयोग खड़ी बोली में (वचना) अर्थ में बहुत प्रचलित नहीं है।

४—गौंठि परि अउँ ३।३५ = गौंठ पड़ गई।

वाक्यों को तोड़ तोड़ कर कहने का सुन्दर ढंग है।

५—गिरि टरइ, महि पडइ, नाग मन कंभिआ (३।६६)

६—चन्दन क मूल्य इन्धन विका (३।१००)

### §८१ शब्दकोष

रासो को छोड़कर इस काल की किसी अन्य पुस्तक में शायद ही कीर्तिलता से ज्यादा बहुरंगी शब्द दिखाई पड़ें। कीर्तिलता में सब चार प्रकार के शब्द मिलते हैं।

पहले कहा जा चुका है कि ब्राह्मणधर्म के पुनरुत्थान के कारण तत्कालीन साहित्य में तत्सम का प्रचार होने लगा, कीर्तिलता के लेखक तो स्वयं भी संस्कृत भाषा के अच्छे पंडित और कवि थे अतः यहाँ तत्सम शब्दों का प्रवेश अपेक्षाकृत अधिक दिखाई पड़ता है। दूसरे प्रकार के शब्द तद्भव हैं जो इतने विकसित रूप में दिखाई पड़ते हैं कि उनका विकास-क्रम निश्चित कर सकना कठिन होता है।

औका २।१२६ < अपरक। जूठ २।१८८ < उच्छिष्ट, सोअर ४।४५ < सहोदर, कौडि ३।१०१ < कपर्दिका। कौसीस २।६० < कोइशीर्ष।

तद्भव शब्दों के विकास का यह रूप लेखक द्वारा जीवंत भाषा के ग्रहण की प्रवृत्ति का द्योतक है। आगे शब्द सूची में इस प्रकार के शब्दों की व्युत्पत्ति दे दी गई है। कुछ शब्दों का प्रयोग तो अब प्रचलित भी नहीं रहा। थप्प थप्प

थनवार ४।२८ < स्थानपालः । कीर्तिलता के इस शब्द का प्रायः गलत अर्थ लगाया जाता था । इसका अर्थ टाप की आवाज नहीं साईस है ।

उक्तिव्यक्ति प्रकरण में तथा वर्णरत्नाकर में भी इस शब्द का प्रयोग मिलता है । बोट थणवाला न्हात तुतेड (उक्ति ३८।२२) घोटक स्थानपालः स्नातुमुत्तेडयति । थलवारन्धि घोल उपनीत करुअह (रणरत्नाकर ४५ क)

तीसरे प्रकार के शब्द वे हैं जो विदेशी कहे जा सकते हैं । ऐसे शब्दों को कीर्तिलता में प्रायः तोड़ मोड़ कर रखा गया है । और उन्हें सहसा पहचान लेना कठिन है । शब्द सूची में ये शब्द दिए हुए हैं । यहाँ इनमें से कुछ खास दिए जाते हैं ।

कुरुवक ३।४३ < कोरबेग मुसलमानी सेना में अन्न शस्त्र का अधिकारी (आइने-अकबरी पृष्ठ सं० ७ का पॉचवा नोट, सम्पादक, रामलाल पाण्डेय) देखने में यह शब्द बिल्कुल भारतीय बन गया है, इसी से अर्थकारों ने तरह तरह के अटकल लगाए हैं इस तरह के और भी शब्द हैं जो इतने भ्रष्ट हो गए हैं कि उनका अर्थ नहीं लग पाता ।

देमान अवदगल गह्वर कुरुवक वइसल अदप कह । इसमें दीवान और कोरबेग तो मिले, पर अवदगल और गह्वर का कोई अर्थ नहीं निकलता । मुसलमानी सेना में सजा देने वाले अधिकारी को अदल कहते थे (मीर-अदल) आइने अकबरी । सभवतः अवदगल वही हो ।

तकतान तख्त का ही रूप है या और कुछ इसमें सन्देह है । उसी प्रकार पइजल (फैज़ार) वलह (वली, फकीर) तवेल्ला (अस्तबल) तथ्य (तशतरी) धोजा (खवाजा) सइल्लार (सालार) आदि शब्द मिलते हैं । इस प्रकार के अरबी फारसी शब्दों की संख्या एक सौ के आसपास है ।

चौथे प्रकार के शब्द देशी हैं । इन शब्दों का प्रयोग बहुत कुछ आज भी मिल जाता है ।

अँटले ४।४६ = बाँधकर, गुण्डा २।१७४ = गोली, चोंगरे ४।४५ = चाग, जरहरि ४।२१२ = नाव की फिरहिरी, धाँगड़ ४।८६ = जंगली, धाड़े ४।८८ = धावा, हेडा २।१७६ = गोस्त, हचड़ ३।४२ = कीचड़, कोलाहल क्रिया रूपों में भी देशी धातुओं का प्रयोग मिलता है ।

**द्वितीय खण्ड**

**विद्यापति विरचित**

**कीर्तिलता**

मूलशोधित पाठ, विद्यापति का समय, साहित्यिक मूल्याङ्कन,  
हिन्दीभाषान्तर, वृहद् शब्दसूची के साथ

## कीर्तिलता का मूल-पाठ और प्रस्तुत संस्करण की विशेषताएँ

भाषा और साहित्य, दोनों ही के अध्ययन की दृष्टि से कीर्तिलता का महत्व निर्विवाद है, किन्तु अभाग्यवश इस प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण रचना का कोई प्रामाणिक संस्करण दिखाई नहीं पड़ता। कीर्तिलता का पहला संस्करण वंगीय सन् १३३१ ( ईस्वी १६२४ ) में महामहोपाध्याय प० हरप्रसाद शास्त्री के सम्पादकत्व में हृषीकेश सीरीज के अन्तर्गत कलकत्ता ओरियण्टल प्रेस से प्रकाशित हुआ। ईस्वीसन् १६२२ में शास्त्री जी नेपाल गए और वहाँ से वे कीर्तिलता की प्रतिलिपि ले आये। उक्त प्रति के विषय में शास्त्री जी ने लिखा है कि उसे जय जगज्ज्योतिर्मल्लदेव महाराजाधिराज की आज्ञा से दैवज्ञनारायण सिंह ने नेपाल में बसे हुए किसी मैथिल पंडित की प्रति से नकल किया था। नेपाल दर्ज़ार की प्रति नेवारी लिपि में हैं, और उसी के आधार पर शास्त्री जी ने बंगालियों में कीर्तिलता प्रकाशित की। इस संस्करण में शास्त्री जी ने कीर्तिलता का वग-भाषान्तर और अंग्रेजी-अनुवाद भी प्रस्तुत किया। कीर्तिलता की भाषा अति प्राचीन है और उसमें तत्कालीन लोक प्रचलित शब्दों का भी बाहुल्य दिखाई पड़ता है, ऐसी अवस्था में ठीक-ठीक अर्थ कर सकना अत्यन्त कठिन कार्य था; फिर भी शास्त्री जी ने बड़े परिश्रम के साथ यथासंभव सही अर्थ देने की कोशिश की, वे पूर्णतः सफल नहीं हो सके यह और बात है।

कीर्तिलता का हिन्दी संस्करण श्री बाबूराम सक्सेना के सम्पादन में ईस्वीय सन् १६२६ में काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने प्रकाशित किया। यह संस्करण शास्त्री के वंगीय संस्करण के बाद प्रकाशित हुआ और इस संस्करण के लिए सक्सेना जी के पास शास्त्री जी की अपेक्षा सामग्री भी अधिक थी; किन्तु अभाग्यवश यह संस्करण बंगला संस्करण से अच्छा और कम त्रुटि-पूर्ण नहीं हो सका।

हिन्दी संस्करण को तैयार करने में सक्सेना जी ने तीन प्रतियों का सहारा लिया है। 'क' प्रति जिसे महामहोपाध्य प० गंगानाथ भ्ना ने इस संस्करण के लिए नेपाल दर्ज़ार की प्रति से नकल कराकर मँगाई थी। 'ख' प्रति जिसे काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने प० महादेव प्रसाद चतुर्वेदी से अपने किसी कर्मचारी

के द्वारा प्राप्त किया था। तीसरी प्रति या प्रत्यन्तर शास्त्री जी का बंगला संस्करण है।

ऊपर जिस 'क' प्रति का जिक्र किया गया वह वही प्रति है जिसकी नकल कराकर शास्त्री जी नैपाल दरबार से ले आए थे। इन दोनों प्रतियों में कोई महत्वपूर्ण अन्तर नहीं दिखाई पड़ते हैं। कहीं-कहीं कुछ शब्दों में परिवर्तन अवश्य हुआ है जिसे लिपिकारों का दोष कह सकते हैं।

सकसेना जी ने जिस 'ख' प्रति की चर्चा की है, अब वह प्राप्त नहीं है इसलिए उसके स्वरूप का निर्धारण हिन्दी संस्करण की पाद-टिप्पणियों में उक्त प्रति के उदाहरणों से ही किया जा सकता है। 'ख' प्रति के उदाहरणों से दो बातों का अनुमान होता है, पहला तो यह कि वह प्रति काफी परवर्ती है, क्योंकि इस प्रति में भाषा ने रूप परवर्ती हैं। उदाहरण के लिए 'हरिज्जइ' के लिए 'हरिज्जै', 'पालइ' के लिए 'पालै', 'गुणइ' के लिए 'गुणै' आदि रूप मिलते हैं। भाषा को आसान बनाने का प्रयत्न भी किया गया है। दूसरी बात यह है कि लिपिकार प्रवीण नहीं प्रतीत होता इसलिए बहुत कुछ निरर्थक और अस्पष्ट पाठ दिखाई देता है। लिपिकार अमैथिल तो है ही क्योंकि भाषा पर मैथिली की नहीं पूर्वी हिन्दी का प्रभाव ज्यादा स्पष्ट है। फिर भी यह प्रति कई दृष्टियों से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। 'क' और शास्त्री दोनों ही प्रतियों के अस्पष्ट स्थानों को इस प्रति के सहारे ठीक करने में सहायता मिलती है।

प्रस्तुत संस्करण में इन सभी प्रतियों की सहायता ली गई है।

## छन्दों की दृष्टि से पाठ-शोध

बंगला और हिन्दी के दोनों ही संस्करणों की सबसे बड़ी त्रुटि है मूलपाठ का छन्दों की दृष्टि से अनुचित निर्धारण। मूल प्रति जो नैपाल दरबार में सुरक्षित है वह २६ पन्नो में है और ६ इंच लम्बे और ४½ इंच चौड़े इन पृष्ठों पर सात-सात पक्तियाँ हैं। नकल करने वाले ने जैसा का तैसा कर दिया, किन्तु सम्पादकों ने इस गद्य-पद्य उभय प्रकारों में लिखी पुस्तक के सम्पादन के समय यह ध्यान नहीं दिया कि कौन हिस्सा गद्य है और कौन पद्य। छन्दों की दृष्टि से मध्यकालीन रचनाओं का सम्पादन थोड़ा दुस्तर भी है क्योंकि बहुतेरे छन्द जो उस काल में बहुप्रचलित थे, अब नहीं प्रयुक्त होते। दूसरी ओर गद्य भी अन्तर्तुक्रान्त होते हैं जिनमें पद्य का आभास होता है।

डा० सकसेना के हिन्दी संस्करण में इस तरह के बहुत से गद्य दिखाई पड़ते हैं तो वस्तुतः पद्य हैं। सकसेना जी के संस्करण से एक उदाहरण दिया जाता है।

किञ्चित्खण्ड सूर संगाम धम्म पराअण ह्यिअ  
 विपअ कम्म नहु दीन जम्पइ, सहज भाव सानन्द सुअण  
 भुंजइ जासु सम्पइ । रहसे दब्ब दए विस्सरइ सत्तु  
 सरुअ सररी ।  
 एत्ते लक्खण लक्खिअइ पुरुष पसंसओ वीर

( हिन्दी संस्करण, पृ० ६ )

इस प्रकार के गद्य खण्ड प्रति पृष्ठ पर मिलेंगे विशेषतः तीसरे पल्लव में । शास्त्री जी ने इस तरह के अंशों को पद्य-वद्ध ही दिया है, किन्तु उनमें चरणों का कोई निर्धारण नहीं दिखाई पड़ता । जैसे ऊपर का उद्धृत अंश शास्त्री के प्रतिमे इस प्रकार है ।

किञ्चित्खण्ड सूर संगाम धम्मपराअण ह्यिय विपअकम्म नहु दीन जम्पइ  
 सहज भाव सानन्द सुअण भुंजइ जासु सम्पइ  
 रहसे दब्ब दए विस्सरइ सत्तु सरुअ सररी  
 एत्ते लक्खण लक्खिअइ पुरुष पसंसओ वीर

( बंगला संस्करण, पृष्ठ ३ )

इसी प्रकार का एक अंश और देखिए, जिसमें शास्त्री जी को काफी गड़बड़ी हुई है ।

जइ साहसहु न सिद्धि हो मूल करिन्वउं काह, होणा  
 होसइ एक पइ वीर पुरिस उच्छाह । ओहु राओ विअण्णन  
 तुम्ह गुणवन्त, ओह सधम्म तौहे शुद्ध, ओहु सदय तौहे रज्ज  
 खण्डिअ, ओ जिगीसु तौहे सूर ओहु राज तौहे रज्ज खंडिअ  
 पुहवी पति सुरतान ओ तुम्हे राजकुमार

एक चित्त जइ सेविअइ धुअ होसइ परकार ( वही पृष्ठ, २२ )

जाहिर है कि शास्त्री ने यहाँ एक दोहा और एक तथाकथित गद्य खण्ड (१) एक में मिला दिया है । ऊपर दोहा है और नीचे भी दोहा किन्तु बीच में गद्य मालूम होता है । वस्तुस्थिति तो यह है कि यह पाँच चरणों तथा एक दोहे का एक विचित्र छन्द है जो अपभ्रंश में बहुत परिचित रहा है । यह छन्द है रड्डा । रड्डा छन्द का लक्षण इस प्रकार है :

पदम विरइ मत्त दह पंच

पअ वीअ वारह ठवउ, तीअ ठौव दइ पंच जाणहु

चारिम एगारहि, पँचमे हि दहपंच माणहु

अट्टा सट्टा पूरवहु अगो दोहा देहु  
राअसेण सुपसिद्ध इअ रड्ड भण्णिज्जइ एहु

प्राकृत पैंगलम्, पृष्ठ २२८

प्रति चरण में मात्राओं का क्रम यह है १५ + १२ + १५ + ११ + १५ + दोहा। प्रति चरण की मात्राओं में कुछ कमी-वैशी होने पर इस रड्डा के सात भेद हो जाते हैं।

- १—१३ + ११ + १३ + ११ + १३ = करभी  
२—१४ + ११ + १४ + ११ + १४ = नन्दा  
३—१६ + ११ + १६ + ११ + १६ = मोहिन्दी  
४—१५ + ११ + १५ + ११ + १५ = चारुसेनी  
५—१५ + १२ + १६ + १२ + १६ = भद्रा  
६—१५ + १२ + १५ + ११ + १५ = राजसेनी  
७—१६ + १२ + १६ + ११ + १६ = तालंकिनी

कीर्तिलता में राजसेनी रड्डा ही प्रायः मिलता है। ऊपर रड्डा के लक्षण में जिस क्रम से चरणों को रखा गया है उसी क्रम से कीर्तिलता के ये गद्य खण्ड रड्डा छन्द में इस संस्करण में उपस्थित किये गए हैं।

गद्य और पद्य के इस निपटारे में एक गुर और बहुत सहायक हुआ है। कीर्तिलता में जहाँ कहीं भी शुद्ध गद्य है उसमें तत्सम सकृत पदावली का प्रचुर प्रयोग दिखाई पड़ता है, जहाँ इस तरह के प्रयोग दिखाई पड़ें आप आँख मूँद कर उसे गद्य कह सकते हैं, बाकी चाहे गद्यवत् लिखा हो, वह निःसन्देह पद्य है। इस दृष्टि से मुझे आवश्यक जान पड़ा कि मैं कीर्तिलता के इस संस्करण में जहाँ जो छन्द हो उसे दे दूँ, गद्य को गद्य कह दूँ और बाकी भाग को छन्द के नाम के साथ उपस्थित करूँ। इस प्रकार कीर्तिलता में निम्नलिखित छन्द मिलते हैं।

दोहा, रड्डा, गाथा, छपद, वाली, (मणवहला) गीतिका, भुजंगप्रयात, पद्मावती, निशिपाल, पञ्चटिका, मधुभार, शाराज, अरिल्ल, पुमानरी, रोला, विदुर्म्माला, आदि।

इस प्रसंग में मैं इस पाठ के एक दो विशेष स्थलों का जिक्र कर देना चाहता हूँ। तीसरे पल्लव में पंक्ति १६ से २८ तक के छन्द पर विचार कीजिए। इन पंक्तियों को देखने से मालूम होगा कि इसमें दो रड्डा छन्द टूट कर मिल गए हैं। प्रसंग और अर्थ की दृष्टि से विचार करने पर लगेगा कि २२ से पचीस त

का रड्डा छन्द पूर्ण और त्रुटि-हीन है। पहले रड्डे का दोहा टूट कर नीचे (पंक्ति २७-२८) चला गया है। इस पल्लव में आरम्भ से रड्डा छन्द शुरू होते हैं और दो रड्डा छन्दों के बीच में कोई दोहा अलग से नहीं दिया गया है, इस प्रसंग में यह दोहा फालतू लगता है, जो वस्तुतः ऊपर के रड्डे का भाग है।

इसी पल्लव में पंक्ति ८३-८४ पर ध्यान दें तो मालूम होगा कि ये पंक्तियाँ प्रसंगहीन और छन्द की दृष्टि से अनावश्यक हैं, न तो ये ऊपर के निशिपाल छन्द में बैठती हैं न नीचे के छपद में। 'ख' प्रति में यह है ही भी नहीं।

छन्दों की दृष्टि से इस प्रकार व्यवस्था करने पर इस संस्करण में काफी सफाई मालूम होगी साथ ही प्रथम संस्करणों की भूलों का भी परिहार हो सका है। रड्डा छन्द के अलावा और भी कई छन्दों में पहले के संस्करणों में भ्रान्तियाँ दिखाई पड़ती हैं।

हिन्दी संस्करण में पृ० ३० पर (नागरी प्रचारिणी, १६२६)

बहुले भँति वणिजार हाट हियडपु जवे आवथि

खने एक सवे विक्कणथि सवे किछु किनइते पावथि

गद्य के नीचे की दो पंक्तियाँ हैं जो वस्तुतः दूसरे पृष्ठ के छपद का प्रथम रोला है। इसी संस्करण में पृष्ठ २२ पर पंक्ति आती है :

जन्मभूमि को मोह छोडिडअ, धनि छोडिडअ

और नीचे दोहा आता है जो 'धनि छोडिडअ' से शुरू होता है। ऊपर की पंक्ति का 'धनि छोडिडअ' शायद सम्पादक ने गद्य की अन्तर्तुक्रान्त की प्रवृत्ति मानकर ठीक समझा किन्तु यह पूरा छन्द रड्डा है और इसमें मोह छोडिडअ तक पाँचवा चरण पूरा हो जाता है और इसके बाद दोहा होना चाहिए। इस तरह 'धनि छोडिडअ' की आवृत्ति निराधार प्रतीत होती है और कवि का दोष बन जाती है।

## भाषा और अर्थ की दृष्टि से पाठ-शोध

कीर्तिलता की जो दो तीन प्रतियाँ उपलब्ध हैं उनमें बहुत बड़ा पाठान्तर दिखाई पड़ता है। इनमें एक रूपता नहीं दिखाई पड़ती। अतः कौन सा पाठ सही है कौन गलत इसका निर्णय करना कठिन है। फिर भी कुछ अशर तक अर्थ की दृष्टि से विचार करके तथा भाषा के रूप को देखते हुए कुछ सुझाव रखे जा सकते हैं। अर्थ निकालने के लिए शब्दों को बदलना अनुचित है किन्तु किसी प्रति के आधार पर कुछ अच्छा अर्थ निकलता हो तो प्रतियों में सामंजस्य स्थापित कर



लेना अनुचित नहीं कहा जा सकता। इस दृष्टि से इस सस्करण में जिस पाठ को सही माना गया है उसके पीछे भाषा या अर्थ का कारण अवश्य रहा है। उदाहरण के लिए प्रथम पल्लव के अरम्भ में संस्कृत पूर्व श्लोक में 'श्रोतुर्दातुर्वदान्यस्य' शब्द आया है (हिन्दी सस्करण, नागरी० प्र० ४) किन्तु 'वदान्य' के साथ दातुः का कोई अर्थ नहीं बैठता, कीर्तिसिंह सुनने वाले, दान देने वाले और वदान्य हैं, यहाँ अन्तिम दो गुण वस्तुतः एक ही हो जाते हैं। मूलपाठ है ज्ञातुः। शास्त्री की प्रति में ज्ञातुः ही है। सुनने वाले, जानने वाले और वदान्य। कीर्तिलता की नीचे की पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है :—

सकय वाणी जुहजन भावइ

पाउँ अरस को मम्म न पावइ (११-२०)

सकसेना जी के सस्करण में बहुजन दिया हुआ है। यहाँ लेखक 'देसिल वयन' के तारतम्य में संस्कृत और प्राकृत को कुछ कम कहना चाहता है। प्राकृत में रस का मर्म नहीं और संस्कृत को बहुत से लोग समझते हैं, यह तो कोई कहना नहीं हुआ। अर्थ है कि संस्कृत को केवल बुधजन (सीमित लोग) समझते हैं, 'बुधजन' पाठ शास्त्री में दिया हुआ है। "जहाँ जाइअ जेहे गाजो, भोगाइ राजा क वड्डि नाजो शास्त्री ने 'कवड्डिनाजो' कर के अर्थ किया है कि कौड़ी भी नहीं लगती। यहाँ सकसेना जी का अर्थ ठीक है—राजाक वड्डि नाजो—राजा का बड़ा नाम था।

दूसरे पल्लव के (१७४—१७६) इस छपद में 'ततत क ता वा दरस' पाठ आता है। किन्तु 'ख' प्रति का जो पाठ है उसमें 'तत कइत खा वादि रम' आता जिसका कोई अर्थ नहीं किन्तु इसमें एक शब्द ज्यादा है 'खा' जो पहले पाठ में छूट गया है जिससे अर्थ नहीं निकलता। अब वह 'ततत कवावा खा दरम' हो गया जिसका अर्थ भी हो गया और छन्द की मात्राएँ भी ठीक हो गईं।

कई स्थानों में तो केवल अर्थ ठीक न कर सकने के कारण भयंकर गलतियाँ हो गई हैं।

सुरूक तोषारहिं चलल हाटभमि हेडा मंगइ

आडी दीठि निहार दवलि दाढी थुकवाहइ

(नागरी प्र० पृष्ठ ४०)

अर्थ किया गया है :

सुरूक तोषार को ? चला तो बाजार में घूम घूमकर देख देख कर (?)

(१) माँगता है आड़ी नजर से देखकर दौड़कर दाढ़ी में थुकवाता है ।  
इतना मूर्ख तो तुर्क क्या होगा ?

वस्तुतः ऊपरी पंक्ति में 'हिडा चाहइ' । निचली पंक्ति में थुक + वाहइ  
अलग अलग हैं । तुक भी ठीक है । अर्थ है कि तुर्क घोड़े से चलता है और  
टैक्स माँगता है । और जब क्रुद्ध होकर, तिरछी दृष्टि से देखने हुए दौड़ता है तो  
दाढ़ी से थुक बहता है ।

देमान अवदगरु गहवर कुहवक वइसल अदप कइ

जनि अवहिँ सवहिँ दहु धापके पकलि दे असजाय गइ (१।४४-४५)

इसमें ऊपर की पंक्ति कुछ अस्पष्ट है । सम्सेना जी ने इसके अर्थ  
नहीं किया, किन्तु शास्त्री जी ने अर्थ किया :

“सकले दर्य करिआ वसिल, माथापागला, दागावाज, असन्तुष्ट विद्रोह-  
काक्षी” ( बंगाली अनुवाद, पृ० २४ )

देमान का शास्त्री ने दीवाना, अवदगल का दगावाज और गहवर का  
असन्तुष्ट विद्रोहकाक्षी अर्थ किया । किन्तु यह पंक्ति कुछ अस्पष्ट है । सुल्तान ने  
जब क्रोध करके असलान को पकड़ने की आज्ञा दी तब,

दीवान ( मंत्री ) अवदगल ? गहवर ? और कोरवेग ( अल्ल-शख का  
अधिकारी ) सब अदब से खड़े होकर बैठे । लगता था जैसे अभी दौड़कर असलान  
को पकड़ देंगे ।

आइने-अकबरी में अधिकारी वर्ग का विवरण खोजने पर कोरवेग शब्द-  
मिला जो 'कुरुवक' के रूप में दिखाई पड़ता है, अदल का अर्थ सजा देने वाला  
होता है किन्तु गहवर क्या है मालूम न हो सका । इसलिए पाठ में इन शब्दों  
पर सन्देह का चिन्ह लगा दिया गया है ।

चौथे पल्लव में

थप थप थनवार कइ सुनि रोमंचिअ अंग ( पंक्ति २८ )

थन + वार अलग अलग नहीं है और न इसका अर्थ सूम की थप-थप  
आवाज है, थनवार एक शब्द है और इसका अर्थ साईस हैं ( स्थानपाल ) ।

घोड़ों के प्रसंग में 'कटक चागुरे चागु' आता है ( पंक्ति ४।४१ ) यह  
अंश प्रक्षिप्त है । इसका यहाँ कोई सदर्भ नहीं । शास्त्री की प्रति में यह है भी  
नहीं ।

( ४।११६ ) पंक्ति में क० शा० में 'भूलल भुलहि गुलामा' आता है ।

'ख' का पाठ ज्यादा ठीक मालूम होता है—भूखल भवहिँ गुलामा, भूख से व्याकुल

गुलाम इधर-उधर घूमते हैं। १४० वीं पंक्ति के आगे 'बाट सन्तारि तिरहुति पइठ, तकत चह्नि सुरतान वइठ। ऊपर के गद्य का अंश है कोई पद्य नहीं, जैसा सक्सेना जी की प्रति में दिखाई पड़ता है।

पक्ति १५७—५८ में रोला छन्द है

पैरि तुरंगम गण्डक का पाणी

पर बल भंजन गरुअ महमद मवगामी

( सक्सेना संस्करण, पृष्ठ १०० )

ऊपर के रोले को देखने से स्पष्ट लगता है कि ऊपर की पक्ति में ६ मात्राएँ कम हैं ख प्रति में पक्ति है पवारि तुरंगम भेलि गण्डक के पाणी इसमें भी तीन मात्राएँ कम हैं, फिर भी 'भेलि' शब्द अधिक है—भेलि के बाद शायद 'पार' रहा होगा जो छूट गया है। शास्त्री की प्रति में भी यह पक्ति 'क' जैसी ही है।

पैरि तुरंगम भेलि पार गण्डक का पाणी

पर बल भंजनिहार मलिक महमद गुमानी

नीचे की पक्ति भी 'ख' में आती है जो शास्त्री और 'क' प्रतियों की ऊपर-लिखित पंक्ति की अपेक्षा ठीक मालूम होती हैं। एक तो इसमें असलान का सूचक 'मलिक' शब्द आ जाता है दूसरे तुक भी ठीक बैठता है।

इस प्रकार संस्करण में अर्थ और भाषा की दृष्टि से पाठ शोध का प्रयत्न किया गया है, ऊपर दिये गए उदाहरणों के अलावा और भी वीसियों स्थानों पर पाठ-निर्धारण का प्रयत्न दिखाई पड़ेगा।

इस संस्करण की सबसे बड़ी विशेषता हिन्दी अनुवाद की है। यह नहीं, कहा जा सकता कि यह अनुवाद एकदम सही ही है; पर अपभ्रंश, अवहट्ट की रचनाओं आइने-अकबरी तथा फारसी कोशों की मदद से यथा सभव ठीक अर्थ निकालने का प्रयत्न अवश्य हुआ है। साथ ही कीर्तिलता में प्रयुक्त शब्दों की एक वृहद शब्दसूची भी दे दी गई है। जो भाषाशास्त्र के अध्येताओं तथा कीर्तिलता के सामान्य पाठकों के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगी।

## कीर्तिलता के आधार पर विद्यापति का समय

भारत के अन्य बहुत से श्रेष्ठ कवियों की भाँति विद्यापति का तिथि-काल भी अद्यावधि अनुमान का विषय बना हुआ है। यद्यपि विद्यापति का सम्बन्ध एक विशिष्ट राजघराने से था, और इस कारण वे मात्र कवि नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक व्यक्ति कहे जा सकते हैं, किन्तु अभाग्यवश इतने प्रसिद्ध और महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व के समय के विषय में कोई ऐतिहासिक प्रमाण प्राप्त नहीं हो सका है, जिस पर मतैक्य हो सके।

विद्यापति की जीवन-तिथि का कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता। अतः जीवन-तिथि के निर्धारण का कार्य मात्र अनुमान का विषय रह जाता है। विद्यापति के पिता गणपति ठक्कुर राजा गणेश्वर के सभासद थे और ऐसा माना जाता है कि विद्यापति अपने पिता के साथ राजा गणेश्वर के दरबार में कई बार गए थे। उस समय उनकी अवस्था आठ-दस साल से कम तो क्या रही होगी। कीर्तिलता से मालूम होता है कि राजा गणेश्वर लक्ष्मण सम्वत् २५२ में असलान द्वारा मारे गए। इस आधार पर चाहें तो कह सकते हैं कि विद्यापति यदि उस समय दस बारह साल के थे तो उनका जन्म लक्ष्मण सम्वत् २४२ के आस-पास हुआ होगा। सबसे पहले श्री नगेन्द्र नाथ गुप्त ने विद्यापति पदावली (बगला संस्करण) की भूमिका में लिखा कि २४३ लक्ष्मण सम्वत् को राजा शिवसिंह का जन्म काल मान लेने पर हम मान सकते हैं कि कवि विद्यापति का जन्म लक्ष्मण सम्वत् २४१ के आस-पास हुआ होगा। क्योंकि ऐसा प्रसिद्ध है कि शिवसिंह पचास वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठे और विद्यापति अवस्था में इनसे दो साल बड़े थे। इसी के आधार पर विद्यापति का जन्म सम्वत् २४१ (लक्ष्मण) में अर्थात् ईस्वी सन् १३६० में हुआ, ऐसा मान लिया गया।

जन्म-तिथि निर्धारण के विषय में किसी बाह्य साक्ष्य के अभाव की अवस्था में हमें अन्तर्साक्ष्य पर विचार करना चाहिए। कीर्तिलता पुस्तक से यह मालूम नहीं होता है कि यह विद्यापति की प्रारम्भिक रचनाओं में एक है। विद्यापति ने इस ग्रंथ में अपनी कविता को बालचन्द्र की तरह कहा है :

बालचन्द्र विजावड़ भासा

दुहु नहि लगगइ दुज्जन हासा

ओ परमेसर हर सिर सोहइ

ई गिचइ नाअर मन मोहइ ( २। ६-१२ )

इस पद से ऐसा ध्वनित है कि इसके पहले विद्यापति की कोई महत्त्वपूर्ण रचना प्रकाश में नहीं आई थी। पर कवि की इन पक्तियों से अपनी कविता के विषय में उसका विश्वास भङ्गता है और यह उक्ति या ही कही गई नहीं मालूम होती। कवि कहता है कि यदि मेरी कविता रसपूर्ण होगी तो जो भी सुनेगा, प्रशंसा करेगा। जो सज्जन हैं, काव्य रस के मर्मज्ञ हैं, वे इसे पसन्द करेंगे, किन्तु जो स्वभावेन असूया-वृत्ति के हैं वे निन्दा करेंगे ही। इस निन्दा वाली पक्ति से कुछ लोग सोच सकते हैं कि किसी प्रारम्भिक रचना की निन्दा हुई होगी। पर सज्जन प्रशंसा और दुर्जन-निन्दा कोई नई बात नहीं, यह मात्र कवि परिपाटी है। यहाँ बालचन्द्र निष्कलकता और पूजार्हता द्योतित करने के लिए प्रयुक्त लगता है।

अब यदि हमें कीर्तिलता के निर्माण का समय मालूम हो जाय तो हम सहज ही अनुमान कर सकते हैं कि विद्यापति उस समय प्रसिद्ध कवि हो चुके थे। कीर्तिलता के कथा पुरुषों में कीर्तिसिंह मुख्य हैं। कीर्तिलता पुस्तक महाराज कीर्तिसिंह की कीर्ति को प्रोज्ज्वल करने के लिए लिखी गई थी। कीर्तिलता से यह भी मालूम होता है कि कीर्तिसिंह ने जौनपुर के शासक इब्राहिम शाह की सहायता से तिरहुत का राज प्राप्त किया जिसे लक्ष्मण सम्वत् २५२ में मलिक असलान ने राजा गणेश्वर का वध करके हस्तगत कर लिया था। इस कथा में दो घटनाएं ऐतिहासिक महत्त्व की आती हैं। पहली तो असलान द्वारा राजा गणेश्वर का वध और दूसरी इब्राहिम शाह की मदद से तिरहुत का उद्धार।

लक्ष्मण सेन सम्वत् कब प्रारम्भ हुआ, इस पर भी विवाद है। इस समस्या पर कई प्रसिद्ध इतिहास विशेषज्ञों ने विचार किया है, परन्तु अब तक कोई निश्चित तिथि पर सबका मतैक्य नहीं है। श्री कीलहार्न ने इस विषय पर बड़े परिश्रम के साथ विचार किया<sup>१</sup>। उन्होंने मिथिला की छः पुरानी पाण्डुलिपियों के आधार पर यह विचार दिया कि लक्ष्मण सम्वत् को १०४१ श्राके या १११६ ईस्वी सन् में प्रथम प्रचलित मानने से पाण्डुलिपियों में अंकित

तिथियाँ प्रायः ठीक बैठ जाती हैं। छः पाण्डुलिपियों में एक को छोड़ कर बाकी की तिथियों में कोई गड़बड़ी नहीं मालूम होती। पश्चात् श्री जायसवाल ने डेढ़ दर्जन के लगभग प्राचीन मैथिल पाण्डुलिपियों की जाँच करके यह मत दिया कि लक्ष्मण सेन सम्वत् मे १११६ जोड़ने पर हम तत्कालीन ईस्वी साल का पता लगा सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ऊपर की संख्या केवल कर्णाट या ओइनीवार वश तक के ऐतिहासिक कागज-पत्रों की तिथियों के लिए ही सही है बाद की ऐतिहासिक तिथियों की जानकारी के लिए उक्त संख्या में क्रमशः दो वर्ष कम कर देना होगा यानी जायसवाल के मत से १५३० ईस्वी के पहले की तिथियों के लिए लक्ष्मण सम्वत् मे १११६ जोड़ने से तत्कालीन ईस्वी सन् का पता लगेगा परन्तु बाद की तिथियों के लिए ११०८-६ जोड़ना आवश्यक होगा।<sup>१</sup> बहुत से विद्वान लक्ष्मण सम्वत् का प्रारम्भ ११०६ में ही मानते हैं। इस तरह ११०६ से १११६ तक के काल में अनिश्चित ढग से कभी लक्ष्मण सम्वत् का प्रारम्भ बताया जाता है। ऐसी स्थिति में २५२ लक्ष्मण यानी राजा गणेश्वर की मृत्यु का वर्ष १३५८ ईस्वी से १३७१ के बीच में पड़ेगा।

दूसरी ऐतिहासिक घटना इब्राहिम शाह की मदद से तिरहुत का उद्धार है। जौनपुर में इब्राहिम शाह नाम का मुसलमान शासक अवश्य था और उसका राज्य काल भी निश्चित है। १४०२ ईस्वी में इब्राहिम शाह गद्दी पर बैठा। तभी कीर्तिसिंह के आवेदन पर वह तिरहुत में असलान को दण्ड देने गया होगा। अतः इब्राहिम शाह के तिरहुत जाने का समय १४०२ ईस्वी के पहले नहीं हो सकता, यह ध्रुव सत्य है।

ज्यादा से ज्यादा १३७१ में गणेश्वर राय की मृत्यु और उसके ३१ वर्ष के बाद इब्राहिम शाह का मिथिला आगमन बहुत से विद्वानों को खटकता है। इसलिए इस व्यवधान को समाप्त करने के लिए कई तरह के अनुमान लगाए जाते हैं।

सबसे पहले डा० जायसवाल को यह व्यवधान खटका और उन्होंने इसको दूर करने के लिए एक नया उपाय निकाला। कीर्तिलता में २५२ लक्ष्मण सम्वत् की सूचना देने वाला पद्य निम्न प्रकार है।

लवखन सेन नरैस लिहिअ जबे पख पञ्च वे (की०२।४)

महामहोपाध्याय प० हर प्रसाद शास्त्री ने इसका अर्थ किया था कि जब लक्ष्मण

सेन का २५२ लिखित हुआ । जायसवाल ने इसे ठीक नहीं माना और उन्होंने 'ज बे' का अर्थ ५२ किया और इसे २५२ में जोड़कर इस वर्ष की संख्या ३०४ लक्ष्मण सेन ठीक किया अर्थात् १४२३ ईस्वी ।<sup>१</sup>

'ज बे' स्पष्टरूप से समय सूचक क्रियाविशेषण अव्यय है, इसे खीच-तान करके वर्ष-गणना का माध्यम बनाना उचित नहीं जान पड़ता । वस्तुतः जो समय व्यवधान जायसवाल को खटक रहा था, वह सत्य था और ३१ वर्ष के बाद ही इब्राहिम शाह तिरहुत आया, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं मालूम होती । उल्टे जायसवाल जी की नई गणना से कई ऐतिहासिक भ्रान्तियाँ खड़ी हो जाती हैं । उन्हीं के बताए काल को सही मानें तो राजा कीर्तिसिंह १४२३ या २४ ईस्वी में गद्दी पर बैठे होंगे । ऐतिहासिकता यह है कि राजा शिवसिंह को २६१ लक्ष्मण सम्वत् में राजाधिराज कहा गया है । यदि गणेश्वर ३०४ लक्ष्मण सम्वत् में मरे, जब कि वे स्वयं राजाधिराज थे, तो शिवसिंह का उनके पहले राजाधिराज हो जाना असत्य हो जाता है ।

इधर समय के इस व्यवधान पर डा० सुभद्र भा ने भी गंभीरता से विचार किया है ।<sup>२</sup> उन्होंने डा० जायसवाल के मत को ठीक नहीं माना है और लक्ष्मण सम्वत् २५२ में राजा गणेश्वर की मृत्यु स्वीकार किया है । परन्तु उन्होंने कहा है मृत्यु के बाद ही कीर्तिसिंह अपने भाई के साथ अपने पिता के शत्रु से बदला लेने के लिए इब्राहिम शाह के पास गए । चूंकि जौनपुर में इब्राहिम शाह नामक कोई शासक १४०२ के पहले नहीं हुआ इसलिए डा० सुभद्र भा ने माना है कि कीर्ति सिंह जौनपुर नहीं जोनापुर गए जो लिपिकार की शालती से जोहनिपुर के स्थान पर लिख गया है । उन्होंने जार्ज ग्रियर्सन की रचना [टेस्ट आव् मैन्, टेल्स न० २-४१] में प्रयुक्त 'योगिनीपुर को' जिसे ग्रियर्सन से पुरानी दिल्ली कहा है, जोनापुर का सहीरूप बताया है । डा० सुभद्र भा को योगिनीपुर के पक्ष में कीर्तिलता से ही प्रमाण भी मिल गया ।

पेब्लिअउ पट्टन चार मेखल जजोन नीर पखारिआ (की० २७६) श्री भा का कहना है कि इस पंक्ति में 'जजोन' शब्द का अर्थ यमुना है । विद्यापति के पदों में 'जजुन' और 'जजुनि' दो शब्द मिलते हैं जिनका अर्थ यमुना

१. जायसवाल, दि जर्नल आव् विहार एण्ड उकीसा रिसर्च सोसाइटी भाग १३, पृ० २६६ ।

२ सुभद्र भा, सांगस आव् विद्यापति, भूमिका, पृष्ठ० ४१-४३ ।

है। ऐसी स्थिति में उक्त पक्ति का अर्थ होगा—“नगर, जो यमुना के जल से प्रक्षालित था, सुन्दर मेखला की तरह मालूम होता था।” तय है कि ऐसी अवस्था में यह शहर जौनपुर नहीं हो सकता। यह अवश्य दिल्ली था किन्तु दिल्ली में डा० भा को उस समय के किसी इब्राहिमशाह का पता नही चला इसलिए उनका कहना है कि इब्राहिमशाह अवश्य फीरोज़ तुगलक का कोई अप्रसिद्ध सेनापति रहा होगा। फीरोज़शाह और भोगोश्वर का सम्बन्ध भी यहाँ एक प्रमाण हो सकता है (कीर्ति०) किन्तु कीर्तिसिंह ने कीर्तिलता में कई जगह इब्राहिमशाह को ‘बादशाह’ या ‘सुल्तान’ कहा है, फिर एक अप्रसिद्ध सेनापति को ऐसा कहना ठीक नहीं मालूम होता। इस कठिनाई को श्री भा ने दूर कर दिया है। उनका कहना है कि आदर के लिए ऐसा कहा जा सकता है। जैसा मिथिला में राजा के भाई, या राजघराने के किसी व्यक्ति को ‘राजाधिराज’ कह दिया जाता है।

इस तरह भा के मत से जोनापुर, योगिनीपुर (पुरानी दिल्ली) था जो जजोन (यमुना) के नीर से प्राक्षालित था और जहाँ फीरोज़शाह बादशाह था जिसका सेनापति कोई अप्रसिद्ध इब्राहिमशाह था जिसे कीर्ति सिंह आदर के लिए बादशाह भी कहा करते थे।

इस दूरारूढ़ कल्पना के लिए डा० सुभद्र भा के पास दो आधार हैं। पहला प्रियर्सन के टेस्ट आर्वू मैन की दो कहानियों में आया योगिनीपुर शब्द जिसे उन्होंने पुरानी दिल्ली का कथा कहानियों में आने वाला नाम या कुछ ऐसा ही कहा होगा। अगर मान भी लें कि यह योगिनीपुर दिल्ली का ही उस समय का नाम है तो फिर इसका ‘जोनापुर’ हो जाना अवश्य कठिन है।

अब रहा शब्द ‘जजोन’ जिसे डा० भा ने यमुना कहा है। प्राकृत में यमुना का ‘जउंणा’ हो जाता है [प्राकृत व्याकरण ४।१।१७८] इसलिए ‘जजोन’ हो सकना नितान्त असम्भव तो नहीं है। पर देखना होगा कि वस्तुतः यह शब्द है क्या? कीर्तिलता में एक पक्ति आती है:—

फरमान भेलि, कजोण साहि (३।२०)

यहाँ ‘कजोण’ का अर्थ है कौन। जिसका अपभ्रंश में कवण रूप मिलता है। कीर्तिलता में ही कवण (१।१३) कमण-(२।२५३) रूप मिलते हैं। यह कजोन < कवण < कः पुनः का विकसित रूप है।

इसी तरह ‘जजोन’ जिसका अर्थ है जौन यानी जो। ‘जवन’ का प्रयोग



तो आज भी पूर्वी हिन्दी में पाया जाता है। कवय कन्नोन की तरह ही जवण, जजोन रूप भी मिलते हैं। ऐसा ही एक शब्द और है।

जेजोन दरबार मेजोणे ( २/२३६ ) यानी जिस दरबार में। बाबू राम सक्सेना ने इसकी व्युत्पत्ति ( जेजोन/जेमुना ) से की है।

इस तरह हमने देखा कि यहाँ जेजोन का अर्थ यमुना नदी नहीं है। 'ख' प्रति में तो स्पष्टतः जौन लिखा हुआ है।

इब्राहिम शाह की जैसी निराधार कल्पना डा० सुभद्र भा ने की है, वह तो हास्यापद कोटि तक पहुँच जाती है। कीर्तिलता में जिस इब्राहिम शाह का जिक्र है वह जौनपुर ( उत्तर प्रदेश ) का प्रसिद्ध इब्राहिम शाह ही था। राजा गणेश्वर की मृत्यु १३७१ ई० में हुई और कीर्तिसिंह इब्राहिम शाह को १४०२ ई० में तिरहुति ले आए, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। ३१ वर्ष के मध्यान्तरित समय में कीर्तिसिंह कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि वे उस समय काफी छोटे रहे होंगे, और फिर कुछ कर सकने के लिए अवसर की भी अपेक्षा होती है। उस समय की मिथिला के विषय में विद्यापति ने लिखा है कि चारों ओर अराजकता फैली थी, ठाकुर ठग हो गए, चोरों ने घरों पर कब्जा कर लिया। भृत्यों ने स्वामियों को पकड़ लिया, धर्म नष्ट हो गए, काम धंधे ठप्प हो गए, जाति-अजाति में शादियाँ होने लगी, कोई काव्य रस का समझने वाला न रहा कवि लोग भीखारी होकर इधर-उधर घूमते रहे। जाहिर है ऐसी अवस्था तुरन्त नहीं हो जाती। इस तरह के सांस्कृतिक विनिपात में कुछ समय लगता ही है। इस तरह की सस्कार-हीनता एक साल में ही नहीं हो जाती, तय है कि इस प्रकार तिरहुत से गुणों के तिरोहित होने में कुछ समय लगाहोगा

अकबर रस बुज्जनिहार नहिँ कवि कुल भमि भिक्खारि भउँ  
तिरहुति तिरोहित सब्ब गुण्ये रा' गण्येस जब सग्ग गउँ

( २/१४-१५ )

विद्यापति भी उस समय छोटे रहे होंगे, जौनपुर के वर्णन से लगता है कि विद्यापति ने भी नगर देखा था, सभवतः राजा के साथ गए हों, क्योंकि जौनपुर का ऐसा विम्बपूर्ण चित्रण बिना चाक्षुष प्रत्यक्ष के संभव नहीं है। ये सब दस-ग्यारह वर्ष के विद्यापति से तो कभी संभव नहीं हो सकता। मेरा अनुमान है कि उस समय विद्यापति की अवस्था तीस-पैंतीस के आस पास रही होगी, इसी से मैंने पहले ही कहा कि कीर्तिलता को प्रथम रचना मानना ठीक नहीं है।

इस दिशा में 'सर्च रिपोर्टों' के अनुशीलन के समय मुझे लखन सेनि कवि की कुछ पंक्तियाँ दिखाई पड़ीं। लखनसेनि कवि का रचना काल १४८१ सम्वत् दिया हुआ है यानी १४२४ ईस्वी, रचनाकार जौनपुर के बादशाह इब्राहिम शाह का समकालीन है, और उसने बादशाह के प्रताप की प्रशंसा भी की है, यही नहीं तत्कालीन भारत की अवस्था का जो चित्रण लखनसेनि ने खींचा है वह आश्चर्य-जनक रूप से विद्यापति के वर्णन से मेल खाता है।

बादशाह जे वीराहिमसाही, राज करइ महि मंडल माही  
आपुन महावली पुहुमी धावै, जउनपुर मँह छत्र चलावै  
सम्वत चौदह सइ एककासी, लखनसेनि कवि कथा प्रगासी  
'जउनपुर' के इब्राहिम शाह का काल १४२४ ईस्वी तक तो था ही। इसी के साथ लखन सेनि कुछ और महत्वपूर्ण व्यक्तियों का जिक्र करता है।

जैदेव चले सर्ग की बाटा औ गए घघ सुरपति भाटा  
नगर नरिंद्र जे गए उनारी वीद्यापति कइ गए लाचारी  
इन पंक्तियों से लगता है कि १४२४ ईस्वी तक विद्यापति का शायद स्वर्गवास हो गया था क्योंकि उनका नाम जयदेव और घाघ के साथ ही कवि ने लिया है और जयदेव को तो स्पष्ट ही 'स्वर्ग की वाट' गए लिखा है। किन्तु इस तिथिकाल को विद्यापति का अन्तिम समय मानने में कठिनाई दिखाई पड़ती है। फिर भी यह एक विचारणीय सवाल तो है ही। वैसे कहा जाता है विद्यापति ने लक्ष्मण सम्वत् २६६ यानी १४१८ ईस्वी में राजा पौरादित्य के 'लिखनावली का निर्माण किया और यहीं ३०६ लक्ष्मण सम्वत् यानी १४२८ ई० में भागवत की एक प्रति लिखना समाप्त किया। यही ईस्वी सन को १११६ जोड़कर निश्चित किया गया है। और इस तरह लखनसेनि का १४२४ वाला काल ठीक नहीं बैठता। विद्वानों ने इस दिशा में कई प्रकार के प्रमाणों के आधार पर विचार किया है, इसी दिशा में मैं एक प्रमाण लखनसेनि का भी प्रस्तुत करता हूँ, अस्तु।<sup>१</sup>

१. लखनसेनि की रचना हरिचरित्र विराट पर्व का वर्णन ११४४-४६ की सर्च रिपोर्ट ( नागरो-प्रचारी सभा, अप्रकाशित ) में दिया हुआ है। रिपोर्ट का अंश नागरी प्रचारिणी पत्रिका में छपा भी है।

## कीर्तिलता का साहित्यिक मूल्याङ्कन

मध्यकालीन कवियों में विद्यापति का व्यक्तित्व अपने ढंग का अनोखा है। विक्रम की बारहवीं शताब्दि से १६ वीं तक का चार सौ वर्षों का समय भारतीय वाङ्मय का सर्वाधिक प्रभावी और महिमा-मण्डित काल है। इन शताब्दियों के संस्कृत साहित्य में जब कि चमत्कार और कुतूहल को ही कविकर्म की इयत्ता मान लिया गया, दार्शनिक ज्ञान से आकुंठित साहित्य प्रतिभा जन धारा से विच्छिन्न होने लगी, शाब्दिक कौशल और शास्त्रों के पृष्ठ-पेषण को ज्यादा महत्त्व दिया जा रहा था, तभी अपभ्रंश एवं अन्य जन-भाषाओं में एक नवीन प्रकार के साहित्य का उदय हो रहा था जिसमें धरती के स्वरो का स्पन्दन सुनाई पड़ता था, मानवीय सुख-दुख की व्यञ्जना होती थी, और सरल-समित ढंग से मनुष्य के हृदय की बात को स्वर देने की कोशिश की जाती थी। १२वीं शताब्दी के संस्कृत साहित्य के कुछ स्वच्छन्द कवियों जयदेव आदि ने इस जन-प्रभाव को ग्रहण किया जिससे संस्कृत वाङ्मय में भी इस सौंधी गद्य की एक लहर दिखाई पड़ी। मध्यकालीन भारतीय साहित्य के अध्येता के सामने भाषा-कवियों की एक ऐसी कतार दिखाई पड़ती है जो हमारे वाङ्मय के मंच पर तो अद्वितीय है ही, विश्वसाहित्य में भी एक साथ इतने श्रेष्ठ कलाकार उत्पन्न हुए, इसमें सन्देह है। बंगाल में चण्डीदास, असम में शंकर देव, विहार में विद्यापति, मध्यदेश में कबीर, सूर और तुलसी, राजस्थान में मीराँ, गुजरात में नरसी मेहता इस साहित्य-उत्थान के प्रेरक थे। इनमें 'को बड़ छोट कहत अपराधू' सभी का व्यक्तित्व एक से एक बढ़कर आकर्षक और मोहक है; फिर भी अपनी कविता की अतीव मृदुता, जन जीवन के अन्तर्लम में सोए मधुर भावों को जगाने की क्षमता, और हजारों मनुष्यों के कंठ में कूक उत्पन्न करने की शक्ति के कारण विद्यापति का व्यक्तित्व इन सबमें सर्वाधिक रोमैटिक और गत्वर है। विद्यापति के गीतों ने तत्कालीन जनता के प्रियमाण मन को जीने की ताकत दी उन्होंने जीवन के ताजे स्वरो को पहचाना और उन्हें अपनी मधुरा भाव धारा में पखार कर दिव्यता प्रदान की।

कीर्तिलता भी विद्यापति की ही कृति है। किन्तु गीतों के रस में पगा पाठक एक बार तो शायद यह विश्वास भी न कर सकेगा कि 'कीर्तिलता' को

गीतकार विद्यापति ने ही लिखा है। किन्तु 'अवहट्ट' की हठीली शब्द-योजना के भीतर प्रवेश करने पर किसी भी महृदय को 'गीतों के गायक' को पहचान सकना कठिन न होगा। जीवन की समष्टि और समग्रता कल्पना के एक क्षण की तुलना में कठोर-क्रूर होती ही है, और कवि के लिए तो यह सहसा एक चुनौती भी है कि उसकी विधायिका शक्ति इन तमाम क्रूरता-कठोरता को कैसे अभिव्यक्ति दे पाती है। इस दृष्टि से कीर्तिलता के पाठक को एक नए तरह के रस का आस्वाद मिलेगा। इसमें जीवन की तिक्तता, कसैलापन और मिठास सभी कुछ है। विद्यापति का भावुक कवि जैसे कीर्तिलता में जीवन के वास्तविक धरातल पर उतर आया है। और यथार्थ का यह धरातल एक बार के लिए कवि के मन में भी आशका का बीजारोपण कर ही देता है : फिर भी उनके मन को विश्वास है कि चाहे असूया-वृत्ति के दुर्जन इस काव्य की निन्दा ही क्यों न करें, काव्य कला के मर्माँ इसकी अवश्य प्रशंसा करेंगे।

का परबोधजो कवण मणावजो । किमि नीरस मने रस लए लावजो ॥  
जइ सुरसा होसइ मझु भासा । जो बुझिन्ह सो करिह पसंसा ॥

महुअर बुझ्मइ कुसुम रस कव्व कलाउ छइल्ल  
सज्जन पर उअअर मन दुज्जन नाम मइल्ल

शंकर के मस्तक पर सुशोभित द्वितीया के चन्द्रमा की तरह विद्यापति की यह कृति प्रशंसित होगी, ऐसा कवि का विश्वास है और इसमें सन्देह नहीं कि उनका यह विश्वास आधार-हीन नहीं है।

## कीर्तिलता का काव्य-रूप

मध्यकाल के साहित्य में वृत्तान्त-कथन की तीन प्रमुख शैलियाँ दिखाई पड़ती हैं। पश्वर्ती संस्कृत साहित्य के चरित काव्य या ऐतिहासिक काव्यों की शैली, दूसरी कथा-आख्यायिकाओं की शैली और तीसरी प्रेमाख्यानको की मसनवी शैली जो पूर्णतः विदेशी प्रभाव से विकसित हुई थी।

संस्कृत के ऐतिहासिक काव्यों की शैली भी बहुत प्राचीन नहीं मालूम होती। विद्वानों को धारणा है कि ६वीं ७वीं शताब्दि के आस-पास मुसलमानों के सम्पर्क से इस प्रकार की शैली का उदय हुआ। यह सत्य है कि पिछले खेवे में जिस प्रकार के ऐतिहासिक काव्य लिखे गए, वैसे काव्य पूर्ववर्ती साहित्य में नहीं

मिलते किन्तु इतिहास को कल्पना और अतिशयोक्ति के आवरण में सही ही, काव्य का उपकरण अवश्य समझा जाता था। भारतीय कवि इतिहास की घटनाओं को भी अतिमानवीय परिधान दे देते थे जिससे यह निर्णय करना अत्यन्त कठिन हो जाता है कि इसमें कितना अंश इतिहास का है और कितना कल्पना का। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि इस देश में इतिहास को ठीक आधुनिक अर्थ में कभी नहीं लिया गया, बराबर ही ऐतिहासिक व्यक्ति को पौराणिक या काल्पनिक कथानायक बनाने की प्रवृत्ति रही है। युद्ध में दैवी शक्ति का आरोप कर पौराणिक बना दिया गया है जैसे राम, कृष्ण, बुद्ध आदि और कुछ में काल्पनिक रोमांस का आरोप करके निजधरी कथाओं का आश्रय बना दिया गया है—जैसे उदयन, विक्रमादित्य और हाल।

— वस्तुतः ऐतिहासिक काव्यों का उदय सामन्तवाद की देन है। भारत में भी ईसा की दूसरी शताब्दि से ही राजस्तुति परक रचनाओं का निर्माण शुरू हो गया था। मैक्समूलर ने ईसा की पहली से तीसरी तक के काल को अघेरा युग कहा है क्योंकि उनको इन शताब्दियों में अच्छे काव्य का अभाव दिखाई पड़ा। मैक्समूलर के मत के विरोध में डाक्टर व्यूलर ने कहा कि इस काल में अत्यन्त सुन्दर स्तुति काव्यों की रचना होती थी, अभाग्यवश हमें कोई वैसा काव्य नहीं मिल सका है किन्तु शक क्षत्रप रुद्रदामन् का गिरनार का शिलालेख (ई० १५०), कविवर हरिषेण की लिखी प्रशस्ति ( समुद्रगुप्त ३५० ई० ) जिसमें समुद्रगुप्त के दिग्विजय का बड़ा ही ओजस्वी वर्णन किया गया है तथा ईस्वी सन् ४७३ ईस्वी में लिखी वत्सभट्टि की मन्दसोर की प्रशस्ति इस प्रकार की स्तुतिपरक ऐतिहासिक रचनाओं की ओर संकेत करती हैं। कवि वत्सभट्टि ने चालीस श्लोकों में जो मनोरम प्रशस्ति प्रस्तुत की है वह महत्वपूर्ण लघु काव्य है, जिसमें भाव, भाषा सभी कुछ उत्कृष्ट रूप में दिखाई पड़ते हैं। फिर भी इतना तो सत्य है कि वाणभट्ट के हर्षचरित के पहले इस प्रकार के स्तुतिपरक ऐतिहासिक काव्यों का कोई सन्धान नहीं मिलता। हर्ष चरित को भी वास्तविक अर्थ में काव्य नहीं कह सकते, यह आख्यायिका है। संस्कृत का सबसे पहला ऐतिहासिक काव्य पद्मगुप्त परिमल का लिखा नवसाहस्राब्दचरित ( १००५ ई० ) है जिसमें धारानरेश भोजराज के पिता सिन्धुराज और शशिप्रभा नामक राजकुमारी के विवाह की कथा वर्णित है। चालुक्य वशी नरेन्द्र विक्रमादित्य षष्ठ ( १०७६—११२७ ई० ) के सभा कवि विल्हण ने 'विक्रमाङ्कदेवचरित' में अपने आश्रयदाता के चरित्र तथा उसके वंश का वर्णन किया है। इसके बाद तो ऐतिहासिक काव्यों की एक परम्परा

ही चल पड़ी और चरित्र, विजय, विलास आदि नामों से कई ऐतिहासिक काव्य लिखे गए जिनमें कल्हण की राजतरंगिणी ( १०५० ई० ), हेमचन्द्र का कुमारपाल चरित ( १०८६ ई० ११७३ ई० ) वस्तुपाल के सभा कवि सोमेश्वर की ( कीर्ति कौमुदी ११७६-१२६२ ) अरिसिंह का सुकृत सकीर्तन ( वस्तुपाल ) आदि महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं। दो सौ वर्ष पीछे चन्द्रसूरि ने चौदह सगों में 'हम्मिरमहाकाव्य' लिखा तथा १६वीं शताब्दि के अन्तिम भाग में अकबर के सामन्त राजा सुरजन की प्रशंसा में गौड़देशीय कवि चन्द्रशेखर ने 'सुरजन चरित' की रचना की। इसी तरह विजयनगर के नरेशों की प्रशंसा में राजनाथ डिंडिम ने 'अच्युतरायाम्बुदय', तथा कम्पराय की रानी गगादेवी ने अपने पति की प्रशंसा में 'मधुराविजय' का प्रणयन किया। जयानक का लिखा 'पृथ्वीराज विजय' की भी एक अधूरी प्रति मिली है जो ओम्ना जी द्वारा सम्पादित होकर अजमेर से प्रकाशित हुई है।

संस्कृत के ऐतिहासिक काव्यों की यह परंपरा थोड़ी-बहुत परिवर्तित रूप में प्राकृत और अपभ्रंश में भी दिखाई पड़ती है। यशोवर्मा के सभापंडित वाक्पतिराज का गडडवहो अपनी शैली के लिए अत्यन्त प्रसिद्ध रचना है। अपभ्रंश के रासो ग्रंथ भी एक प्रकार के ऐतिहासिक काव्य ही हैं यद्यपि इनमें कल्पना का रंग ज्यादा गाढ़ा है।

कीर्तिलता भी एक ऐतिहासिक काव्य है। कवि विद्यापति ने अपने आश्रय-दाता कीर्तिसिंह की कीर्ति को प्रोज्ज्वल करने के लिए इस काव्य की रचना की। यह एक चरित-काव्य है।

राय चरित्त रसाखु यहु खाह न राखहिं गोइ  
कवन वंस को राय सोकिचिसिंह को होइ

भृंगी के इस प्रश्न पर भृंग ने कीर्तिसिंह के चरित्र का उद्घाटन किया। कीर्तिलता एक छोटी सी रचना है इसलिए इसमें चरित काव्यों की तमाम प्रवृत्तियों का मिलना कठिन है। मध्यकालीन चरित काव्यों में कथानक रूढ़ियों का प्रमुख स्थान है। इस प्रकार की कथानक रूढ़ियों में एकाध ही कीर्तिलता में मिलती हैं। उदाहरण के लिए कीर्तिलता संवाद-पद्धति पर लिखी गयी है, भृंगी शंका करती है, भृंग उसका उत्तर देता है। रासो के शुक्र-गुकी संवाद की तरह यह भी संवाद है किन्तु यहाँ भृंग-भृंगी वक्ता श्रोता के रूप में ही बने रहते हैं नायक की आपद-विपद में सहायता करने के लिए दौड़ते नहीं। इस प्रकार यद्यपि

विद्यापति ने एक बहुत प्रचलित रूढ़ि का सहारा लिया है किन्तु उसे खींचकर अस्वाभाविकता की सीमा तक ले जाना स्वीकार नहीं किया।

मध्यकाल के तमाम चरित काव्यों में कीर्तिलता का स्थान इसीलिए विशिष्ट है कि लेखक ने कल्पना और अतिरजना का कम से कम सहारा लिया है। ऐतिहासिक घटनाओं की यथातथ्यता के प्रति जितना सतर्क विद्यापति दिखाई पड़ते हैं, उतना उस काल का दूसरा कोई कवि नहीं। ऐसा नहीं कि उन्होंने नायक की युद्ध-वीरता आदि के वर्णन में अतिरजना का सहारा लिया ही नहीं है, लिया है और खूब लिया है, किन्तु कथा के नियोग में अस्वाभाविक घटनाओं का कहीं भी समावेश नहीं किया गया है। केवल रूढ़ियों के निर्वाह के लिए या पाठकों को कथा-रस का आनन्द देने के लिए अत्रान्तर घटनाओं, प्रेम-व्यापार, भूत-परियों, आदि को इसमें कहीं भी स्थान नहीं है। चरित-काव्यों की तरह इसमें भी आरंभ में सज्जन-प्रशंसा और खल-निन्दा के रूप कुछ पक्तियाँ दी गई हैं।

सुअरण पर्ससइ कव्व मरु दुज्जन बोलइ मन्द  
अवसओ विसहर विस बमइ अमिअ विमुक्कइ चन्द

सज्जन पुरुष चन्द्रमा की तरह हैं जो अमृत-वर्षण करते हैं किन्तु खल तो विषधर है उनका काम ही विष-वमन करना है; किन्तु

वालचन्द विद्यावइ भासा  
दुहु नहि लग्गइ दुज्जन हासा  
ओ परमेसर हर सिर सोहइ  
ई णिचइ नाअर मन मोहइ

कवि को अपनी प्रतिभा पर अटूट विश्वास है, वह जानता है कि द्वितीया के के निष्कलक चन्द्रमा पर दुर्जन का उपहास नहीं लग सकता वह तो शंकर के मस्तक पर सुशोभित होगा ही।

खल निन्दा और सज्जन-प्रशंसा आदि की पगिपाटी पूर्ववर्ती काव्यों में तो है ही तुलसी के मानस आदि परवर्ती काव्यों में भी दिखाई पड़ती है। चरित काव्यों में मुख्य रूप से आखेट, प्रेम और युद्ध का वर्णन होता है। कीर्तिलता में अधिकांश युद्ध या युद्ध के लिए उद्योग का ही वर्णन हुआ है। द्विवेदी जी का अनुमान है कि सभततः कीर्ति पताका में प्रेम-आखेट आदि का वर्णन हुआ हो। उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, यद्यपि पुस्तक में कुछ प्रारंभिक पन्ने जो

प्राप्त हैं इसी बात की ओर संकेत करते हैं। उनमें युद्ध की भूमिका नहीं शान्ति की भूमिका दिखाई पड़ती है।

मध्यकालीन साहित्य में वृत्तान्त-कथन की दूसरी शैली कहानी या आख्यायिका की है। कीर्तिलता को लेखक ने 'कहानी' कहा है।

पुरिस कहाणी हजो कहजो जसु पथावे पुत्र

सुख सुभोजन सुभवञ्जण देवहा जाइ सपुत्र

मैं उस पुरुष की कहानी कहता हूँ जिसके प्रस्ताव से पुण्य होता है, सुख, सुभोजन शुभ वचन और स्वर्ग की प्राप्ति होती है।

लेखक ने इसे कहानी ही नहीं कहा है बल्कि आख्यानो के अन्त में दिये महात्म्य की तरह इस कहानी के सुनने के फायदे भी बताए हैं।

आजकल कथा, कहानी, आख्यायिका का प्रयोग हम सदृशार्थक शब्दों की तरह करते हैं। किन्तु मध्यकाल में इनके अर्थ में अन्तर था। कथा शब्द का प्रयोग प्राचीन साहित्य में अलङ्कृत काव्य-रूप के लिए भी होता था। वैसे कोई भी कहानी या सरस वृत्तान्त कथा है, किन्तु इस शब्द के अन्दर एक खास प्रकार के काव्य-रूप का भी अर्थ नियोजित मालूम होता है। काव्यालंकार के रचयिता भामह ने सरस गद्य में लिखी हुई कहानी को आख्यायिका कहा है। भामह ने यह भी कहा कि आख्यायिका के दो प्रकार होते हैं, आख्यायिका और कथा। आख्यायिका गद्य में होती थी और इसे नायक स्वयं कहता था जब कि कथा को कोई भी कह सकता था। आख्यायिका उच्छ्वासों में विभक्त होती थी और उसमें वक्त्र और उपवक्त्र छन्द होते थे किन्तु कथा में इस तरह का कोई नियम न था।

अपादः पादसन्तानो गद्यमाख्यायिका कथा

इति तस्य प्रभेदौ द्वौ तयोराख्यायिका किल

नायकेनैव वाच्यान्या नायकेनेतरेण वा

स्वगुणाविष्किया दोषो नात्र भूतार्थशंसिनः

अपिलुनियमो दृष्टस्तत्राप्यन्यैरुदीरणात्

अन्यो वक्ता स्वयं वेति कीदृग्वा भेदलक्षणम्

वक्त्रं चापरवक्त्रं च सोच्छ्वासं चापि भेदकम्

त्रिह्यमाख्यायिकाश्चेत् प्रसंगेन कथास्वपि

( काव्यादर्श १-२३-२८ )

संस्कृत के आचार्यों की दृष्टि से आख्यायिका और कथा गद्य में लिखी जानी चाहिए किन्तु अपभ्रंश या प्राकृत में इस तरह का कोई बन्धन न था। इसी से



संस्कृतेतर इन भाषाओं में कथायें प्रायः पद्य में लिखी ही मिलती हैं। इन कथाओं को चरित काव्य भी कहा गया है। अपभ्रंश भाषा के चरित काव्यों में गद्य का एक प्रकार से अभाव दिखाई पड़ता है। कुछ ग्रंथ अरवश्य इसके अपवाद भी हैं। संभव है कि संस्कृत की पद्धति पर कुछ लोगोंने पद्य-गद्य दोनों में अर्थात् चम्पू काव्य में कथाएँ लिखीं।

जो हो प्रचलित चरित काव्यों से कीर्तिलता इस अर्थ में थोड़ी भिन्न है और उसमें गद्य-पद्य दोनों का प्रयोग हुआ है। और कथा काव्य की तरह विद्यापति ने भी इस रचना के गद्य खण्डों को भी काफी सरस और अलंकृत बनाने का प्रयत्न किया है। कथा काव्यों में राज्यलाभ, कन्याहरण, गन्धर्व विवाहों की प्रधानता रहती है, किन्तु कीर्तिलता में केवल राज्यलाभ का ही वृत्तान्त दिया गया है। इस तरह कीर्तिलता में कथा-काव्य के कई लक्षण नहीं भी मिलते। इसी आधार पर द्विवेदी जी का कहना है कि विद्यापति ने जान बूझ कर कीर्तिलता को कथा न कहकर 'कहाणी' कहा है।

इस प्रकार हमने देखा कि एक ओर कीर्तिलता मध्यकालीन चरितकाव्यों या ऐतिहासिक किंवा अर्ध ऐतिहासिक काव्यों की परम्परा में गिनी जाती है दूसरी ओर इसमें 'कथा' का भी रूप न्यूनाधिक रूप में पाया जाता है। वस्तुतः कीर्तिलता में मध्यकालीन काव्यों की कई विशेषताएँ, नगर वर्णन, युद्ध वर्णन आदि के प्रसंग में दिखाई पड़ती हैं, कवि ने समयानुकूल इसमें वर्णन की दृष्टि से छन्दों का भी उचित प्रयोग किया है, साथ ही अपभ्रंश भाषाओं की रुढ़ियाँ, कवि-समय आदि इसमें सहज रूप से प्राप्त होते हैं।

कीर्तिलता काव्य जैसा कहा गया कीर्तिसिंह के जीवन के एक हिस्से यानी युद्ध और राज्यलाभ के प्रसंगों को लेकर लिखा गया है। लक्ष्मण सम्बत् २५२ में (ईस्वी सन् १३७१ के आस पास) राजलोभी मलिक असलान से तिरहुत के राजा गणेश्वर का धोखे में बंध कर दिया। राजा के बंध से तिरहुत की हालत अत्यन्त खराब हो गई। चारों ओर अराजकता फैल गई। कवि ने इस अवस्था का बहुत ही यथार्थ चित्रण उपस्थित किया है।

ठाकुर ठक भए गेल चोरे चप्परि घर लिज्जिअ  
दास गोसांनिनि गहिअ धम्म गए धन्ध निमज्जिअ  
खले सज्जन परभविअ कोइ नहिं होइ विचारक  
जाति अजाति विवाह अधम उत्तम काँ पारक

अखर रस बुक्कभनिहार नहिं कइकुल भमि भिक्खारि भउँ  
तिरहुत्ति तिरोहित सब्ब गुण्ये रा गण्येस जबे सम्म राउँ

राजा के बध के बाद विश्वासघाती असलान को परिताप हुआ, उसने गणेश्वर का राज्य उनके पुत्रों को दे देना चाहा किन्तु पिता के हत्यारे और अपने शत्रु द्वारा समर्पित राज्य को कीर्तिसिंह ने स्वीकार नहीं किया। वे अपने भाई वीरसिंह के साथ जौनपुर के सुल्तान इब्राहिम शाह के पास चले। बड़ी कठिनाई से, दोनों भाई जौनपुर पहुँचे। जौनपुर क्या था लक्ष्मी का विश्राम स्थान और आँखों के लिए अत्यन्त प्रिय था। कवि विद्यापति ने जौनपुर का बड़ा ही भव्य वर्णन किया है। बाग-बगीचे, मकान, रास्ते, रहटबाट, पुष्करिणी, संक्रम, सोपान, और हजारों श्वेत ध्वजों से मण्डित स्वर्ण कलश वाले शिवालियों के विशद वर्णन से कवि ने नगर को साकार रूप दे दिया है। यही नहीं, उन्होंने नगर की बारीक-बारीक बातों का व्योरेवार वर्णन उपस्थित किया है। गलियों में कर्पूर, कुंकुम, सौगन्धिक, चामर, कज्जल आदि बेचने वालों के साथ ही कास्य के व्यापारियों की वीथी जो बर्तन गढ़ने की 'क्रोकार' ध्वनि से गूँजती रहती थी जिसके साथ और भी मछुहटा, पनहटा आदि बाजार के हिस्सों का सूक्ष्म चित्रण हुआ है। नगर के चौड़े चौड़े रास्तों का जनसंमर्दन लगता था जैसे मर्यादा छोड़कर समुद्र उमड़ पड़ा हो।

नगर का वर्णन विद्यापति की सूक्ष्म दृष्टि का परिचायक है। तल्पश्चात् विद्यापति ने मुसलमानों के रहन-सहन का बड़ा ही यथार्थ चित्रण किया है। उनकी आँख के सामने से कोई भी चीज छूट कर बच नहीं सकी। विद्यापति के मन में इनके प्रति सहज विरक्ति है, इनके वर्णन में भी कहीं कहीं उनके मनका क्षोभ व्यक्त हो जाता है। खासतौर से उनकी गन्दी आदतें, शराब, कबाब, प्याज का उन्होंने थोड़ा घृणा-युक्त वर्णन किया है। विद्यापति के शब्दों में एक राजकर्मचारी तुर्क का स्वरूप देखिए :

अति गह सुमर षोदाए खाए ले भँगि क गुणडा  
बिनु कारणहि कोहाए वएन तातल तम कुणडा  
नुरक तोषारहिं चलल हाट भमि हेडा चाहइ  
आढी दीठि निहार दवलि दाढी थुक वाहइ

अंक्तिम पंक्तियों में तो तुर्क की उन्होने दुर्दशा ही कर दी है जो घोड़े पर सवार होकर बाजार में घूम कर हेडा (कर या गोस्त) मागता है, क्रुद्ध दृष्टि से देखकर दौड़ता है तो उसकी दाढ़ी से थूक बहने लगता है।

उस प्रकार के क्रूर शासनकाल में एक संस्कारी हिन्दू के मन की ग्लानि का स्वरूप देखिए :

धरि आनए वाभन बटुआ, मथा चढावए गाइक चुडुवा  
फोट चाट जनेऊ तोर, उपर चढावए चाह घोर  
धोआ उरिधाने मदिरा साँध, देउर भाँगि मसीद बाँध  
गोरि गोमर पुरिल मही, पपरहु देना एक ठाम नहीं  
हिन्दुहिँ गोष्ट्रो गिलिए हल तुस्क देखि होए भान  
अइसेओ जसु परतापे रह चिर जीवतु सुलतान

वाभन-बटुक को पकड़कर लाता है और उसके माथे पर गाय का शुरुवा रख देता है। चन्दन का तिलक चाट जाता है, माथे पर घोड़ा चढा देना चाहता है। धोए नीवार-धान से मदिरा बनाता है और देवालय तोड़कर मस्जिद खड़ा करता है। कब्रों और कसाइयों से धरती पट गई है, पैर देने की भी जगह नहीं। तुकों को देखने से लगता था कि हिन्दुओं का पूरा का पूरा चबा जायेंगे—फिर भी जिस सुलतान के प्रताप में ऐसा होता था, वे चिरजीवी हो।

जिस सुलतान के पास विद्यापति के आश्रयदाता कीर्तिसिंह सहायता माँगने गए थे, इसी सुलतान के राज्य में यह सब कुछ होता था। लखनसेन ने भी तत्कालीन परिस्थिति का बड़ा मजदर वर्णन किया है।

भौंदु महंथ जे लागे काना, काज छौँडि अकाजै जाना  
कपटी लोग सब भे धरमाधी, पोट वइदि नहीं चीन्हे वियाधी  
कुंजर बाँधे भूखन मरई, आदर सो पर सेइ चराई  
चंदन काटि करील जे लावा, आँव काटि बबूर वोआवा  
कोकिल हंस मँजारहि मारी, बहुत जतन कागहि प्रतिपाली  
सारीव पंख उपादि पालै तमचुर जग संसार  
लखनसेनि ताहने बसे कादि जो खाँहि उधार

(इब्राहिमशाह का समय, लखनसेनि, हरिचरित्र विराटपर्व अप्रकाशित);  
गणेश्वर की मृत्यु हो जाने पर विद्यापति ने भी ऐसा ही वर्णन किया है। लखनसेनि भी अन्त में अपना दोष रोक नहीं पाता। कहता है कि सारिकाओं की पोंखें उखाड़ते हैं और घरों में सुर्गियों पालते हैं।

इब्राहिम शाह जिसके द्वार पर संसार भर के राजे प्रणिपात करते हैं और वर्षों दर्शन नहीं पाते, दोनों भाइयों पर कृपा करता है और असलान को पकड़ने के लिए सेना लेकर चलता है। किन्तु कारण वश सेना जो पूरब के लिए चली

थी पश्चिम की ओर बढ़ जाती है, उस समय दोनो राजकुमारों की दशा का बहुत ही हृदय द्रावक चित्रण कवि उपस्थित करता है।

सम्बर निरबल, किरिस तनु, अम्बर भेल पुराण  
जवन सभावहिँ निक्करुण तौ न सुमरु सुरतान  
विदेश मे ऋण भी नही मिलता, मानधनी भीख भी कैसे माँग सकता है, राजा के घर जन्म हुआ, दीनता भरे वचन भी कैसे निकलें :

सेविअ सामि निसंक भए दैव न पुरवए आस  
अहह महत्तर किंकरउँ गण्डजे गणिअ उपास  
मित्र सहायता नहीं करता, भूख के कारण भृत्यो ने साथ छोड़ दिया, घोड़ों को घास नहीं मिलती, इस तरह अत्यन्त दुःख की अवस्था मे वे दिन बिताते रहे।

किन्तु एक दिन अचानक आशा फलवती हुई, सेना को तिरहुति की ओर मुड़ने की आशा हुई। कीर्तिसिंह के साथ ही विद्यापति कवि भी आनन्द से गा उठे :

फलिअउ साहस कम्मतरु सन्नगह फरमान  
पुहुवी तासु असक्क की जसु पसन्न सुरतान  
कीर्तिसिंह के साथ सेना चली। उस समय ससार भर में कोलाहल मच गया, सेना के घोडो पर एक दृष्टि डालिए :

अनेक वाजि तेजि-ताजि .साजि साजि आनिआ  
परक्कमोहि जासु नाम दीप-दीपे जानिआ  
विसाल कन्ध, चारु वन्ध, सत्तिरुअ सोहणा  
तलप्य हार्थि लॉधि जाथि सत्तु सेण खोहणा  
सुजाति शुद्ध, कोहे कुद्ध, तोरि धाव कन्धरा  
विशुद्ध दापे, मार टापे चूरि जा वसुन्धरा

इस तरह के दर्प से परे घोड़े उस सेना मे चले, राजधानी के पास दोनो सेनाको की मुठभेड़ हो गई। तलवारों बज उठी, कीर्तिसिंह की तलवार जिघर पड़ती उधर ही रुण्ड-मुण्ड दिखाई पडते। अन्तरिक्ष मे अप्सरायें श्रम-परिहार के लिए अंचल से व्यजन कर रही थी, स्वर्ग से पारिजात सुमनों की वृष्टि हो रही थी। असलान पकड़ा गया, किन्तु कीर्तिसिंह ने उसे भागते देख जीवन-दान दे दिया। इस तरह तिरहुति का राज्य पुनः सनाथ हुआ।

इस प्रकार विद्यापति के इस काव्य मे यथार्थ एक नवीन सौन्दर्य लेकर उपस्थित हुआ है। उन्होंने एक ओर जहाँ कीर्तिसिंह के वीरता भरे व्यक्तित्व का

दर्प दर्शाया है वहीं उनकी दुरवस्था का भी चित्रण किया है। यही नहीं विद्यापति के इस कौशल के कारण कीर्तिसिंह निजंघरी कथाओं के नायकों से भिन्न कोटि के वास्तविक जीवन्त पुरुष मालूम होते हैं। विद्यापति के इस चरित्र-चित्रण की मूर्तिमत्ता की ओर सकेत करते हुए द्विवेदी जी ने लिखा है कि कवि की लेखनी चित्रकार को उस तूलिका के समान नहीं है जो छाया और आलोक के सामञ्जस्य से चित्रों को ग्राह्य बनाता है बल्कि उस शिल्पी के टॉकी के समान है जो मूर्तियों को भित्तिगात्र में उभार देता है हम उत्कीर्ण मूर्ति की ऊँचाई-नीचाई का पूरा पूरा अनुभव करते हैं।” इतना ही नहीं विद्यापति-की लेखनी में स्वार-कार का वह जादू भी है कि इन मूर्तिवत् चित्रों को सजीव कर देता है, हम वेश्या के नुपूरे की छमक के साथ ही युद्धभूमि के पटह तूर्य की गगन भेदी आवाज़ भी सुन पाते हैं। काव्य कौशल की दृष्टि से विद्यापति का कोई प्रतिमान नहीं। उनके द्वारा प्रयुक्त अलंकारों में एक सुरुचि दिखाई पड़ती है। वेश्याओं के काले काले केश में श्वेत पुष्प गुंथे हुए हैं कवि कहता है मानो मान्य लोगों के मुख चन्द्र की चन्द्रिका की अधोगति देखकर अन्धकार हँस रहा है।

तन्हि केश कुसुम वस, जनि मान्य जनक लज्जावर्णित मुखचन्द्र चन्द्रिका करी  
अधओ गति देखि अन्धकार हस । नयनाञ्जल संचारे भूलता भंग, जनि  
कज्जल कल्लोलिनी करी वीचिवित्त बड़ी बड़ी शफरी तरंग ।

वेश्याओं के वर्णन से विद्यापति के पाठकों को इतना तो स्पष्ट ही हो जाना चाहिए कि जो लोग अनवरत विद्यापति को भक्त कवि सिद्ध करने में अथक परिश्रम करते हैं वे कितने भ्रम में हैं, विद्यापति निःसन्देह शृंगार को ज्यादा तरज़ीह देते हैं। वैसे बुढ़ापे में सभी स्तुति-गान करते हैं, यह बात दूसरी है।

# कीर्तिलता

## प्रथम पल्लव

पितरूपनय मह्यन्नाकनद्याः मृगालं  
नहि तनय मृगालः किन्त्वसौ सर्पराजः  
इति रुदति गण्यशे स्मेरवक्त्रे च शम्भौ  
गिरिपतितनयायाः पातु कौतूहलं वः ॥१॥

अपि च

शशिभानु बृहद्नानुस्फुरन्त्रितय चक्षुषः ।  
बन्देऽङ्ग शम्भोः पदाम्भोजमज्ञानतिमिरद्विषः ॥२॥  
द्वाः सर्वार्थसमागमस्य रसनारङ्गस्थलीनर्तकी  
तत्त्वालोकिनकञ्जलध्वजशिखा वैदग्धविश्रामभूः  
शृङ्गारादिरसप्रसादलहरी स्वर्लोक्कल्खोलिनी  
कल्पान्तेस्थिरकीर्तिसंभ्रमसखी सा भरती पातु वः ॥३॥  
गोहे गोहे कलौ कान्यं श्रोता तस्य पुरे पुरे ।  
देशे देशे रसज्ञाता दाता जगति दुर्लभः ॥४॥ ✓  
श्रोतुर्ज्ञातुर्वदन्यस्य कीर्तिसिंह महीपतेः  
करोतु कवितुः कान्य भव्यं विद्यापतिः कविः ॥५॥

दोहा

तिद्दुअन खेत्ताहिं काजि तसु किन्तिवलि पसरेइ ।  
अक्खर खंभारंभलो मञ्जो वन्धि न देइ ॥  
ते मोजे भल्लो निरूढि गण् जइसओ तइसओ कब्ब  
खल खेलाळ्खल दूसिहइ सुअण पसंसइ सब्ब  
सुअण पसंसइ कब्ब ममुदुज्जन बोलइ मन्द ॥६॥  
अवसओ विसहर विस वमइ अमिज विभुक्कइ चन्द

१. क. दातुः । वदान्य के साथ दातुः की अपेक्षा ज्ञातुः ठीक लगता है ।  
श० मे ज्ञातुः है

सज्जन चिन्तइ मनहिं मने भित्त कारिअ सब कोए  
भेअ<sup>१</sup> कहन्ता मुज्झ जइ दुज्जन वैरि ण होए

बालचन्द विजावइ भासा  
दुहु नहिं लगइ दुज्जन हासा ॥१०॥

ओ परमेसर हर सिर सोहइ  
ई शिचइ नाअर मन मोहइ

का परबोधजो कवण मणावजो  
किमि नीरस मने रस लए लावजो

जइ सुरसा होसइ मझु भासा ॥११॥  
जो बुझिह सो करिह पसंसा

महुअर बुझइ कुसुम रस कव कलाउ छइल्ल  
सज्जन पर उअर मन दुज्जन नाम मइल्ल

सकय वाणी बुहअन भावइ  
पाउअर रस को मम्म न पावइ ॥२०॥<sup>१</sup>

देसिल वअना सब जन मिठा  
तं तैसन जम्पजो अचहटा

भृंगी पुच्छइ भिंग सुन की संसारहि सार  
मानिनि जीवन मानसजो वीर पुरुस अचतार

वीर पुरुस कइ जम्मिअइ नाह न जम्पइ नाम ॥२१॥  
जइ उअरहे फुर कहसि हजो आकण्डन काम

रहुं

कित्तिल्लइ<sup>२</sup> सूर सज्जाम

धम्म पराअण हियय विपयकम्म नहु दीन जम्पइ  
सहज भाव सानन्द सुअण भुज्जइ जासु सम्पइ

रहसे<sup>३</sup> दव्व दए विस्सरइ सरो सरुअ सरीर ॥३०॥  
एरो लक्खण लक्खिअइ<sup>४</sup> पुरुष पसंसजो वीर

जदो

पुरिसत्तणेन पुरिसजो नहि पुरिसजो जम्मसरोन  
जलदानेन हु जलजो नहु जलजो पुञ्जिओ धूमो

१. क० भेदक हत्ता ।

२. शा० क० कित्तिल्लइ

सो पुरिसो जसु मानो सो पुरिसो जस्स अज्जने सत्ति  
इअरो पुरिसाआरो पुच्छ विहूना पसू होइ ॥३१॥

दोहा

सुपुरिस कहनी हौ कहउ<sup>१</sup> जसु पथावे पुन्न  
सुक्ख सुभोजन सुभवअन देवहा जाइ सुपुन्न

छपद

पुरुष हुअउं चलिराए जासु कर कन्न पसारिअ  
पुरिस हुअउं रघुतनअ जेन बले रावण मारिअ  
पुरिस भगीरथ हुअउं जेन्ने णिअ कुल उद्धरिउं ॥४०॥  
परसुराम अरु पुरिस जेन्ने रवत्तिअ खअ । करिअउं  
अरु पुरिस पसंसजो राय गुरु कित्तिसिंह गअणोस सुअ  
जे सत्तु समर सम्महि कह वप्प वैर उद्धरिअ धुअ

दोहा

राय चरित्त रसाल एहु रूणाह न राखेउ गोइ  
कवन वंस को राय सो कित्तिसिंह को होइ ॥४१॥

रड्डा

तक्कस वेद पढ तिअि  
दाने दलिअ<sup>२</sup> दारिइ परम ब्रह्म परमत्ये जुज्झइ  
बित्ते बटोरइ<sup>३</sup> कित्ति सत्ते सत्तु संगाम जुज्झइ  
ओइनी वंस पसिद्ध जग को तसु करइ ण सेव  
दुहु एकथ न पाविअइ भुअवै अरु भूदेव<sup>४</sup> ॥४२॥

जेन्हे खण्डिअ पुठव वलि कन्न

जेन्हे सरण परिहरिअ जेन्हे अत्थिजन विमन न किज्जिअ

जेइ अतत्थ न भण्णिअ जेइ न पाउं उमगा<sup>१</sup> दिज्जिअ

ता कुल केरा बड्डिपन कहवा कवन उँपाए

जज्जमिअ उप्पन्नमति कामेसर सन राए ॥४३॥

१. शा० क० पुरुष कहानी हजो । २. ख. दरै ।

३. ख. विथारै । ४. ख पायै एक भुअवै भुअदेव ।



## अथ छपद

तसु नन्दन भोगीसरात्र वर भोग पुरन्दर  
 हूअ हुआसन तेजि, कन्ति कुसुमाउँह सुन्दर  
 जाचक सिद्धि केदार दान पञ्चम बलि जानल  
 पिय सख भणि पिअरोज साह सुरतान समानल  
 पत्ताप दान सम्मान गुणै जे सब करिअउँ अप्प बस ॥६०॥  
 विथरिअ कित्ति महिमण्डलहिँ कुन्द कुसुम संकास जस

## दोहा

तासु तनअ नअ विनअ गुन गरुअराअ गएनेस  
 जेँ पढाइअ दसओ दिसि कित्ति कुसुम संदेस

## छपद

दाने गरुअ गएनेस जेन्ने<sup>१</sup> जाचक जन रञ्जिअ  
 माने गरुअ गएनेस जेन्हे रिउं बड्डिम भंजिअ ॥६१॥  
 सत्ते गरुअ गएनेस जेन्हे तुलिअओ आखण्डल  
 कित्ति गरुअ गएनेस जेन्हे धवलिअ<sup>२</sup> महिमण्डल  
 लावन्ने गरुअ गएनेस पुनु देक्खि सभासइ पञ्चसर  
 भोगीस तनअ सुपसिद्ध जग गरुअराए गएनेस वर

## अथ गद्य

तान्हि करो पुत्र युवराजन्हि मांक्<sup>३</sup> पवित्र ॥७०॥  
 अगण्येयगुणप्राम, प्रतिज्ञापदपूरणैकपरसुराम  
 मर्यादामङ्गलावास, कविताकालिदास, प्रवलरिपुवल  
 सुभटसकीर्णसमरसाहसदुर्निवार, धनुर्विद्यावैद्य  
 धनञ्जयावतार, समाचरितचन्दचूड<sup>४</sup>चरणसेव, समस्त-  
 प्रकियाविराजमान महाराजाधिराज श्रीमद्वीरसिंहदेव ॥७१॥

## दोहा

तासु कनिष्ठ गरिष्ठ गुण कित्तिसिंह भूपाल  
 मेइनि साहउ, चिर जियउ करौ धम्म परिपाल

१. क० जेन ।

२. शा० क० धरिअउँ ।

३. ख० युवराजन्ह मह ।

४. ख समासादित्य ।

गद्य

जेन्हे राजे अतुलतर विक्रम विक्रमादित्य करेओ तुलनाथे  
साहस साधि पातिसाह आराधि दुष्ट करेओ दप्प—  
चूरेओ, पितृवैर उंद्धरि साहि करो मनोरथ पूरेओ ॥५०॥  
प्रवल शत्रु वलसंघट्ट सम्मिलन सम्मदसंजात पदाघात—  
तरलतरतुरङ्गशुरशुभवसुन्धराधूलि [संभार घनान्धकार-  
श्यामसमरनिशाभिसारिकाप्राय जयलक्ष्मीकर ग्रहव्य  
करेओ । बूढन्त राज उद्धरि धरेओ ।  
प्रभुशक्ति दानशक्ति ज्ञानशक्ति तीनहु शक्तिः परीक्षा ॥५१॥  
जानलि । रूसलि विभूति पलटाए आनलि । तन्दि करो  
अहंकार सारेओ तरलतरवारिधारातरङ्गसंग्रामसमुद्र-  
फेयाप्रायथश उंद्धरि दिगन्त विश्वरेओ ।  
ईशमस्तकविलासपेशला  
भूतिभाररमणीयभूषणा ।  
कीर्तिसिंह नृप कीर्तिकामिनी  
यामिनीश्वरकला जिगीषतु ॥

इति श्री विद्यापति विरचितायां कीर्तिलतायां प्रथम पङ्खवः ।

## द्वितीय पल्लव

अथ भृङ्गी पुनः पृच्छति  
 किमि उँप्पनउँ बैरिपण किमि उद्धरिअउँ तेन  
 पुण्ण कहानी पिय कहुहु सामिअ सुनओ सुहेन  
 छपद

लक्खणसेन नरेश लिहिअ जवे पल्ल पंच वे  
 तं महुमासहि पढम पल्ल पञ्चमी कहिअजे<sup>१</sup> ॥१॥  
 रज्जलुद्ध असलान बुद्धि विक्कम वले हारल  
 पास वइसि विसवासि राए गएनेसर मारल  
 मारन्त राए रणरोल पह मेअिनि हाहा सह हुअ  
 सुरराए नएर नाएर रमनि वाम नयन पफ्फुरिअ धुअ  
 ठाकुर ठक भए गेल चोरें चप्परि घर लिअिअ ॥१०॥  
 दास गोसालु नि गहिअ धम्म गए धन्ध निमज्जिअ  
 खले सज्जन परिभविअ कोइ नहिं होइ विचारक  
 जाति अजाति विवाह अधम उत्तम काँ पारक  
 अक्खररस वुअफनिहार नहिं कइकुल भमि भिक्खारि भउँ  
 तिरहुत्ति तिरोहित सब्ब गुण्ये रा गण्येस जवे सग्गा राउँ ॥११॥

रड्डा

राए वधिअउं सन्त हुअ रोस  
 निज मनहिं मने अस् तुक्क असलान गुण्णइ<sup>२</sup>  
 मन्द करिअ हओ कम्म धम्म सुमरि निज सीस धुद्धइ<sup>३</sup>  
 एहि दिअ उद्धार के पुअ न देखओ आन  
 रज्ज सम्पणों पुनु करओ कित्तिसिह सम्मान ॥१२॥

दाहा

सिंह परक्कम मानधन वैरुद्धार सुसज्ज  
 कित्तिसिह नहु अंगवइ सत्तु समप्पिअ रज

१. ख. कहिज्जे ।

२. ख. गुण्ये । ३. ख. धुण्ये ।

रड्डा

माए जम्पइ अवरु गुरुलोए  
मन्ति मित्त सिकखवइ कबहुँ एहु नहिँ कम्म करिअइ  
कोहे रज्ज परिहरिअ बप्प बैर निज चित्त धरिअइ ॥२५॥  
लेहेन राए गएनेस गउँ सुरपुर इन्द समाज  
तुम्हे सत्तुहिँ मित्त कए भुज्जहु तिरहुत राज

गद्य

तेतुली बेला मावु मित्र महाजन्हि करो वोलन्ते  
हृदयगिरि कन्दरा निद्राण पितृवैरिकेशरी जागु  
महाराजाधिराज श्रीमत्कीर्तिसिंह देव कोपि कोपि वोलए लागु ॥३०॥  
अरे अरे लोगाहु विथा विस्मृतस्वामि शोकहु कुटिल—  
राजनीति चतुरहु भोर वअन आकण्णो करहु ।

दोहा

माता भणइ ममत्तयइ<sup>१</sup> मन्ती रज्जह नीति  
मज्झु पियारी एक्क पइ धीर पुरिस का रीति  
मानविहूना भोअना सत्तुक देवल<sup>२</sup> राज ॥३५॥  
सरन पइठ्ठे जीअना तीनु काअर काज  
जो अपमाने दुक्ख न मानइ  
दानखग्ग को मम्म न जानइ  
परउअअरे धम्म न जोअइ  
सो धन्नो निच्चित्ते सोअइ ॥४०॥  
पर पुर मारि सजो गहजो वोलए न जाए कहु धाइ  
मेरहु<sup>३</sup> जेठ गरिठ्ठ अइ मन्ति विअक्खन भाइ

दृष्यते

बप्प बैर उदरओ<sup>४</sup> न जुण परिवसणा चुक्कओ  
संगर साहस करओ न जुण सरणागत मुक्कओ

१. शा० मनत्तयइ । २. क० सत्तुक जे ल राज । ख. शत्रु के दीन्द राज ।  
३. ख. मोरहु । ४. ख प्रणि में 'इअ' लगाकर उद्धरिअ आदि रूप बनाए  
गये हैं । 'जो' का प्रयोग करके उत्तम पुरुष के रूप नहीं हैं ।

दाने दखओ दारिद्र न जुग्य नहि अक्खर भासओ ॥४५॥  
 थाने पाट वरु करओ न जुग्य निअ सत्ति पआसओ  
 अभिमान जओ रक्खओ जीव सओ नीच समाज न करओ रति  
 ते रहउँ कि जाउँ कि रज्ज मम वीरसिंह भण्य अपन मति

### रड्डा

वेधि सम्मत मिलिअ तवे एक  
 वेवि सहोदर संग वेवि पुरिस सब गुण्य विअक्खन ॥५०॥  
 चलेउ बलभइ कण्य<sup>१</sup> याँ उर्ये वनिअउँ राम लक्खन  
 राजह नन्दन पाओ चलु अइस विधाता भोर  
 ता पेखन्ते<sup>२</sup> कमन को नअण्य न लग्गइ खोर  
 लोअ छुडिअ अवरु परिवार  
 रज्ज भोग परिहरिअ वर तुरंग परिजन विमुक्किअ ॥५५॥  
 जननि पाओ पन्नविअ जन्मभूमि को मोह छोडिअ  
 धनि छोडिअ नवयोव्वना धन छोडिअओ बहुत्त  
 पातिसाइ उहेसे चलु गअन राब को पुत्त

वाली छन्द (मणवहला)

पाओ चलु दुअओ कुमर  
 हरि हरि सवे सुमर ॥६०॥  
 बहुल छाँडल पाटि पौतरे  
 वसन<sup>३</sup> पाओल आँतरे आँतरे  
 जहाँ जाइअ जेहे गाओ  
 भोगाइ राजा कवडि<sup>४</sup> नाओ  
 काहु कापल काहु घोल ॥६५॥  
 काहु सग्वल देल थोल  
 काहु पाती भेलि पैठि

१. क० शा० याँ बलभइह । २. ख० देवखन्ते ।

३. क० वसने । ख० वसल ।

४. शा० राजा कवडि नाओ । काँदी भी नहीं लगती । शास्त्री का यह अर्थ ठीक नहीं है ।

काहु सेवक लागु भैठि  
 काहु देख ऋण उघार  
 काहु करिअउ नदी क पार ॥७०॥  
 काहुओ वहल भार वोम्  
 काहु घाट कहल सोम्  
 काहु आतिथ्य विनय कर  
 कतेहु दिने वाट सन्तर

दोहा

अवसओ उहम लखि वस अवसओ साहस सिद्धि ॥७१॥  
 पुरुस विअल्लण जञ्जलइ तं तं मिलइ समिद्धि  
 तं खने पेखिअ नअर सो जोनापुर तसु नाम  
 लोअन केरा वल्लहा लच्छी के विसराम

गीतिका छन्द

पेखिअउ पट्टन चारु मेखल जमोन<sup>१</sup> नीर परवारिआ  
 पासान कुटिम भीति भीतर चूह ऊपर डारिआ ॥८०॥  
 प्रल्लविअ कुमुमिअ फलिअ उपवन चूअ चम्पक सोहिआ  
 मअरन्द पाण विसुद्ध महअर सह मानस मोहिआ  
 वकवार साकम बाँध पोरवरि नीक<sup>२</sup> नीक निकेतना  
 अति बहुत भांति विवट्टवट्टहिं भुलेओ वहडेओ चेतना  
 सोपान तोरण यंत्र जोरण जाल गाओष खंडिआ ॥८१॥  
 धत्र धवल हर घर सहस पेखिअ कनक कलशहिं मंडिआ  
 थल कमल पत्त पमान नेत्तहिं मत्तकुंजर गामिनी  
 चौहट्टवट्ट पलट्टि हेरहिं साछ साछहिं कामिनी  
 कपूर कुंकुम गन्ध चामर नअन कज्जल अंघरा  
 वेवहार मुल्लहिं वणिक विक्कण कीनि आनहिं वन्वरा ॥८२॥  
 सम्मान दान विवाह उच्छुव गीअ नाटक कव्वहीं  
 आतिथ्य विनय विवेक कौतुक समय पेखिअ सब्वहीं

१. ख० जौन । २. ख० वकवार पोरवरि बाँध साकम यीक पारि ।

पज्जटइ खेल्लइ हसइ हेरइ साथ साथहि जाइआ  
मातंग तुंग तुरंग ठटहिं उवटि वट्ट न पाइआ  
गद्य

अवरु पुनु । ताहि नगरन्हि करो परिठव ठवन्ते शतसंख्य ॥१५॥

हाट बाट भमन्ते, शाखानगर श्रंगाटक आक्रीडन्ते, गोपुर  
दकहठी,<sup>१</sup> वलभी, वीथी, अटारी, सोवारी<sup>२</sup> रहट घाट  
कौसीस प्राकार पुरविन्यास कथा कह्यो का, जनि  
दोसरी अमरावती क अवतार भा ।

अवि अवि अ । हाट करेओ प्रथम प्रवेश, अष्टधातु ॥१००॥

घटना टंकार, कसेर क पसार, कौसे क क्रयकार ।<sup>३</sup>

प्रचुर पौरजन पद संभार संभिन्न,<sup>४</sup> धनहटा, सोनहटा  
पनहटा, पक्वानहटा, मछहटा<sup>५</sup> करेओ सुख रव कथा

कहन्ते होइअ भूट, जनि गंभीर गुग्गु<sup>६</sup> शवत कञ्जोल कोलाहल  
कान भरन्ते मर्यादा छौंढि महारणव ऊँठ ॥१०५॥

मध्यान्हे करी बेला संमह साज, सकल पृथ्वीचक्र

करेओ वस्तु विकाइवा काज । मानुस क मीसि पीसि

वर आंगि आंग, ऊंगर आनक तिलक आनकाँ लाग ।

यात्राहुतह परस्त्रीक वलया भोग । ब्राह्मण क यज्ञोपवीत

चाण्डाल के आंग लूर, वेश्यान्हि करो पयोधर ॥११०॥

जती के हृदय चूर । घने सञ्जर घोल हाथि, बहुत

वापुर चूरि जाथि । आवतं विवतं रोलहो, नअर नहि नर समुद्रओ ।

छपद

वहुले भौंति वणिजार हाट हिंण्डण जवे आवथि

खने एक सवे विकणथि सवे किञ्चु किनइते पावथि

सब दिस पसरु पसार रूप जोवण गुण्ये आगरि ॥११५॥

१. ख० वहरी । २. ख० सोवरी । शा० ओवारी ।

३. क० शा०, कसेरी पसरौ कास्य क्रोडार । ४. क० समहार समहीन ।

५. मछहटा के बाद ख प्रतिमें दमहटा, कपरहटा और सबुणहटा भी  
मिलता है ।

वानिनि वीथी मॉडि वइस सए सहसहि नारारि  
सम्भाषण किछु वेआज कइ तासचो कहिनी सब्ब कह  
विक्कणइ वेसाहइ अप्प सुखे डिठि कुतूहल लाभ रह  
दाहा

सब्बउं केरा रिज<sup>१</sup> नयन तरुणी हेरहिं वक्क  
चोरी पेम पिआरिओ अपने दोस ससक्क ॥१२०॥

रड्डा

वहुल वंभण बहुल काअथ  
राजपुत्त कुल बहुल जाति मिलि वइस चप्परि  
सबे सुअन सबे सधन राअर राअ सवे नअर उप्परि  
जं सवे मंदिर देहली धनि पेब्लिअ सानन्द  
तसु केरा सुव मशडलहिं घरे घरे उमिगह चन्द ॥१२१॥

राद्य

एक हाट के ओर औका हाट के कोर<sup>२</sup> । राजपथ क  
सन्निधान सज्जरन्ते अनेक देषिअ वेश्यान्हि करो निवास  
जन्हि के निर्माणे विश्वकर्महु भेल बड प्रयास ।  
अवरु वैचित्री कहजो का, जन्हि के केस धूप धूम करी रेखा  
ध्रुवहु उंप्पर जा । काहु काहु अइसनो सक्क<sup>३</sup>, ओकरा काजर ॥१३०॥  
चौद कलंक । लज्ज किस्तिम, कपट तारुद्ध । धन निमित्ते  
धरु पेम; लोभे विनअ सौभाग्य कामन । विनु स्वामी  
सिन्दुर परा परिचय अपामन ।

दाहा

जं गुणमन्ता अलहना गौरव लहइ सुवंग  
वेसा मंदिर धुअ वसइ धुत्तह रूप अनंग ॥१३१॥

- 
१. ख. सब्बहु के वारिजु । श० सब्बउ के वारिज ।
  २. क० शा०. एक हाट करेओ ओल औकी हाट करेओ कोल ।
  ३. क० शा०. सङ्गत करे ।



## गाथ

तान्हि वेश्यान्हि करो सुख सार मण्डन्ते अलक तिलक पत्रावली खंडन्ते  
 विव्याम्बर पिन्धन्ते, उभारि उभारि केशपास बन्धन्ते । सरिव जग  
 भे रन्ते, हँसि हेरन्ते । सअानी, खानुमी, पातरी, पतोहरी, तरुषी  
 तरडी, वन्ही, विअण्णयी, परिहास पेणयी सुन्दरी साथै  
 जवे देखिअ, तवे मन करे ॥ तेसरा लागि तीनु उपेखिअ<sup>१</sup> ॥१४०॥  
 तान्हि केस कुसुम वस, जनु मान्यजनक खज्जावखम्बित  
 मुखचन्द्रचन्द्रिका करी अघओगति देखि अन्धकार हँस ।  
 मयनाञ्जल सञ्चारे भ्रूलता भंग, जनु कज्जल कल्लोखिनी  
 करी वीचि विवत बड़ी बड़ी शफरी तरङ्ग । अति सूक्ष्म  
 सिन्दूर रेखा हँनिन्दन्ते पाप, जनु पञ्चशर करो पहिल ॥१४१॥  
 प्रताप । दोखे हीनि, माफ खीनि, रसिकेँ आनखि जूँआ  
 जीति, पयोधर के भरे भागए चाह<sup>२</sup>, नेत्र करे अतिय  
 भाग भुअण्य साह<sup>३</sup> । सखेँ वाज, राअन्हि छाज<sup>४</sup> । काहु  
 होअ अइसनो आस, कइसे लागत ओँचर वतास । तान्हि  
 करी कुटिल कटाचछटा कन्दपंशरश्रेणीजओ नागरन्हि ॥१४२॥  
 का मन गाड, गो बोलि गमारन्हि छाड ।

## दोहा

सव्वउँ नारि विअण्णनी सव्वउँ सुस्थित लोक  
 सिरि इमराहिम साह गुणो नहि चिन्ता नहि शोक  
 तब तसु हेरि सुहित होअ लोअण्य  
 सबतहुँ मिलए सुठाम सुभोअण्य ॥१४२॥  
 खन एक मन दए सुनओ विअण्णण्य  
 किञ्चु बोलओ तुरूकाण्यो लण्णण्य

१. ख. चारि पुरुषार्थ तिसरा लागि उपेखिअहि ।

२. क० शा० भागए चह ।

३. क० शा० नेत्र क रीति तीय भागे तीनु भुवन साह ।

४. ख. सुशरवाज रायह्ण छाज ।

भुजंगप्रयात छन्द

सतो वे कुमारो पड़्डे वजारी  
जहिं खम्ब घोरा मञ्जगा हजारी  
कहीं कोटि गन्दा कहीं वोंदि वन्दा ॥१६०॥  
कहीं दूर निक्कारिअहि<sup>१</sup> हिन्दु गन्दा  
कहीं तथ कूजा तवेल्ला पसारा  
कहीं तीर कम्माय दोक्काय दारा  
सराफे सराफे भरे वेवि वाजू  
तौलन्ति हेरा, खसूला पेआजू ॥१६१॥  
षरीदे षरीदे वहुता गुलामो  
तुरुक्को तुरुक्के अनेको सलामो  
वसाहन्ति षीसा पड़्जल<sup>२</sup> मोजा  
भमे मीर वल्लीअ सइल्लार षोजा  
अबे वे भणन्ता सरावा पिअन्ता ॥१७०॥  
कलीमा कहन्ता कलामे जिअन्ता<sup>३</sup>  
कसीदा कड़न्ता मसीदा भरन्ता  
कितेवा पड़न्ता तुरुक्का अनन्ता  
छपद

अति गह सुमर षोदाए षाए ले भांग क गुणडा  
विनु कारणहि कोहाए वएन तातल तम कुणडा ॥१७१॥  
तुरुक तोषारहिं चलल हाट भमि हेडा चाहड  
आडी डीठि निहार दवलि दाढ़ी थुक वाहड  
सब्बस्स सराव षराव कइ ततत कवाबा (खा) दरम<sup>४</sup>  
अचिवेक क रीती कहणो का पाछा पयदा लेले भम  
(जमण<sup>१</sup> खाइ ले भांग माग रिसियाइ खाण है ॥१८०॥  
दौरि चीरि जिउ धरिअ समिण सालण अणै भणै ।

१. क० शा० कहीं दूर रिक्काविण ।

२. क० शा० मड़्जल । ३. ख० कलामे जिअन्ता कलीमा पड़न्ता

४. ख० तत कइत खा वादिरम । ५. यह छपद शास्त्री की प्रतिमें नहीं है ।

पहिल नेवाखा खाइ जाइ मुँह भीतर जवहीं  
 खण एक चुप भै रहइ गारि गाबू दे तवहीं  
 ताकी रहै तसु तीर लै बैठाव मुकदम वॉहि धै  
 जो आनिअ आन कपूर सम तवहु पिआज पिआज पै ।) ॥१८५॥

गीत गरुवि जाषरी मत्त भए मतरुफ गावइ  
 चरष नाच तुरुकिनी आन किछु काहु न भावइ  
 सअद सेरणी विलह सब्ब को जूठ सब्बे खा  
 दूआ दे दरवेस पाव नहि गारि पारि जा  
 मषदूम लवावै<sup>१</sup> दोम जओ हाथ दसस दस द्वारओ ॥१९०॥

शुन्दकारी हुकुम कइओ का अपनेओ जोए पराइ हो

### वाली छन्द

हिन्दू तुरके मिलल वास  
 एकक धम्मे अओका उपहास  
 कतहु वॉंग कतहु वेद  
 कतहु विशमिल<sup>२</sup> कतहु छेद ॥१९१॥

कतहु ओम्मा कतहु पोजा  
 कतहु नखत<sup>३</sup> कतहु रोजा  
 कतहु तग्वारु कतहु फूजा  
 कतहु नीमाज कतहु पूजा  
 कतहु तुस्क वर कर ॥२००॥

वॉट जाइते वेगार धर  
 धरि आनए वाभन वटुआ  
 मथां चडावए गाइक चुहुआ  
 फोट चाट जनेऊ तोर  
 उपर चढ़ावए चाह घोर ॥२०१॥

धोआ उरिधाने<sup>४</sup> मदिरा सोध  
 देउरि भोंग मसीद वॉध

१. क० नरावइ । २. क० मिसमिल । ३. क० नकत ।

४. ख० धोआवरी धाने ।

गौर गोमर पुरिल मही  
पैरहु देना एक ठाम नहीं  
हिन्दू बोलि हुरहि निकार ॥२१०॥  
छोटे ओ तुरुका भमकी मार

दोहा

हिन्दू गोष्टओ गिलिअ हल<sup>१</sup> तुरुक देखि होअ भान  
अइसओ जसु परतापे रह चिर जीअउ सुस्तान  
हट्टहि हट्ट भमन्तो दुअओ राजकुमार  
दिष्टि कुतूहल कज रस तो पइठ दरबार ॥२११॥

पद्यावती छन्द

लोअह सम्मदे बहु विहरठे अम्बर मण्डल पूरीआ  
आवन्त तुरुका खाण मुल्लुका पअ भरे पाथर चूरीआ  
दुरुहन्ते आआ बड बड राआ दवल दोआरहि चारीआ  
चाहन्ते छाहर<sup>२</sup> आवहि वाहर गालिम गणए न पारीआ ।  
सब सइअदगारे वि<sup>३</sup>रि थारे पुहविण पाला आवन्ता ॥२२०॥  
दरबार पइठे दिवस भइठे<sup>४</sup> वरिसहु भेट न पावन्ता  
उत्तम परिवारा षण उमारा महल मजेदे जानन्ता  
सुरतान सलामे नहिअ इलामे<sup>५</sup> आपे रहि रहि आवन्ता  
साअर गिरि अन्तर दीप दिगन्तर जासु निमित्ते जाइआ  
सबओ बटुराना राउत राना तथि दो आरहिंपाइआ ॥२२१॥  
इअ रहहि गणन्ता विरुद अणन्ता भट्टा ठट्टा पेणवीआ  
आवन्ता जन्ता कज करन्ता मानव कमने लेणवीआ  
तेलंगा वंगा चोल कलिंगा राआ पुत्ते मण्डीआ  
निअ भासा जम्पइ साहस कम्पइ जइ सूरा जइ पण्डीआ  
राउत्ता पुत्ता चलए बहुन्ता अंतरे पटरे सोहन्ता ॥२३०॥  
संगाम सुहब्बा जनि गन्धब्बा रुअे पर मन मोहन्ता

१. ख० ओ हिन्दू बोलि गिरि चहै । २. ख० चाहर ।

३. ख. जे जेहि मलम जाणन्ता । ४. ख. लहिअे मानै ।

## छपद

ओहु बास दरबार सएल महि मण्डल उप्परि  
 उथि अपन वेवहार राङ्ग ले राअहु उप्परि  
 उथि सत्तु उथि मित्त उथि सिरनबइ सब्व कइ  
 उथि साति परसाद उथि भए जाइ भव्व कइ ॥२३५॥  
 निज भाग अभाग विभाग वल ओ ठामहि जानिअ सब्व गए  
 पहु पातिसाह सबलोक उप्परि तसु उप्पर करतार पए

## गद्य

अहो अहो आश्चर्य । ताहि दोषालन्हि करो दरवाल<sup>१</sup> ओ  
 ओ ओन दरबार मेजोणे दर सदर दारिगह वारिगह निमाजगह  
 षोआरगह, षोरमाह, करेओ चित्त चमत्कार देवन्ते सब ॥२४०॥  
 बोल भल जनि अद्ययर्थन्त विश्वकर्मा एही कार्य छल ।  
 तान्हि प्रसादन्हि करो वमज्रणि घटित काञ्चन कलश छाज<sup>२</sup> ।  
 जन्हि करो माथे सूर्यरथ वहल पर्यटन्त सात घोरा करो  
 अट्टाइसओ टाप बाज । प्रमदवन,<sup>३</sup> पुष्पवाटिका, कृत्रिमनदी  
 क्रीडाशैल, धारागृह, यन्त्रव्यजन, श्रृंगार संकेत, माधवी मण्डप, ॥२४५॥  
 विश्राम चौरा, चित्रशाली खट्वा, हिडोल कुसुम शय्या, प्रदीप-  
 माणिक्य चन्द्रकान्त शिजा, चतुस्सम पल्लव करो परमार्थ  
 पुच्छहि सिमान, अभ्यन्तर करी वार्ता के जान<sup>४</sup> ।  
 पम पेखिअ दूर दाषोल, महुत्त विस्समिअ, सिद्धपदिक<sup>५</sup>  
 परिअय पमानिअ, गुण्ये अनुरञ्जिअ लोअ सब्व, महल ॥२५०॥  
 को मम्म जानिअ ।

- 
१. ख. दाररखोलन्हि करो दरवार परम अदारण खासदर दारिमाह ।  
 २. ख. ताहि प्रासाद करो मनि घटित कंगूरा । ३. ख. प्रभोदवन  
 ४. ख. पल्लव करो पुरुवार्थ हँसि पुच्छि आया, अभ्यन्तर करी वार्ता कवच  
 जाया । ५. क० शा० सिद्धपदिक परिदुए अपमानिअ ।

दोहा

सगुण्य सत्रायो पुच्छिअउँ तं पल्लविअउँ आस  
तोउ असंझहिं मज्जु पुर विपघरहिं करु वास

सीददत्यर्थिकान्तामुखमलिनरुचां वीक्ष्यैः पङ्कजानां  
स्यागैर्वद्धाञ्जनीनांतरथिपरिचितैर्भक्तिसम्पादितानां  
अन्यद्वाराकृतार्थद्विजनिकर कर स्थूल भिक्षा प्रदानैः  
कुर्वन् सन्ध्यामसन्ध्यां चिरमवलु महीं कीर्तिसिहो नरेन्द्रः

इति श्री मट्टक्कुर श्री विद्यापति विरचितायां कीर्तिलतायां द्वितीयः पल्लवः ।

## तृतीय पल्लव

अथ शृङ्गी पुनः पृच्छति

कायण समाइअ अभिजरस तुज्ज कहन्ते कन्त  
कहहु विग्रहण पुनु कहहु किमि अग्गिम वित्तन्त  
रहु

रअणि विरमिअ हुअउँ पच्छूस<sup>१</sup>

तरणि तिमिर सहरिअ हँसिअ अरविन्द<sup>२</sup> कानन ॥२॥

निन्दे नअन परिहरिअ उट्ठि राए पन्खाह आनन

गइ उज्जीर अराहि<sup>३</sup>अउँ जंपिअ सकलओ कज्ज

जइ पहु बडओ पसन्न होअ तओ सिट्ठाअत्त रज्ज<sup>४</sup>

तञ्जे मन्तिन्ह किअउ पथाव

पातिसाह गोचरिअ सुभ महुत्त सुख राजे भेट्ठिअ ॥१०॥

हअ अम्बर वर वहिअ हिज दुण्ल वैराग मेट्ठिअ

खोदालम्म सुपसन्न हुअ पुच्छु कुसलमय वत्त

पुनु पुनु पुनु पुन्नाम कए कित्तिसिंह कह वुत्त

अज्ज उच्छव अज्ज कत्तान

अज्ज सुदिन सुमहुत्त अज्ज मार्जे मझु पुत्त जाइअ ॥१२॥

अज्ज पुन्न पुरिसथ पातिसाह पापोस पाइअ

अकुशल वेविहि कज्ज पइ एक्क तुम्ह परताप<sup>५</sup>

अरु लोअन्तर सम्मा गउ राएणराए मझु बाप

—फरमान भेल कज्जोण साहि

तिरहुति खेलि; जन्दि साहिडरे कहिनी कहए आन ॥२०॥

× जे हा तोड़े ताहां असज्जाण

१. क० थच्छूसख० पव्वस । २. ख० हँसेउ इन्द ।

३. ख० गै उज्जीर पाराधि कै ।

४. ख० यै रयउ पभु पसन्न वड तइ वेसिट्ठाइत्त राज

५. क० अकुशल वेविहि एक्क पइ अवर तुम्ह परताप ।

प्रथम पेल्लिअ तुज्म फरमान  
 गणनराए तौ वधिअ तौन सेर विहार साहिअ<sup>१</sup>  
 चलइते चामर परइ धरिअ छत्त तिरहुति उगाहिअ  
 तब्वउँ तोके रोस नहिं रज्ज करओ असलान ॥२५॥  
 अबे करिअउ अहिमान कर अज्ज जलंजिल दान  
 वे भूपाला मेइनी वेणडा<sup>२</sup> एक्का नारि  
 सहहि न पारइ वेचि भर अवस करावए मारि<sup>३</sup>

रड्डा

भुवन जग्गइ तुम्ह परताप  
 तुम्हे खगो रिउँ दलिअ तुम्हे सेवइ सवे राए आवइ ॥३०॥  
 तुम्हे दाने माहि भरिअउँ तुम्हे कित्ति सबे लोग गावइ  
 तुम्हे ण होसउँ असहना जइ सुनिअउँ रिउँ नाम  
 इअर वपुरा की करओ चीरत्तण निअ ठाम  
 एम कोप्पिअ सुनिअ सुस्तान  
 रोमंविअ भुअ जुअल भौहं जुअल भरि गेट्टि परिअउँ ॥३५॥  
 अहर विम्ब पफ्फुरिअ नयने कोकनद कान्ति धरिअउँ  
 खाण उमारा सव्व के तं षणे भौ फरमान  
 अपनेहु साठे सम्पलहु तिरहुत्तिहिं पयान

छपद

तपत हुवउँ मुरतान रोळ ऊँछुल दरवारहिं  
 जन परिजन संचरिअ धरणि धसमस पए भारहिं ॥४०॥  
 तात भुवन भए गेल सव्व मन सबतहु सक्का  
 बडा दूर बड हचड आज्ज जनि उजडल लक्का  
 देवान अबदगाल गहवर<sup>४</sup> कुरुवक वइसल अदप कइ<sup>५</sup>

- 
१. क० चापिअ २. ख० वेअन्ना  
 ३. १६-२८ की पक्तियों में दो रड्डा छन्द किसी प्रकार मिल गए हैं,  
 सम्भव है अन्तिम दोहों में से एक, उपरी रड्डे का भाग हो।  
 ४. ख. देवाण अरदगर भै । पाठ अष्ट है । ५. ख. महल के ।



जनि अवहि सवहिँ दहु धाय कहु पकलि दयो असखाय गइ<sup>१</sup>

रहु

तेन्हि सोअर वेवि सानन्द ॥१२॥  
 कित्तिसिंह वर नृपति लए पसाओ वाहरओ आइअ  
 एथन्तर वत्त विचित्त<sup>२</sup> कहु सुरतानहु पइअ  
 पुब्बे सेना सज्जिअउ पच्छिम हुअउँ प्यान  
 आण करइते आण<sup>३</sup> भउँ विहि चरित्त को जान

दोहा

तं खणे चिन्तइ राअ सो सब्बे हुअउँ महु खज्ज ॥२०॥  
 पुनु वि परिस्सम सीमिहइ कालहि चुविक्ह कज्ज<sup>४</sup>

गद्य

तइसना प्रस्ताव चिन्ताभरायत<sup>५</sup> राअन्हि करो  
 मुखारविन्द देखेअ महायुवराज श्रीमद्दीर सिंह देव  
 मंत्री भणिएअ, अइसनेओ उँपताप, गुणिएओ य गुणिएअ

रहु

हुखे सिज्जइ राअ घर कज्ज ॥२१॥  
 तं उग्गेअ न करिषु सुहिअ पुब्बि संसअ हरिज्जइ  
 फल दैवह आअत पुरिस कम्म साहस करिज्जइ  
 जइ साहसहु न सिद्धि हो मँष करिब्बउं काह  
 होणा होसइ एक्क पइ वीर पुरिस उच्छाह ।  
 ओहु राओ विअण्णय तुग्गे गुणवन्त ॥२०॥  
 ओ सधम्म तोहे शुद्ध ओहु सदय तुग्गे रज्ज खंडिअ<sup>६</sup>

- 
१. ख. जनि अवहि तवहि पै धाइ कै पकरि अज्जल वअसखाय गौ ।  
 २. क० शा० पुरि वत्त रत्त । ३. क० अअ करइते अरह ।  
 ४. ख. प्रति मे यह दोहा नहीं है । ५. शा० भारायत, ख. भरोअण्णयत  
 ६. ख. रज्ज दंडिअ ।

ओ जिगीसु तोहें सूर ओहे राए तोहे रज्ज पंडिअ<sup>१</sup>  
 पुहवी पति सुस्तान ओ तुन्हे राय कुमार  
 एकक चित्त जइ सेविअइ धुव होसइ परकार  
 दोहा

इध्येन्तर पुनु रोळ पड्ड, सेरण संख को जान ॥६५॥  
 नखिन पत्त महि चलइ जयो सुस्तानी तक्तान<sup>२</sup>  
 निशिपाल (खंजा) छन्द

चलिअ तक्तान<sup>३</sup> सुस्तान इबराहिम ओ  
 धरणि भण कुस्म सुनु धरण बल गाहि मो<sup>४</sup>  
 मिरि टरइ महि पडइ नाग मन कंपिआ  
 तरणि रथ गगन पथ धूलि भरे कंपिआ ॥७०॥  
 तवख शत वाज कत भेरि भरे फुकिआ  
 प्रलय घण सह हुअ रण रव लुकिआ  
 तुल्क कस हरखँ हँस<sup>५</sup> तुरय असफालहीं  
 मानघर मारि कर कटि करवालहीं  
 इरुय चलइ गय गलइ पय पलइ तं खणे<sup>६</sup> ॥७१॥  
 सत्तु धरँ उपलु डर निन्द नहि मंखणे  
 खमा लइ गव्व कइ तुलुक जब जुज्फइ  
 अपि सगर सुर नअर संक पलि मुज्फइ  
 सोखि जल कियउ थल पत्ति पत्र भारहीं  
 जानि धुअ संक हुअ सअल संसारहीं ॥७२॥

१. शा० दोनों पंक्तियों में रज्ज खंडिअ है। ख में ओ जीगीषु तुम जगत मंडिअ है; आगे कुछ नहीं है।
२. ख. नखिनी पत्र जिमि महि चलइ तक्तीण सुस्तान।
३. ख. चलेउ जलख।
४. क० शा० कुस्म भण धरणि सुण रणि चल नाहि मो।
५. क० तुलुक लख हरषि हँस अणि धँ सफालहीं।
६. क० शा० मअ गणइ पत्र पलइ भागि चलइ जं खणे।

केवि करि बांधि धरि चरण तल अप्पिआ  
 केवि पर नामि करि अप्पु करे थप्पिआ  
 (चौसा अन्तर दीप दिगतनर पातिसाह दिग विजय भम<sup>१</sup>  
 दुगम गाहन्ते कर चाहन्ते बेवि साथ सम्पलइ जम)

छपद

वन्दी करिअ विदेस गरुअ गिरि पट्टन जारिअ ॥८२॥  
 साअर सीवा करिअ पार भै पारक मारिअ  
 सरवस डाडिअ<sup>२</sup> सत्तु घोळ लिअ पजेडा धांडे  
 एक ठाम उत्तरिअ ठाम दस मारिअ धाड<sup>३</sup>  
 इबराहिमसाह पयान ओ पुहुवि नरेसन कवन सह  
 गिरि साअर पार उँवार नहीं रैयत भेले जीव रह ॥९०॥

बालिछन्द

रैयत् भेले जाहाँ जाइअ  
 षड एकओ छुअए न पाइअ  
 वडि साति छोटोडु काज  
 कटक लटक पटक चाज  
 चोर छुमाइअ नायक हँथि  
 दोहाए पेलिअ दोसरे मांथे ॥९१॥  
 संरे कीनि पानि आनिअ  
 पीवए षयो कापड़े छानिअ  
 पान क सए सोनाक टङ्गा<sup>४</sup>  
 चन्दन क मूल इन्धन विका ॥९००॥  
 बहुल कौडि कनिक थोड  
 धीवक बेचाँ दीअ घोड  
 करुआ क तेल आँगे लाइअ  
 चाँदि बड दासओ छुपाइअ<sup>५</sup>

१. ख. प्रति में नहीं है और छन्द की दृष्टि से भी प्रचिस जान पड़ता है ।

२. ख. सरवस हिडिअ ।

३. ख. पान क सत सोने क टंका जा ।

४. ख. वाडि बरवल दास पाइअ ।

रड्डा

एवं गमिअउ दूर दीगन्तर ॥१०२॥  
 रण साहस बहु करिअ बहुल ठाम फल मूल भखिअ  
 तुलक संगे संचार परम कट्टे आचार रखिअ  
 सम्बल निरवल किरिस तनु अम्बर भेल पुराण  
 जवन समावहि निक्करुण तीण सुमरु सुरतान  
 विभे हीन नस्थि वाणिल्य ॥११०॥  
 गहु विदेस शरण संभरइ नहु मान धनखि भिख भवइ  
 राय घराह उंपपत्ति नहि दीन वअन नहु वअन आवइ  
 सेविअ सामि निसंक भए दैव न पुरवए आस  
 अहह महत्तर किक्करुँ गएडने गणिल उँपास  
 पिअ न चिन्तइ, वित्त गहु ॥११२॥

मिन्न नहु भोअन संपजइ भित्त भागि भुखे छड्डिअ  
 घोर घास नहु लहइ दिवस दिवसे अति दुख वडिअ  
 तवहु न चुकिअ एकओ तिरि केसव कायथ  
 अरु सोमेसर संन गहि सहि रहिअउ दुरवथ

दोहा

वाणिल होइ विअखला धम्म पसारइ हट्ट ॥१२०॥  
 भित्ता भित्ता कञ्चना विपथकाल कसवट्ट

गद्य

तैसना परमकाष्ठा के पस्तार दुहु सोदर समाज, अनुचित  
 लजा,<sup>१</sup> आचारक रक्षा, गुणक परीक्षा हरिश्चन्द्र क  
 कथा, नलक व्यवस्था, रामदेव क रीति, दान प्रीति, निअ  
 एक पाणिगाह साहस<sup>२</sup> उस्ताह अकृत्य बाधा वलिकरुंदप्रीति ॥१२५  
 करो स्पर्धा साध ।

१. ख. अचिन्तित लाज

२. ख. मिन्न पाणिगह उस्ताह

## दोहा

तं खखे चिन्तइ एक पइ कित्तिसिंह अरु राए  
अमंह एत्ता दुख्ख सुनि किमि जिविहि मसु माए  
(अछै मन्ति विश्रल्लणा तिरहुति केरा खंभ  
मसु माय निअ दीजिहि × × × हथल्ल बन्ध)<sup>१</sup>

## छन्द (पञ्चमटिका)

तहां अछप मन्ति आनन्द खाण  
जे सन्धि भेद विगगहउ जाण  
सुपवित्त मित्त सिरि हंस राज  
सरवस्स उपेखइ अग्ग काज  
सिरि अग्ग सहोअर राअ सिह  
सङ्गाम परक्कम रुद्ध सिह  
गुण्ये गरुअ मन्ति गोविन्द दत्त  
तसु वंस वडाई कहथो कत्त  
हर क भगत हरदत्त नाम  
सङ्गाम कम्म अज्जुन समान<sup>२</sup> ॥१४०॥  
(हरिहर धम्मावीकारी  
जिसु पण तिथ लोइ पुरसत्थ चारी  
खय मग चतुर ओक्का मरेस  
तिसु पणति न लागै कखु खलेस  
न्याय सिंघ राजत सुजाय ॥१४२॥  
सङ्गाम परक्कम अज्जुय समान<sup>३</sup>)

## दोहा

तसु परबोधे माए मसु अउ न धरिजिहि सोग  
विपइ न आवइ तासु घर जसु अनुरत्तेओ लोग

१. यह दोहा क तथा शा० दोनों में नहीं हैं ।

२. ख. भाष्यो सङ्गाम परक्कम परसराम ।

३. वंक्ति १४१-४६ तक क और शास्त्री० दोनों ही प्रतियों में नहीं है ।

चापि कह्यो सुखतान के भाटे करेओ उपत्य  
विनु बोलन्त जे मन पखइ अवे क्त सहत जेराच ॥१५०॥

रड्डा

जेन्हें साहस करिअ रण छुप्प  
जेन्हे अगि धंस करि जेन्हे सिंह केसर गहिज्जिअ  
जेन्हें सप्पफण धरिज्जिअ जेन्हें रूढ हुअ यम सहिज्जिअ  
तेन्हें वेचि सहोअरहि गोचरिउ सुरतान  
तावे न जीवन नेह रह जावे न लमाइ मान ॥१५१॥

ताप लहिअ काल सुपसन्न  
पुनु पसन्न विहि हुअउ पुनुवि दुख दारिइ खंडिअ  
कटकाजी तिरहुत्ति राअ रण उच्छाहे मंडिअ  
फलिअउ साहस कम्म अर सन्नगाह फरमान  
पुहुवी तासु असक्य की जसु पसन्न सुस्तान ॥१५२॥

दोहा

(फक्ल<sup>१</sup> न पायै पउआ अङ्ग न राखै राउ  
फूर न चोखै सूअया धम्ममति कह जाउ) ॥१५२॥

श्लोक

वलेन रिपु भयहली समरदर्पसंहारिणा  
यशोभिरमितो जरात्कुसुमचन्द्रोपमैः  
श्रियावलितचामरद्वय तुरङ्गरङ्गस्थया  
सदा सफल साहसो जयति कीर्तिसिंहोत्तुपः  
इति श्री विद्यापतिविरचितायां कीर्तिलतायां तृतीयः पल्लवः ॥

## चतुर्थ पल्लव

अथ<sup>१</sup> भृङ्गी पुनः पृच्छति

कह कह कन्ता सच्चु भणन्ता किमि परिसेना सञ्जरिआ  
किमि तिरहुत्ती हुअउँ पवित्ती अरु असलान किन्करिआ  
कित्तिसिंह गुण हजो कजो पेअसि अप्पहि कान  
विनु जने विनु धने धन्धे विनु जे चालिअ सुरतान ॥२॥  
गरुओ वेवि कुमार ओ गरुओ मणिक असलान  
जोसु लाने जाहि के आपे<sup>२</sup> चलु सुरतान  
गद्य

सुरतान के फरमाने सगरे राह सम रोल पलु  
लन्नावधि पयदा क शब्द, वाद्य पद, पर वखत उप्पलु  
वाद्य वाजु, सेण साजु<sup>३</sup> । करितुरंग पदाति संघट्ट भेल ॥१०॥  
बाहर कए दनेज देख ।

दोहा

सज्जह सज्जह रोल पलु जानिअ इथि न उथि  
राय मनोहर सम्पलिअ कटकाजी तिरहुत्ति  
पढमहि सज्जिअ हथिवर तो रह सज्जि तुरङ्ग  
पाइक्कह चक्कह को गण्डु चलिअ सेन चतुरंग ॥११॥

मधुभार छन्द

अखवरत हाथि	मयमत्त जाथि
भागन्ते गाछ	चापन्ते काछ
तोरन्ते बोल <sup>४</sup>	भारन्ते धोल

१. पंक्ति १ और ६-७ ख प्रति में नहीं हैं ।

२. शा० जासुलाने जाहि के आए ।

३. लन्नावधि ..सेणसाजु' ख में नहीं है । कादी बोजा मखदूम लरु भी पाठ है । शा० में नहीं मिलता ।

४. ख० उट्टत रोर

संगाम थेघ	भूमिदृ मेघ	
अन्वार कूट	दिविजय छूट	॥२०॥
ससरीर गव्व	देखन्ते भव्व	
चाखन्ते काण	पव्वअ समाण	

गद्य

गरुअ गरुअ मुखड,<sup>१</sup> मारि दस सथि मानुस करो मुखड  
विन्ध सञ्जो विधाताजे किनि काढल । कुम्भोद्धव करे  
नियमातिक्रम पेलि पव्वतओ वाढल । धाए ॥२१॥  
खनए मारए जान, महाउओ क आंकुस महते मान ।

दोहा

पाइग्गाह पअ भरेँ भउँ पल्लानिअउँ तुरंग  
थप्प थप्प थनवार कइ सुनि रोमञ्जिअ अंग

गाराज छन्द

अनेक वाजि तेज ताजि साजि साजि आनिआ  
परक्करेहि जासु नाम दीप दीपे<sup>२</sup> जानिआ ॥३०॥  
विसाल कंध चारु बन्ध सत्ति रूअ सोहणा  
तलप्य हाथि लोधि जाथि सत्तु सेण खोहणा  
समथ्य सुर ऊरपूर चारि पाजे चक्करे  
अनन्त जुज्ज मम्म बुज्ज सामि काज संगरे  
सुजाति सुद्ध कोहे कुद्ध तोरि धाव कन्धरा ॥३१॥  
विशुद्ध दापे मार टापे चूरि जा बसुन्धरा  
विपक्ख केन मेन हेरि<sup>३</sup> हिंसि हिंसि दाम से  
निसान सह भेरि संग खोणि खुन्द ताम से  
तजान भीत वात जीत चामरेहि मरिदआ  
विचित्त चित्त नाच नित्त राग चाग पडिआ ॥३०॥

एवञ्च

विद्धि वाद्धि तेज ताजि  
पक्खरेहि साजि साजि

१. शा० शुखड २. ख० ठाँमे ठाने ।  
३. ख० विपक्ख सर समेण हेरि



खण्ड संख आनु घोर

जासु मूले मेरु घोर

गद्य

कटक चांगरे चांगु<sup>१</sup> । वांकुले वांकुले वअने  
काचले काचले नअने । अँटले अँटले बाधा,<sup>२</sup> तीखे तरखे  
कांधा ।<sup>३</sup> जाहि करो पीडिआ पुक्करो अहंकार सारिअ ।  
पर्वतओ लोंधि पारक मारिअ । अखिल सेन्नि सत्तु करी  
कीर्तिकल्लोलिनी लोंधि भेलि पार, ताहि करो जल सम्पर्के चारहु पाथे  
घोषार । मुरली मनोरो,<sup>४</sup> कुण्डली, मण्डली प्रभृति नाना गति ॥१०॥  
करन्ते भास कस, जनि पाय तल पवन देवता वस । पथ करे  
आकारे मुँह पाठ जनि स्वामी करो यशश्चन्दन तिलक खलाट ।

छापद

तेजमन्त तरवाल तरण तामस भरे वाठल  
सिन्धु पार संभूत तरणि रथ हइते काडल  
गवण पवन पडुवाव वेगे मानसहु जीतिजा ॥११॥  
धाय धूप धसमसइ वज्ज जिमि गज्ज भूमि पा  
संगाम भूमितल सञ्जरइ नाच नचावइ विविह परि  
अरिराअन्ह लच्छिअ छोलि ले पूर आस असवार कइ

रडुा

सं तुरंगम चलिअ सुखतान  
ध्वज चामर विधरिअ, तसु तुरंग कत षांचि<sup>५</sup> आनिअ ॥१०॥  
असु पौरुष बर लहिअ रायवरहिं दिसि विदिस जानिअ  
वेवि सहोअर रायगिरि लहिअउ<sup>६</sup> बेवि तुरंग  
पास पसंसए सञ्ज जा दूर सत्तु ले भंग

१. कटक चांगरे चांगु पाठ अप्रासंगिक लगता है । शास्त्री० में नहीं है ।

२. ख० आटुल वाटुले बाधा । ३. ख० पातरी तीखरी कांधा ।

४. ख० मुरारि, मरोरी ५. ख. संचि ।

छपद

तेजी ताजी तुरअ चारि दिशि चप्परि छुट्टइ  
 तरुण तरुक असवार बाँस जजो चाडुक फुट्टइ ॥६२॥  
 भोजाजे भोजे जोरि<sup>१</sup> तीर भरि तरकस चापे  
 सींगिनि देइ कसीस गब्ब कए गरजे दापे  
 निस्सरिअ फौद अणवरत कत तत गयना पार के  
 पप्रभार कोलअहि भोलकरि कुरुम उँलटि करवट्ट दे

अरिल्ल

कोटि धनुद्धर धावथि पाइक ॥७०॥  
 लख संख चलिअउँ दलवाइक  
 चलु फरिआ इक अंगे चंगे  
 चमक होइ खगागा तरंगे  
 मत्त भगोल बोल नहिं वुज्मइ  
 बुन्दकार कारण रण जुज्मइ ॥७१॥  
 कांच मास कवहुँ कर भोजण  
 कादन्वारि रसे लोहित लोअण  
 जोअन बीस दिनदे धावथि  
 वगल क रोटी दिवस गमावथि  
 बेलक<sup>२</sup> काटि कमानहिं जोरें ॥७२॥  
 धाजे चलथि गिरि उप्परि घोरें  
 गो वम्भन वध दोस न मानथि  
 पर पुर नारि वन्दि कए आवथि  
 हस हरपे रूपड हासह जहिं  
 तरुणे तरुक वाचा सए सहसहिं ॥७३॥  
 अरु कत धोंगइ देषिअथि जाइते  
 गोरु मारि विसमिल<sup>३</sup> कए बाइते

१. ख. भौजे भौजे जोरि ।

२. ख. बलके ।

३. क० शा० मिसमिल ।

## दोहा

अरु धाराइ कटकहि लटक बड जे दिसि धाबे जाथि  
तं दिसकेरी रायघर तरुणी हट्ट विकाथि १

## माणवहला छन्द

साबर एक हौं कतन्हि का हाथ ॥ ६० ॥  
चेथइजे कोथइजे २ वेठल माथ  
दूर दुगाम आग जारथि  
नारि विभारि वालक मारथि  
लूडि अरजन पेटे वए  
अन्याजे वृद्धि कन्दल खए ॥ ६१ ॥  
न दीनक दया न सकता क डर  
न वासि सम्वर न विआहीं घर  
न पाप क गरहा न पुन्यक काज  
न शत्रु क शङ्का न मित्र क लाज  
न थीर वचन न थोडे प्रास ॥ १०० ॥  
न जसे लोभ न अपअस त्रास  
न शुद्ध हृदय न साधुक संग  
न पिउँवा उपसओ न युद्ध भंग ३

## दोहा

ऐसो कटकहि लटक बड जाइते देषिअ वहुत  
भोअण भल्लवण छाड नहिं गमणे न हौं परिभूत ॥ १०१ ॥  
ता पाछे आवत्त हुअ हिन्दू दल गमनेन  
राआ गणए न पारिअइ राउत लेखइ केन

## पुमानरी छन्द

दिगन्तर राआ सेवा आआ ते कटकाजी जाहीं  
निज निज धन गब्बे संगर भब्बे पुहमी नाहिं समाहीं

१. ख. हाट विकाहिं ।

२. ख. चेथरा कोथरा ।

३. ख. न पिउँवा उपसंग न जुसवा भंग ।

राउत्ता पुत्ता<sup>१</sup> चलइ बहुत्ता पत्र भरे मेइणि कम्पा ॥११०॥  
 पत्तापे चिन्हे भिन्ने भिन्ने धूलि रह रह मम्पा  
 जोअण्डा<sup>२</sup> धावहिं तुरग नचावहिं वोलाहिं गाढिम वोला  
 लोहित पित सामर लहिअउं चामर सवणहिं कुण्डल डोला  
 आवत्त विवत्ते पत्र परिवत्ते जुग परिवत्तन भाना<sup>३</sup>  
 घन तवल निसाने सुनिज न काने साणे जुफावइ आना ॥१११॥  
 वेसरि अरु गहह लखल वरहह इति का महिसा कोटी  
 असवार चलन्ते पात्र चलन्ते पुहवी भए जा छोटी  
 पीछे जे पडिआ ते लखलडिआ वड्ठहिं ठामहिं ठामा  
 गोहण नहिं पावहिं, वस्थु नचावहिं भूलल भवहिं गुलामा<sup>४</sup>  
 तुलकन्हि के फौद हउहे हउहे चप्परि चौदिस भूमी ॥१२०॥  
 अउताक धरन्ते कलह करन्ते हिन्दू उतरथि भूमी  
 अस पष एक चोइ गणिअ न होइ सरइ चासर माणा  
 चारिगाह मण्डल दिग आखण्डल पट्टन परिठम भाणा

### छपद

जषणे चलिअ सुरतान लेख परिसेष जान को  
 धरणि तेअ सम्बरिअ अट्ट दिगपाल कट्ट हो ॥१२१॥  
 धरणि धूल अन्धार, छोड्ड पेअसि पिअ हेरब  
 इन्द चन्द आभास कवन परि एहु समय पेन्नब  
 कन्तार दुग्ग दल दमसि कहुँ खोणि खुन्द पत्र भार भरे  
 हरिशंकर तनु एकक रहु वम्भ हीअ डगमगिअ डरे  
 महिस उंडु मनुसाए<sup>५</sup> धाए असवारहिं मारिअ ॥१२०॥  
 हरिण हारि हल वेग धरए करे पाइक पारिअ  
 तरसि रहिअ सस मूस उडि आकास पखि<sup>६</sup> जा

१. ख. राउत पाइक्का २. ख. जोयण

३. ख. प्रति में परिवत्ते के वाद पाठ नहीं मिलता ।

४. क० शा० भूलल भुलहिं गुलामा

५. ख. अगिराए ६. ख. मूस पेखि आकास उडि जा

एहु पाए दरमणिअ ओहु सैन्वान खेदि खा  
इवराहिम साह पआनओ जं जं सेना सखरइ  
खणि खेदि खुखुन्दि धसिमरइ जीवहु जन्तु न उब्बरइ ॥१३२॥

गद्य

एवञ्च दूर दीपान्तर राअन्हि करो निद्रा हरन्ते  
दल विहल चूरि चोपल करन्ते,<sup>१</sup> गिरि गह्वर गोहन्ते<sup>२</sup>  
सिकार खेलन्ते, तीर मेलन्ते वन विहार जल कीडा करन्ते  
मअुपान बसन्तोसत्व करी परिपाटी राज्य सुख अनुभवन्ते  
परदप्प भमि भंजन्ते वाट सन्तरि तिरहुत पइठ, तकत ॥१४०॥  
चडि सुरतान वइठि ।

दोहा

हुहु केआनी सुनि कहुँ तं खणं भौ फरमाण  
केन पआरें निरगाहिअ वइ समथ असलान

रडुा

तो पअंप्पई कित्तिभूपाळ  
की कुमत्त पहु करिअ हीण वयण का समय जल्पिअ ॥१४१॥  
की पर सेना गुणिअ काइं सत्तु सामथ कथिअ<sup>३</sup>  
सव्वउं देख्खउं पिठ्ठि चडि हओ लावओ रण भाण  
पाषरें पाषरं ठेळि कहुँ पकलि देओ असलाण

छपद

अज्ज वैरि उद्धरओ सत्तु जइ संगर आवइ  
जइ तसु पल्ल सपल्ल इन्द अप्पन वल लावइ ॥१४२॥  
जइ ता रल्लइ शम्भु अवर हरि वंभ सहित भइ  
फणिवइ लागु गोहारि चाप जमराज कोप कइ  
असलान जे मारओ तओ हुअओ तासु रहिर लइ देओ पा  
अपमान समय निअ जीव धके जै नहिं पिठ्ठ देषाए जा

१. ख. दरि विहड चूरि घाप करन्ते ।

२. केवल ख प्रति में है ।

३. शा० क० पवरि सुरंगम भेलि गयडक के पायी ।

दोहा

• तब फरमाएहि वॉचिअइ सएखइ सभ को सार ॥१२२॥  
कित्ति सिंह के पूरनहिं सेना करिअउ पार

रोला छन्द

पैरि तुरंगम भेलिपार गण्डक का पायी<sup>१</sup>  
परवल भंजनिहार मलिक महमद गुमानी<sup>२</sup>  
अस असलाने फौदे फौदे निज सेना सज्जिअ  
भेरी काहल डोल तवल रण तूरा वज्जिअ  
रायपुरहिं का पुज्व घेत पहरा दुइ बेरा  
बेवि सेन सङ्कट मेल वाजल<sup>३</sup> भट भेरा  
पाओ पहारे पुहुवि कम्प गारि सेहर दुटइ  
पलय विट्टि सओ पडइ कोड पटवारण<sup>४</sup> फुटइ  
वीर हुकारें हौंहि आगु रोवंचिअ अङ्गे<sup>५</sup> ॥१२॥  
धौदिस चकमक चमक होइ खमाया तरङ्गे  
तोवि तुरय असवार धाए पइसथि परयुथे<sup>६</sup>  
मत्त मतङ्गज पाछु होथ फरिआइत सथे  
सिंगिणि गण टङ्कार भार<sup>७</sup> नह महएडल पूरइ  
पापर उटइ फौदे फौदे पर चक्कह चूरइ ॥१७०॥  
तामसें वडइ वीर-दप्प विक्रम गुण चारी  
सरमहु केरा सरम गेल सरमेरा सारी

दोहा

चौपट मेहुनि मारि हो परइ खण्ड कोदखे  
चोट उपटि पटवार दे थेघे निज भुज दखे

- 
१. ख. पवरि तुरंगम भेलि गण्डक के पायी ।
  २. क० शा० परवल भंजन गरुअ महमद मदगामी ।
  ३. शा० क० भेटें, वाजन । ४. शा० क० पटवालह ।
  ५. शा० क० वीर बेकारे आगु हो अथि रोमंचिअ अङ्गे ।
  ६. शा० क० परयुथे । ७. शा० क० भाव
  ८. शा० क० भेट ।

## विदुर्म्माला छन्द

हुँकारे घीरा राजन्ता पाइका चक्का भज्जन्ता ॥१७५॥  
 धावन्ते धारा टुटन्ता सन्नाहा वाणो फुटन्ता  
 (राउत्ता रोसं लगीआ खगाही खगा भगीआ<sup>१</sup>)  
 आरुट्टा सूरु आवन्ता उमगो मगो धावन्ता  
 एकके एकके भेटन्ता परारी लच्छी भेटन्ता  
 अप्पा नामाना सारन्ता बेलक्के सत्तू मारन्ता ॥१८०॥  
 ओआरे पारे<sup>२</sup> बूमन्ता कोहाणे वाणो जूमन्ता

## छपद

दुहुँदिस पाखर ऊँठ मोंक सङ्गाम भेट हो<sup>३</sup>  
 खगो खगो सङ्गलिअ फुलगा उपफुलइ अगिा को  
 अस्सवार असिधार तुरअ राउत सजो टुटइ  
 बेलक बज्ज निघात काअ कवचहु सजो फुटइ ॥१८१॥  
 अरि कुअर पअर सलिल रह रुहिर धार गअ गणण भर  
 रा कित्तिसिंह को कज्ज रसं वीरसिंह संगाम कर

## रडुा

धम्म पेखइ अवरु सुस्तान  
 अन्तरिखल ओत्थविअ इन्द चन्द सुर सिद्ध चारण  
 विज्जाहर गह भरिअ वीर जुज्ज देक्खह कारण ॥१९०॥  
 जहिं जहिं संघल सत्तु घल तँहि तँहि पल तरवारि  
 शोणित मज्जाणे मेइनी कित्तिसिंह करु मारि

## भुज्ज प्रयात छन्द

पले रुण्ड मुण्डो खरो वाहु दण्डो  
 सिआरु कलंकोइ<sup>४</sup> कङ्काल खण्डो  
 घरा धूरि लोट्टन्त टुटन्त काअ ॥१९१॥  
 लरन्ता चलन्ता पभालेन्ति पाअ

१. यह पंक्ति ख में नहीं है और तुक को देखते हुए इसका न होना संभव है ।
२. शा० क० अओ अपारा पारा बूमन्ता
३. ख० दुहुँदिस वज्ज वज्ज मास संगाम खेत हो ।
४. ख. सिआरे कलंकेइ

अरुज्ज्वाल अन्तावली जाल वद्धा  
 वसा वेग वृद्धन्त उद्धन्त गिद्धा  
 गअण्डी<sup>१</sup> करन्तो पिवन्तो रमन्तो<sup>२</sup>  
 महामासु खण्डो परन्तो<sup>३</sup> भरन्तो ॥२००॥  
 सिआसार फेवकार रोळं करन्तो  
 चुभुण्वा वहु डाकिनी डक्करन्तो  
 वहुफफाल<sup>४</sup> वेआल रोळं करन्तो  
 उलहटो पल्लटो पेखन्तो कवन्धो  
 सरोसान भिन्ना करे देइ सानो ॥२०१॥  
 उमस्से निसस्से विमुक्केइ पाणो<sup>५</sup>  
 जहो रक्त कल्लोल ना ना तरङ्गो  
 तहो सारि सज्जो निमज्जो मंथगो

छपद्

रक्त करांगन<sup>६</sup> माथ उफरि फेरवी फोरि रवा<sup>७</sup>  
 हाथे न उट्ठइ हाथि छाडि बेआल पाणु जा ॥२१०॥  
 नर कवन्ध धरफलइ मम्म वेआवह पेखइ  
 'रुद्धिण तरङ्गिणि तीर भूतगण जरहरि<sup>८</sup> खेखइ  
 उछलि उमरु डेक्कार वर सब दिसे डाकिन डक्करइ  
 नर कवन्ध यह भरइ कित्तिसिहरा रण करइ  
 वेवि सेन संघट्ट खमा खंडल नहि मानहि<sup>९</sup> ॥२११॥  
 संगर पल्लइ सररी भाए गए चलिअ विरानहि<sup>१०</sup>

१. ख. गया
२. शा० क० भरन्तो । तुक और अर्थ को दृष्टि से रमन्तो ठीक है ।
३. शा० परेतो । ४. ख. सुहु फाल ।
५. ख. सराधार साती ने देइ सार्ण, उसस्से निसस्से यमुक्केय प्राखं
६. ख. करागव ।
७. ख. फेरि विफेरि खा
८. शा० जरफार ।
९. ख० वेवि सयाण संघट्ट भेलि. ....
१०. ख० अग्गिम परै सररी वीर चहहि वराणहि



अन्तरिखल अलुवारि कर कमल ? विज्जए<sup>१</sup> अंचल  
 भमर मनोभव भमइ पेम पिच्छल नयनाञ्जल<sup>२</sup>  
 गन्धव्व गीति दुन्दुहिअ वर परिमन परिचय जान को  
 वर किच्चिसिंह रण साहसहिं सुरअरु कुसुम सुविट्ठि हो ॥२२०॥

रड्डा

तब चिन्तइ मलिक असलान  
 सब्ब सेन महि पलिअ पातिसाह कोहान आइअ<sup>३</sup>  
 अनअ महातरु फलिअ दुट्ठ दैव महु निअर आइअ  
 तो पल जीवन पलटि कहुँ थिर निम्मल जस खेओ  
 किच्चिसिंह सओ सिहसओ मइ मोझि एक देओ ॥२२१॥

छन्द

हसि दाहिन हथ्य समथ्य भइ  
 रण रत्त पलटिअ खगा लइ  
 तँह एककहि एकक पहार पले  
 जहि खगाहि खगाहिं धार धरे  
 हय लगिअ चङ्गिम चारु कला ॥२२३॥  
 तरवारि चमकइ विज्जु मला  
 टरि टोप्परि टुटिट शरीर रहे  
 तनु शोणित धारहिं धार वहे  
 तनुरंग सुरंग<sup>४</sup> तरंग वसे  
 तनु छड्डइ लगाइ रोस रसे ॥२२५॥  
 सब्बउ जन पेखइ जुज्जु कहा  
 महभावइ अजुन कअ जहा  
 नं आहव माहव सत्तु करें  
 वायासुर जुज्जुह बुत्त भरे  
 महाराअन्हि मल्लिके चप्पिलउँ ॥२४०॥

१. ख० अन्तरिखल अपछरा वाण यकै ।

२. ख० जनु भवै पेम पेखिअ नयणांचल ।

३. शा० में 'आइअ' नहीं है । ४. क० में सुरंग नहीं है ।

असखान निजानहु पिठि दिउँ  
तं षयो पेखिअ राय सो अरु सुखेअ करेओ  
जे करे मारिअ वप्य महु से कर कवन हरेओ  
गद्य

अरे अरे असखान प्राणकातर अवज्ञात मानस समर  
परिव्याग साहस धिक जीवनमात्ररसिक की जासि ॥२४२॥  
अपजस साहि, सत्तु करी डीठि सजो पीठि दए  
भाहु मैसुर क सोम जाहि ।

दोहा

जै धकेँ जीवसि जीव सजो जाहि जाहि असखान  
तिहुअण जगइ किन्ति मम तुज्म दिअउँ जिवदान  
जइ रण भमासि तइ तोजे काअर ॥२५०॥  
अरु तोहे मारइ से पुनि काअर  
जाहि जाहि अनुसर गए साअर  
एम जंपइ हंसि हंसि वे नाअर

रड्डा

तो पखटिअ जिन्ति रण राए  
शंरवध्वनि उच्छ्वलिअ नित्त गीत वज्जन वज्जिअ ॥२५५॥  
चारि वेअ मंकार सुह मुहुत्त अभिषेक किज्जिअ  
वन्धव जन उच्छाह कर तिरहुति पाइअ रूप  
पातिसाह असु तिलक कर किचिसिह भउँ भूप

श्लोक

एवं संगरसाहसप्रमथनं प्रालम्बलब्धोदयो  
पुष्पाति श्रियमाशशांक तरुणीं कीर्तिसिंहो नृपः  
माधुर्यप्रसवस्थली गुरुयशो विस्तारशिचासली  
यावद्विश्वमिदञ्च खेखनकवेर्विघ्नापते भारती ।

इति महामहोपाध्याय सट्टकुर विद्यापति विरचितायां कीर्तिलतायां चतुर्थं  
पञ्चवः समाप्तः । शुभम् ।<sup>१</sup>

१ ख० प्रति में प्रतिखिपि करने वाले के विषय में दिया है :

संवत् ७४७ वैशाख शुक्ल तृतीयायां तिथौ । श्री श्री जयउज्जगायोतिर्मन्त्र-  
देव भूपाल्या दैवज्ञ नारायण सिंहेन खिखितमिदं पुस्तकं सम्पूर्णमिति । शिवम्

## हिन्दी भाषान्तर

### प्रथम पल्लव

पिता जी, मुझे स्वर्गंगा का मृणाल ला दीजिये। पुत्र, वह मृणाल नहीं, वह तो सर्पराज है। यह सुनकर गणेश रोने लगे और शशु के मुँह पर हँसी छा गई। यह देखकर पर्वतराज कन्या पार्वती को बड़ा कौतूहल हुआ। वह कौतूहल तुम्हारी रक्षा करे। १॥ शंशु के तीन प्रकाशपूर्ण नेत्र हैं, चन्द्र, सूर्य, और अग्नि। वे अज्ञान रूपी तिमिर के नाश करने वाले हैं। उन भगवान शंकर के कमल चरणों की मैं वन्दना करता हूँ। २। सरस्वती तुम्हारी रक्षा करें। जो सब प्रकार के अर्थबोध के लिये द्वार-रूप हैं। जिह्वा रूपी रगस्थली की वे नर्तकी हैं। तत्व को आलोकित करने वाली दीप शिखा हैं, विदग्धता के लिये विश्राम-स्थल हैं, शृङ्गारादि रसों की निर्मल लहरियों की मन्दाकिनो हैं और कल्पान्त तक स्थिर रहने वाली कीर्ति की प्रिय सखी हैं। ३। कलयुग में घर-घर काव्य है, नगर-ग्राम सर्वत्र उसके श्रोता मिलते हैं। देश देश में उसके मर्मज्ञ हैं, पर दान देने वाले दुर्लभ हैं। ४। महाराज कीर्तिसिंह काव्य के श्रोता हैं, रसशाता हैं और दान देने वाले भी हैं। काव्य की रचना भी करते हैं, कवि विद्यापति उनके लिये सुन्दर काव्य की रचना करते हैं। ५।

दोहा—यदि अक्षर रूपी खमे गाड़कर (आरम्भ कर) उस पर मंच न बाँध दें, तो त्रिभुवन-न्दन में उसकी कीर्तिलता किस तरह फैलेगी। मेरा ऐसा-वैसा काव्य यदि ख्याति प्राप्त कर ले तो बहुत है। दुष्टजन इसको खेल के बहाने निन्दा करेंगे, पर सज्जन लोग इसकी प्रशंसा करेंगे। सज्जन मेरे काव्य को सराहेंगे, दुष्टजन बुरा कहेंगे। ५। विषधर निश्चय ही विष उगलता है, चन्द्रमा अमृत वर्षण करता है। सज्जन मनहि मन सबको मित्र समझ कर शुभ चिन्ता करता है। भेद (त्रुटि) को कहने वाला दुर्जन कभी भी मेरा शत्रु नहीं है। वालचन्द्र और विद्यापति की भाषा इन दोनों को दुष्टजन को हँसी (उपहास) नहीं लगती। वह ( वालचन्द्र ) परमेश्वर शंकर के माथे सुशोभित होता है, और यह भाषा चतुर लौंगों के मन को मुग्ध करती है। मैं क्या प्रबोधन करूँ। किस प्रकार मनाऊँ! नीरस मन में रस लाकर कैसे भर दूँ। यदि मेरी भाषा सुरसा होगी १५

तो जो भी उसे समझेगा, वही उसकी प्रशंसा करेगा। मधुकर कुसुम रस ( मकरन्द ) की जानता है और छइल्ल ( विज्ञपुरुष ) काव्य कला का मर्म जानता है। सज्जन परोपकार में मन लगाते हैं। दुर्जन का नाम ही घृणित है। संस्कृत भाषा केवल विद्वान लोगो को अच्छी लगती है। प्राकृत भाषा में रस का मर्म नहीं होता। २०। देसी वचन सबको मीठा लगता है, इसीलिए वैसा ही अवहट्ट मै लिखता हूँ।

दोहा—भृंगी पूछती है—भृंग सुनो। संसार में सारतत्व क्या है, मानिनि मान के साथ जीना और वीर पुरुष का पैदा होना। 'नाथ, यदि कहीं वीर पुरुष जन्मा हो तो आप नाम क्यों नहीं लेते। २५। यदि सोत्साह स्फुट रूप से कहो तो मै भी सुनकर तृप्त होऊँ'

कीर्तिप्राप्त, संग्राम में वीरता दिखाने वाला, धर्म प्रयाण हृदय वाला तथा जो विपत्तियों के बार-बार आने पर भी दीन वचन न बोलता हो। सज्जन लोग जिसकी सम्पत्ति का आनन्द पूर्वक आसानी से उपभोग कर सकें। एकान्त में किसी को द्रव्य की सहायता देकर जो उसे भूल जाये, सत्वभरा सुरूप शरीर वाला हो। ३०। इतने लक्षणों से युक्त पुरुष को मै वीर मानकर उसकी प्रशंसा करता हूँ।

जदौ ( यदुक्तम् ) पुरुषत्व से। पुरुष ( श्रेष्ठ ) है। केवल जन्म लेने से पुरुष ( श्रेष्ठ ) नहीं है। जलदान से जलद-जलद है, धूम का पुंज जलद नहीं है। पुरुष वही है जिसका सम्मान हो, जो अर्जन की शक्ति वाला हो, इतर लोग पुरुष के आकार में पुच्छहीन पशु की तरह हैं। ३५।

दोहा—सुपुरुष की मै कहानी कहता हूँ। जिसके प्रस्ताव ( कथन ) से पुण्य होता है सुख मिलता है, सुभोजन, सुभवन और पुण्य के कारण देवगृह ( स्वर्ग ) की प्राप्ति होती है।

छपद—पुरुष राजा वलि हुए थे जिनके आगे कृष्ण ने हाथ पसारा। पुरुष रामचन्द्र हुए जिन्होंने बल से रावण को मारा। पुरुष राजा भगीरथ हुए जिन्होंने अपने कुल का उद्धार किया। परशुराम पुरुष थे जिन्होंने क्षत्रियों का नाश किया। और पुरुष राजश्रेष्ठ गणेश्वर के पुत्र कीर्तिसिंह हैं जिन्होंने शत्रुओं को समर में मर्दित करके अपने पिता के बैर का बदला लिया। ४३।

दोहा—यह राज-चरित बड़ा रसपूर्ण है, नाथ इसे गुप्त न रखें। वह राजा किस वश का था, कीर्तिसिंह कौन थे। ४५।

रड्डा - वे तर्क-कर्कश, तीनों वेद पढ़े हुये थे। उन्होंने दान से दारिद्र्य का दलन किया थे। परब्रह्म परमार्थ को समझते थे। धन से कीर्ति प्राप्त करते और संग्राम में शत्रु से युद्ध करते थे। ओइनो वंश के प्रसिद्ध उस राजा की सेवा कौन नहीं करता ? दोनों एकत्र दुर्लभ हैं एक तो भुजपति ( राजा ) और दूसरा ब्राह्मण। (कीर्ति सिंह दोनों ही हैं)। १५०।

जिन्होंने पूर्व (यश प्राप्त) बलि और कर्ण को खंडित (पराजित) किया। जिन्होंने शरण नहीं चाहा, जिन्होंने अर्थार्थी लोगों को विमन नहीं किया, जिन्होंने असत्य भाषण नहीं किया और कभी कुमार्ग पर पैर नहीं दिया उसके वंश का बड़प्पन वर्णन करने का उपाय (शक्ति) कहाँ ? जिस कुल में कामेश्वर के समान व्युत्पन्नमति राजा हुये। १५५।

छपद—उसके पुत्र भोगीशराय, इन्द्र के समान श्रेष्ठ भोगों को भोगने क्लेश थे तेज में हुताशन (अग्नि) की तरह और कान्ति में कुसुमायुध कामदेव की तरह हुए। वे याचकों के मनोवांछित देने वाले, क्षेत्रदान (भूमिदान) में बलि की तरह पाँच श्रेष्ठ दानियों में एक थे। उन्हें प्रिय सखा कहकर सुलतान क्रिरोजशाह ने सम्मानित किया। उन्होंने अपने प्रताप, दान, सम्मान आदि गुणों से सबको अपने वश में कर लिया और महिमण्डल में कुन्द-कुसुम की तरह धवल-यश को विस्तृत किया। १६१।

उनके पुत्र थे नीति, विनय आदि गुणों में श्रेष्ठ राजा गणेश्वर जिन्होंने दशों दिशाओं में अपने कीर्ति-कुसुम का सन्देश (गन्ध) फैलाया। १६३।

छपद—राजा गणेश्वर दान में श्रेष्ठ थे। उन्होंने याचकों के मन को अनुरजित किया। राजा गणेश्वर मान में श्रेष्ठ थे। उन्होंने शत्रुओं के बड़प्पन को भंग किया। सत्व में वे श्रेष्ठ थे, उन्होंने इन्द्र की बराबरी की। कीर्ति में वे सुरु थे उन्होंने कीर्ति से सारे पृथ्वी मंडल को धवल कर दिया। लावण्य में भी वे श्रेष्ठ थे और देखकर लोग उन्हें 'पंचशर' कहते थे, भोगेश्वर के पुत्र गणेश्वर ब्रह्मसिद्ध श्रेष्ठ पुरुष थे। १६६।

### गद्य

उनके पुत्र युवराजों में पवित्र, अग्रणीत गुणों के आगार, प्रतिज्ञापूर्ति में परशुराम, मर्यादा के मंगलमय स्थान, कविता में कालिदास, प्रबल रिपुओं की सेना के सुभटों के बीच युद्ध में साहस दिखाने वाले और अडिग, धनुर्विद्या-वैद्यक अर्जुन के अवतार, चन्द्रचूड़ शंकर के चरणों के सेवक, समस्त रीतियों के निब्राह्मे वाले महाराजाधिराज श्रीमत् वीरसिंह देव थे। १७५।

उनके कनिष्ठ किन्तु गुण-श्रेष्ठ भाई श्री कीर्तिसिंह राजा हुए, वे पृथ्वी का शासन करें, चिरजीवी हों, और धर्म का परिपालन करें। (७७)

### गद्य

जिस राजा ने अतुल विक्रम में विक्रमादित्य से तुलना की, साहस के साथ, बादशाह को प्रसन्न करके, दुष्ट (असलान) का दर्प चूर किया, पिता के बैर का बदला लेकर शाह का मनोरथ पूर्ण किया। प्रबल शत्रुओं की सेना के संगठन की भीड़ से पदाघात के कारण चंचल हुये घोड़ों की टाप से खुब वसुन्धरा की धूलि के अन्धकार की काली युद्ध-निशा की अभिसारिका जयलक्ष्मी का पाणि-ग्रहण किया। डूबते हुये राज्य का उद्धार किया। (८४) प्रभुशक्ति, दानशक्ति, ज्ञानशक्ति तीनों ही शक्तियों की परीक्षा की। रूठी हुई विभूति को लौटा लाए। उनका अहंकार वास्तविक (सार) था उन्होंने तरल कृपाण की धारा से सग्राम रूपी समुद्र मथ कर फेन के समान यश निकाल कर दिगन्त में फैलाया।

ईश (शिव और कीर्तिसिंह) के मस्तक पर विलास करनेवाली विभूति (भक्त और वैभव-श्री) से भूषित यामिनीश्वर चन्द्रमा की कला की तरह कीर्तिसिंह की कीर्तिकामिनी विजय को प्राप्त करें।

विद्यापति ठाकुर विरचित कीर्तिलता का पहला पल्लव समाप्त

### द्वितीय पल्लव

भृंगी फिर पूछती है।

किस प्रकार शत्रुता उत्पन्न हुई और उन्होंने कैसे बदला लिया। हे प्रिय, आप यह पुण्य कहानी कहें, मैं सुल पूर्वक सुनेंगी। जब लक्ष्मण सेन सम्बत् का २५२ वाँ वर्ष लिखित हुआ, उसी साल मधुमास के प्रथम पक्ष की पंचमी को राजलुब्ध असलान ने बुद्धि विक्रम बल में राजा गणेश्वर से हार कर, उनके पास बैठ विश्वास दिलाकर उन्हें मार डाला। राजा के मरते ही रण का शोर मचा, मेदिनी में हाहाकार मच गया। सुरराज के नगर (इन्द्रावती) की नागरिकाओं के वामनेत्र फड़कने लगे। (प्रसन्नता सूचक)। ठाकुर ठग हो गए, चोरों ने जबर्दस्ती घरों पर कब्जा कर लिया। भृत्यों ने स्वामियों को पकड़ लिया। धर्म चला गया, काम धन्धे ठप्प हो गए। खल लोगों ने सबजनों को पराभूत कर दिया, कोई न्याय-विचार करने वाला नहीं रहा। जाति-कुजाति में शार्दियाँ होने लगी, अधम, उत्तम का कोई पारखी नहीं रहा। अक्षर-रस (काव्य-

रस) को समझने वाले नहीं रहे, कवि लोग भिखारी होकर घूमते रहे, राजा गणेश्वर के स्वर्ग जाने पर तिरहुत के सभी गुण तिरोहित हो गए। १५।

रड्डा—राजा के वध के बाद असलान का रोष शान्त हुआ। अपने मन ही मन तुर्क अलसान यो सोचने लगा। मैंने यह बुरा काम किया। धर्म का विचार करके वह सिर धुनता। इस समय दीन (धर्म) उद्धार का कोई दूसरा उपाय (पुरय) नहीं था इस 'दिन' का बदला देने का कोई इससे भला (पुरय) कार्य नहीं। मैं कीर्तिसिंह को राज्य सौंपूँ और उनका सम्मान करूँ। २०।

दोहा—सिंह के समान पराक्रमी, मानघन, बैर का बदला लेने के लिये तत्पर कीर्तिसिंह ने शत्रु-समर्पित राज्य को अग्नीकृत नहीं किया।

रड्डा—माता कहती है और गुरु लोग कश्ते हैं, मन्त्री और मित्र सीख देते हैं कभी भी यह कार्य नहीं करना चाहिये। क्रोध से राज्य मत छोड़िये। पिता का बैर चित्त में धारण कीजिये। भाग्य-लेख से राजा गणेश्वर स्वर्ग में इन्द्रसमाज में गये (मृत्यु हुई) तुम्हें शत्रुओं को मित्र बनाकर तिरहुत का राज करना चाहिये।

गद्य—उस बेला में माता, पिता और श्रेष्ठ जनो के बोलने पर, हृदय-गिरि की कन्दरा में सोया हुआ पिता के बैर का सिंह जाग पड़ा। महाराजा कीर्तिसिंह देव क्रुद्ध होकर बोलने लगे। ३०। ऐ लोगो, स्वामी के शोक को सहज भूल जाने वालो, मेरे वचनों पर ध्यान दो। ३२।

दोहा—माता जो कुछ कहती है वह ममता के कारण, मन्त्री ने राज-नीति की बात कही। किन्तु मुझे तो एक मात्र वीर पुरुष की रीति ही प्यारी है। मानहीन भोजन करना, शत्रु का दिया हुआ राज्य लेना और शरणागत होकर जीना, ये तीनों कायरो के हाँ कार्य हैं, जो अपमान में दुःख नहीं मानता, दान और खग का मर्म नहीं समझता, जो परोपकार में धर्म नहीं देखता, वह धन्य है (व्यग) ऐसे ही लोग निश्चय पूर्वक सोते हैं। शत्रु के पुर पर आक्रमण करके स्वयं दौड़ कर पकड़ूँगा, ज्यादा बोलने से क्या होता है। मेरे भी ज्येष्ठ और शरिष्ठ मंत्रणा-चतुर भाई हैं।

छापद—बाप के बैर का बदला लूँगा और पुनः अपनी प्रतिज्ञा से व्युत् न हूँगा, संग्राम में साहस पूर्वक लड़ूँगा पर कभी शरणागत होकर मुक्त न होऊँगा। दान से दारिद्र्य का दलन करूँगा और कभी 'न' अक्षर नहीं उच्चरूँगा। रक्षयान में ही राज-पाठ होगा। परन्तु नीच शक्ति का प्रदर्शन न करूँगा। अपने

अभिमान को प्राण की तरह रक्खूंगा, पर नीच का कभी साथ नहीं करूँगा, चाहे राज रहे या जाय। वीर सिंह तुम अपना विचार बताओ। ४८।

रडडा—दोनों की रायें मिलकर एक हुई। दोनों सहोदर भाई एक साथ चले। वे दोनों सभी गुणों में विलक्षण थे। बलभद्र और कृष्ण चले या पुनः राम और लक्ष्मण कहें, राजपुत्र पैदल चलते हैं, ऐसा मोला है ब्रह्मा। इनको देखते हुये किसकी आँखों से लोर नहीं बहते ?

लोगों को छोड़ा, परिवार छोड़ा, राजभोग का परित्याग किया। श्रेष्ठ घोड़े (वाहन) और परिजनो को छोड़ा, जननी के पाँवों को प्रणाम किया, जन्मभूमि का मोह छोड़कर चले। नवयौवना पत्नी छोड़ी, सारा धन-वैभव छोड़ा। बादशाह से मिलने के लिये राजा गणेश्वर के पुत्र चले। ५८।

वाली छन्द—दोनो कुमार पाँव-पयादे चले। सबने हरि का स्मरण किया। बहुत सी पट्टियाँ और प्रान्तर छूट गए। अन्तर पर ठहरते गये। जहाँ जाते थे, जिस गाँव में सर्वत्र भोगीश राजा का बड़ा नाम था। किसी ने कपड़ा दिया, किसी ने घोड़ा। किसी ने रास्ते के लिये थोड़ा सम्बल दिया। कोई कतार में आकर साथ हो लिया। कोई सेवक भेंटने लगा। किसी ने उधार ऋण दिया। किसी ने नदी पार कराया। किसी ने बोझ पहुँचाया। किसी ने सीधा मार्ग बताया। किसी ने विनय पूर्वक आतिथ्य किया। इसी तरह कितने दिनों पर रास्ता समाप्त हुआ। ७४।

दोहा—लक्ष्मी निश्चय ही उद्योग में बसती है, अवश्य ही साहस से कार्य में सिद्धि मिलती है। विलक्षण पुरुष जहाँ जाता है वहीं उसे समृद्धि की प्राप्ति होती है। उसी क्षण जौनपुर (यवनपुर) नाम का नगर देखा जो लोचनों के लिए प्रिय था और लक्ष्मी का विश्राम-स्थान था।

गीतिका—नीर प्रक्षालित सुन्दर मेखला से विभूषित नगर देखा। नीचे पाषाण की फर्श थी और ऊपर का पानी दीवारों के भीतर से चू जाता था। आम और चम्पा से सुशोभित उपवन थे जो फललवित थे और फूल-फल से भरे थे। मकरन्द-पान में विमुग्ध भौरों की गुंजार से मन मोहित हो जाता था। वक्रद्वार, साकम (संक्रम, पुल) बाँध, पुष्करिणी और सुन्दर सुन्दर भवन थे। बहुल प्रकार के टेढ़े-मेढ़े रास्तों (विवर्तवर्त्म) में बढ़े-बढ़े चतुर भी चेतना भूल जाते थे। सोपान, तोरण, यंत्र-जोरण, जाल-युक्त गत्राक्ष के खण्ड दिखालाई पड़ते थे। सहस्रो स्वर्ण कलशों से मण्डित ध्वजयुक्त घौत शिवालय थे। स्थल-



कमल के पत्ते के समान आखों वाली, मतवाले हाथी की तरह गमनवाली कामिनियाँ चौराहों और रास्तों पर उलट उलट कर साथ चलते लोगों को देखती थी। कर्पूर, कुंकुम, गन्ध ( धूप, इत्रादि ) चामर, काजल, कपड़े आदि, वणिक् व्यवहार मूल्य पर बेचते थे जिन्हें बर्बर यवन खरीद ले जाते थे। ६०। सामान दान, विवाह, उत्सव, गीत, नाटक और काव्यादि तथा आतिथ्य, विनय, विवेक पूर्ण खेल, तमाशों में लोग समय बिताते थे। घूमते, खेलते, हँसते थे और देखते हुए लोग साथ साथ चलते थे। ऊँचे, ऊँचे हाथियों, घोड़ों की भीड़ से बचकर राह पाना कठिन था। ६४।

गद्य—और भी। उस नगर के परिष्ठव (सौन्दर्य) को देखते हुए, सैकड़ों बाजार-रास्तों से गुजरते, उपनगर और चौराहों में घूमते थे, गोपुर, वक्रहटी, सदर-फाटक, गलियों, अट्टालिकाओं, दूकान की कतारों, रहट, घाट, कोट्टशीर्ष, प्राकार, पुर विन्यास आदि का वर्णन क्या करूँ, मानो दूसरी अमरावती का अवतार हुआ है। और भी। हाट में प्रथम प्रवेश करने पर, अष्टधातु से (वर्तन) गढ़ने की टंकार, वर्तन बेचने वाले का पसार, कासे का खरीद-फरोखत बहुत से नगर जनों के चलने, धनहटा, सोनहटा, पनहटा, पक्वानहाट, मल्लहटा के आनन्द कलरव को यदि कहूँ तो झूठ होगा, लगता था जैसे मर्यादा छोड़कर समुद्र उठ पड़ा है और उसका गम्भीर गुरगुरावर्त कल्लोल कोलाहल कानों में भर रहा है। १०५। मध्याह्न बेला में भीड़ और सजावट, लगता था जैसे समस्त पृथ्वी-मंडल की वस्तुएँ विक्राने के लिए आई हों। मनुष्य के धक्के-धुक्के से सिर टकरा जाते थे, एक का टीका ओलगा कर दूसरे को लग जाता था। यात्रा (चलने) से दूसरे की छाँ के हाथ की चूड़ियाँ टूट जाती थीं। ब्राह्मण का यज्ञोपवीत चाण्डाल के अंग से लटक जाता था, वेश्या के पयोधर से टकराकर यति का हृदय चूर-चूर हो जाता था। बहुत से हाथी और घोड़े चलते थे कितने बेचारे पिछ जाते थे। आने-जाने से शोर होता था, लगता था कि यह नगर नहीं मनुष्यों का समुद्र है। ११२।

छापद—बनिजारा बहुत भ्रॉति बाजार में घूमता था और दूसरे ही क्षण अपनी सभी वस्तुएँ बेच देता था। सभी कुछ न कुछ खरीदते थे। सभी दिशाओं में (सामानों का) फैलाव था। रूपवती, यौवन और चद्र वन्याइयों सैकड़ों सखियों के साथ गलियों को मडित करती बैठी थीं। संभाषण का कोई न कोई बहाना करके लोग उनसे बातचीत (कइनी) अवश्य करते थे। सुख-पूर्वक, क्रय-विक्रय होता था। दृष्टि-कुतूहल का लाभ ऊपर से मिल जाता था।

सबकी सीधी ( दोषरहित ) आखें इन तरुणियों को वक्र मालूम होतीं । चोरी-चोरी प्रेम करने वाली प्रेयसियों अपने दोष से ही सशंक रहती हैं । १२०।

रड्डा—बहुत से ब्राह्मण, कायस्थ, राजपूत आदि जातियों के लोग मिले-जुले बैठे हुये थे, सभी सज्जन, सभी धनवान । उस नगर का राजा नगर भर में श्रेष्ठ था, जो सब घरों की देहली पर आनन्दित नारियों दिखाई देती हैं मानों उस राजा के मुख मडल को देखकर घर-घर चन्द्रमा उदित हुआ हो । १२५।

गद्य—एक हाट के आरम्भ से दूसरी हाट के अन्त तक । राजमार्ग के पास से चलने पर अनेक वेश्याओं के निवास दिखलाई पड़ते थे, जिनके निर्माण में विश्वकर्मा को भी बड़ा परिश्रम करना पड़ा होगा । और भी विचित्रता क्या कहें । उनके केश को धूपित करने वाले अग्ररु के धुयें की रेखा ध्रुवतारा से भी ऊपर जाती है, कोई कोई यह भी शका करते कि उनके काजर से चाँद कलंकित लगता है । उनकी लज्जा कृतिम होती, तारुण्य भ्रमपूर्ण । धन के लिये प्रेम करतीं, लोभ से विनय और सौभाग्य की कामना करतीं । बिना स्वामी के ही सिन्दूर डालती, इनका परिचय कितना अपवित्र है । जहाँ गुणी लोगो को कुछ प्राप्त नहीं होता, वेश्यागामी भुजगो को गौरव मिलता है, वेश्या के मंदिर में निश्चय ही धूर्त लोगो के रूप में काम निवास करता है । १३५।

गद्य—वे वेश्यायें सुख-पूर्वक मंडन करती हैं, अलकों को सजातीं, तिलक और पत्रावली के खड लगातीं, दिव्य वस्त्र धारण करतीं, खोल-खोल कर केशपाश बाँधतीं, सस्त्रियों से छेड़खानी करतीं, हँसते हुए एक दूसरे की देखतीं, तब उन सयानी, लावण्यमयी, पतली, पात्रोदरी, तरुणी, चंचला, बनी ( वनिता ) विचक्षण ( चतुरा ) परिहास प्रगल्भा, सुन्दरी नायिकाओं को देखकर इच्छा होती है कि तीसरे पुरुषार्थ ( काम ) के लिए अन्य तीनों छोड़ दिये जायें । १४०। उनके केश में फूल गुंथे होते । ऐसा लगता मानों मानजनित लज्जा के कारण झुके हुए मुखचन्द्र की चन्द्रिका की अधोगति देखकर अन्धकार हँस रहा है । नेत्रों के संचार से भौहें तिर्थक हो जातीं मानो कज्जल-जला सरिता की लहरों में बड़ी-बड़ी मछलियों ( हो ) सिन्दूर की अतिसूक्ष्म रेखा पाप ( वेश्या जीवन ) की निन्दा करती थी । यह रेखा मानो कामदेव के प्रताप का प्रथम चिन्ह है । दोषहीन, क्षीण कटि वाली, मानो रसिकों ने जूआ में जीत कर प्राप्त किया है । पयोवर के भार से भागना चाहती है नेत्र के तीसरे ( श्याम, श्वेत, रक्त ) भाग से वह संसार को अनुशासित करती है । सस्वर वाजे बजते हैं ,

यह सब राजों को शोभा देने योग्य है। कोई ऐसा भी आशा करता है कि किसी तरह ओचल की हवा लग जाती। उनकी तिर्यक कटाक्ष छटा कामदेव की वाण-पक्ति की तरह सभी नागरों के मन में गड़ जाती। बैल कह कर गँवारों को छोड़ देती। १५१।

दोहा—सभी नारियाँ चतुरा थीं। सभी लोग सम्मन्न थे। श्री इब्राहीम-शाह के गुणों के कारण किसी को शोक था न चिन्ता।

यह सब कुछ देखकर आखों को सुख मिलता। सर्वत्र सुस्थान और सुभोजन प्राप्त होता। एक क्षण ध्यान देकर, हे विचक्षण, सुनो। अब मैं तुकों का लक्षण बोलता हूँ।

भुजगप्रपात—इसके बाद वे दोनों कुमार बाजार में प्रविष्ट हुए जहाँ लाखों घोड़े और हजारों हाथी थे। कहीं बहुत से गन्दे लोग, कहीं वादा-बन्दे। कहीं किसी हिन्दू को दूर से ही निकाल देते थे। कहीं तश्तरी कूजे तवेल्ले (अस्तवल) फैले थे, कहीं तीर-कमान के दूकानदार थे। सड़कों के दोनों वाजू सराफों से भरे हुए थे। कहीं हल्दी, लशुन और प्याज तौल रहे थे। बहुत से गुलाम (भृत्य) खरीद रहे थे। तुकों में बराबर सलाम बन्दगी हो रही थी। कहीं बटुये (इस्ताने) पैजार (जूते) मोज़ा आदि क्रय हो रहे थे, भीर, वली, धालार रब्बाज़ घूमते थे। अबे-बे कहते हुए शराब पीते थे। कोई कलमा कहते, कोई कलीमा पढ़ते, कोई कसीदे काढ़ते, कोई मसीद भरते, कोई किताब (धार्मिक) पढ़ते, इस तरह अनन्त तुक दिखाई पड़ते थे। १७३।

हपद—तुर्क अति आग्रह से खुदा का स्मरण करके भांग का गुंडा खा जाता है, बिना कारण के क्रुद्ध हो जाता है उस समय उसका बदन तप्त ताम्र-कुण्ड की तरह दिखाई पड़ता है। तुर्क घोड़े पर चढ़ कर चला, वह बाजार में घूम घूम कर गोस्त (हेड) मांगता है। क्रुद्ध होने पर तिरछी दृष्टि से देख कर दौड़ता है तब उसकी दाढ़ी से शूक बहने लगता है। सर्वस्व शराब में बर्बाद करके गरम कबाब-दरम खाता है। पीछे पीछे प्यादा लेकर घूमता रहता है। उसकी वेवकूफी के तरीके पर और क्या कहें। १७६।

यवन भांग खाकर और मांगता है। खान क्रुद्ध होता है। ममिण सालण चिल्लाता रहता है जैसे दौड़ कर प्राण चीर कर रख देगा। पहला ग्रास खाता है और वह जब मेह के भीतर जाता है तो एक क्षण चुप रहता फिर तुरन्त गाली देता है या पहला ग्रास खाने के बाद मुंह में गडुवे से पानी गार (डाल) देता

है। तीर उठाकर उस ओर देखता है। मुकद्दम ( मुलिया ) बाहें पकड़ कर उसे बिठाता है। चाहे कपूर के समान भोजन लाकर रखा जाय, वह प्याज ही चिल्लाता है। १८५।

गीत गाने में श्रेष्ठ जाखरी (नट्टिनी) मस्त होकर 'मतरुफ' (प्रशस्ति) गाती है, तुर्किनी चरख (चक्कर देकर) नाच नाचती है और कुछ किसा को अच्छा भी नहीं लगता। सय्यद, स्वैरिणी ( कुचरित्र ), वली ( फकीर ) सब एक दूसरे का जूठ खाते हैं। दरवेश ( साधु ) दुश्मा ( आशीर्वाद ) देता है किन्तु ज्ञान भिन्ना नहीं पाता तब गाली देकर चला जाता है। मखदूम (मालिक ?) दशों तरफ़ डोम, की तरह हाथ फैलाता है। खुन्दकारी ( काजी ) का हुक्म क्या कहें ? अपनी भी औरत पराई हो जाती है। हिन्दू और तुर्कों के साथ-साथ रहने से, एक से दूसरे धर्म का उपहास होता है। कहीं वाँग ( अज्ञान ) होती है, कहीं वेद पाठ हो रहा है। कहीं विसमिल्लाह ( श्रीगणेश ) होता है। कहीं छेद ( कर्णभेद )। कहीं ओम्ना, कहीं ख्वाजा ( ऊँचा फकीर ) कहीं नद्दत्र ( व्रत, उपवास ) कहीं रोजा। कहीं ताम्रपात्र ( आचमनी ) कहीं कूजा ( प्याला या मिट्टी का वर्तन ) कहीं नमाज कहीं पूजा। कहीं तुर्क बलपूर्वक राह चलतो को बेगार करने के लिए पकड़ लाता है। ब्राह्मण वटुक को पकड़ कर लाता है और उसके माथे पर गाय का 'शुरुआ' रख देता है। तिलक पोछ कर जनेऊ तोड़ देता है। ऊपर घोड़ा चढ़ाना चाहता है। धोये हुए उरिधान ( नीवार ) से मदिरा बनाता है। देव-कुल ( मदिर ) तोड़कर मस्जिद बनाते हैं। गोर ( कन्न ) और गोमर ( बसाइयों ) से पृथ्वी भर गई है। पैर रखने की भी जगह नहीं। हिन्दू कह कर दूर से ही निकाल देते हैं, छोटे तुर्क भी भभकी ( बन्दर घुड़की ) दिखाते हैं। २११।

दोहा—तुर्कों को देखकर ऐसा लगता था जैसे ये हिन्दुओं को पूरा का पूरा निगल लेगे। सुल्तान के प्रताप में ऐसा भी होता था, फिर भी सुल्तान चिरंजीवी रहें। हाट-हाट में घूमते हुए दोनों राजकुमारों ने दृष्टि के कौतूहल के कारण तथा प्रयोजन से दर्बार में प्रवेश किया। २१५। ✓

पद्मावती छन्द—लोगों की भीड़ से, बहुत से लोगों के घूमने से आकाश मण्डल भर गया। तुर्क, खान, मलिक आ रहे हैं। उनके पैरों के भार से पत्थर चूर्ण हो जाते थे। दूर-दूर से आये हुए राजा लोग दौड़कर द्वार पर चलते थे। फिर छाया में बैठने के लिए बाहर आ जाते थे। गुलामों की तो कोई गिनती ही नहीं। आये हुये राजे सैयदों के घरों के पास निराश खड़े रहते। दरबार में बैठे दिवस बीत जाते, पर सालों दर्शन न हो पाते। उत्तम परिवार के उमरा दर्बार कं

मजे से ( अच्छी तरह ) जानते हैं ( या दरवार के मजे जानते हैं ) सुल्तान को सलाम करते समय इनाम पाते, अपने से आते जाते। सागर और पर्वत के पार से, दीप—दीपान्तर से जिसके दर्शन के निमित्त आये थे, उसी के द्वार पर राज-पुत्र, राणा आदि इकट्ठे खड़े थे। यहाँ पर खड़े होकर गिनते हुए और शाह की विरुद्ध का उच्चारण करते हुए मनुष्यों की क्या गणना थी ? तैलंग, बंगाली, चोल और कर्लिंग देशीय राजपुत्रों से शोभा बढ़ रही थी। वे अपनी अपनी भाषाये बोलते, भय से कपित रहते और ( जय बीर जय पंडित कहते ? ) सुन्दर-सुन्दर राजकुमार इधर उधर बहुत देर तक चलते रहते। संग्राम में भय मानों गन्धर्व हों। वे अपने रूप से सबका मन मोह लेते। २३१।

छापद—वह दरवार खाम सम्पूर्ण पृथ्वी मण्डल के ऊपर था। वहाँ रंक भी अपना व्यवहार ( हक ) राजाओं को दबाकर पाता था। वहाँ शत्रु मित्र सभी का सिर झुकता था वहाँ कल्याण और प्रसाद था, वहाँ संसार का भय भग जाता था। वहाँ जाने पर हर कोई अपने भाग्य अभाग्य के भेद को जान लेता था। यह बादशाह सम्पूर्ण समार से ऊपर था, उसके ऊपर केवल भगवान ही थे। २३७।

गद्य—अहो अहो आश्चर्य। उस घेरे ( corridor ) के अन्दर दीगल और दरवान की जगह है, दरबार के बीच में सदर दरवाजा, दरगाह, कचहरी, नमाज-गृह, भोजन-गृह और शयन-गृह के विचित्र चमत्कार देखते हुए सभी कहते कि बहुत अच्छा है। जैसे आजतक विश्वकर्मा इसी कार्य में लगे रहे। इन प्रासादों के ब्रजमणि से बने हुए सुनहले कलश सुशोभित हो रहे थे। जिनके ऊपर सूर्य के रथ को वहन करने वाले अठाइसो घोड़ों की टापें बजती थी। प्रमदवन, पुष्पवाटिका, कृत्रिमनदी, क्रीड़ा शैल, धारागृह, यत्रव्यजन, शृंगार संकेत, माधवी-मंडप, विश्राम-चौरा चित्रशाली खट्वा, हिंडोल-कुसुम-शय्या, प्रदीप माणिक्य, चन्द्रकान्त शिला और चौकोर तालाब का हाल सयानों से पूछते, वैसे भीतर की बात कौन जानता था। इस तरह घेरे से दूर आकर, सुहूर्त भर विश्राम करके, शिष्टजनों तथा भृत्यों का सम्मान करके, गुण से सब लोगों को प्रसन्न करके महल के रहस्यो को जान लिया।

दोहा—गुणी और चतुर लोगों से पूछा, फिर आशा पल्लवित हुई उस दिन सार्यकाल के पहले, एक ब्राह्मण के घर पर निवास किया। २५३।

श्लोक—( सन्ध्या समय ) कष्ट प्राप्त, विपत्तियों की स्त्रियों के मलिन मुख की आभा वाले कमलो को ( फिर से मुकुलित करके ) बढ़ हाथों से उन्हें अतिपूर्वक सूर्य को अर्पित करके तथा द्वार पर आये हुये अकृतार्थ ब्राह्मणों को

बड़ी-बड़ी भिन्नार्थों देकर, सन्ध्या को असन्ध्या करते हुये राजा कीर्तिसिंह पृथ्वी की चिर-काल तक रक्षा करें ।

विद्यापति ठाकुर कृत कीर्तिलता का दूसरा पल्लव समाप्त हुआ ।

### तीसरा पल्लव

भृ गी फिर पूछती है ।

हे कान्त, तुम्हारे कहने से कर्ण मे अमृतरस प्रविष्ट हुआ । इसलिए हे विचक्षण, फिर कहो, अगला वृत्तान्त शुरू करो ।

रड्डा—रात बीती, प्रत्यूष हुआ । सूर्य ने अन्धकार का नाश किया । कमलवन विहँस पड़े । नींद ने नेत्र छोड़े । राजा ने उठकर मुँह धोया । फिर जाकर वज्र की आराधना की और अपना सब कार्य कह सुनाया । जब प्रभु बहुत प्रसन्न हों तभी राज्य स्थापित हो सकता है । तभी मैत्रियों ने प्रस्ताव किया । बादशाह के दर्शन हुए । शुभ मुहूर्त मे सुखपूर्वक राजा से भेंट हुई । घोड़े और वस्त्र भेंट की । हृदय का दुःख और विरक्ति मिटी । खुदावन्द प्रसन्न हुए । कुशल की वार्ता पृच्छी । बार बार प्रणाम करके कीर्ति सिंह ने बात कही । आज उत्सव ( खुशी का दिन ) आज कल्याण । आज वह शुभ दिन और मुहूर्त आया । आज मेरी माँ का पुत्रत्व सफल हुआ । आज पुण्य और पुरुपार्थ ( उदित हुए ) कि बादशाह के चरणों के दर्शन हुए । किन्तु, दो के लिए अकुशल की बातें हैं, पहला तो तुम्हारा प्रताप ( नीचे पड़ा ) अश्रेष्ठ हुआ, दूसरे मेरे पिता गणेश्वर राय स्वर्ग गए ।

बादशाह ने पूछा किसने तिरहुत लिया ?

जो आपके डर से बात बनाकर कहानी कहता है, वही असलान । पहले तो आपके फरमान की अवहेलना की, फिर गणेश्वर राजा का वध किया । उसी शेर ने बिहार पर कब्जा किया है । उसके चलने से चामर डोलते हैं । शिर पर छत्र रखकर वह तिरहुत से कर उगाहता है । इस पर भी आपको यदि रोष न हो कि असलान राज्य कर रहा है तो तुरन्त अपने अभिमान का तिलाञ्जलि दान कर दीजिए । दो राजाओं की एक पृथ्वी और दो पुरुषों की एक नारी, दोनो का भार नहीं सह सकतीं, अवश्य युद्ध कराती हैं । २८।

रड्डा—भुवन में आपका प्रताप जाग्रत है । आपने खग से शत्रु का दलन किया । आपकी सेवा करने सभी राजे आते हैं । आपने दान से पृथ्वी भर दिया, आपकी कीर्ति सब लोग गाते हैं । यदि आपही शत्रु के नाम से असहना ( रुष्ट )

न होंगे तो दूसरे बेचारे क्या कर सकते हैं। आप तो वीरत्व के स्थान हैं। यह सुनकर सुलतान को क्रोध हुआ। दोनों भुजायें रोमांचित हो उठीं। दोनों भौहो में गाठें पड़ गईं। अधर-विम्ब प्रस्फुटित हुए। नयनों ने रक्त कमल की शोभा धारण की। खान, उमरा, सबको उसी क्षण आज्ञा हुई अपनी अपनी तैयारी पूरी करो, आज तिरहुत पयान होगा। ३८।

छपद—सुलतान गरम हुए। दरबार में शोर मच गया। लोग बाग चल पड़े, पद भार से पृथ्वी घँसने लगी, संसार जलने लगा, सबके मन में सर्वत्र शंका फैल गई। बड़ी दूर है, बड़ा कोलाहल ? जैसे आज ही लका उजड़ गई हो। दीवान, अवदगर (सजा देने वाला) गद्दवर ? तथा कोरबेग (अख्तरशाहो के निशाने के अधिकारी) सब अरब के साथ बैठे हुए थे जैसे हुकूम मिलते ही असलान को पकड़कर ला देंगे।

रड्डा—वे दोनों भाई बहुत आनन्दित हुए। राजश्रेष्ठ कीर्ति सिंह बादशाह की कृपा (प्रसाद) लेकर बाहर आए। इसी बीच सुलतान की कुछ विचित्र बात सुन पड़ी। पूर्व के लिए सेना सजी थी, किन्तु पश्चिम को प्रयाण हुआ। करने कुछ गए थे, और हुआ कुछ और। विधि के चरित्र को कौन जानता है ? ३९।

उस समय राजा कीर्तिसिंह सोचने लगे, सब मे मेरी लाज हुई। फिर भी परिश्रम से सिद्ध मिलेगी, समय पर काम पूरा होगा। ४०।

गद्य—उस समय राजाओं के चिन्तावनत मुख को देखकर युवराज श्रीमद्वीर सिंह का मन्त्री बोला, गुणियों को इस तरह के उपताप की परवा नहीं करनी चाहिए।

रड्डा—दुःख से राजाओं के घर के कार्य सिद्ध होते हैं, इसलिए उद्वेग नहीं करना चाहिए। सुहृद-जनों से पूछकर शंका मिटानी चाहिए। फल तो देवायत्त है, पुरुष का कार्य साहस करना है वही करिए। यदि साहस करने से भी सिद्धि न मिले तो भँखने (चिन्ता) से क्या होता है। जो होना है होगा, पर, वीर-पुरुष के लिए एक उत्साह (रह जाता) है। वह राजा (बादशाह) विचक्षण है, तुम भी गुणवान हो, वह धर्म-परायण है, तुम शुद्ध हो। वह दयावान है, तुम राज-खण्डित हो, वह विजयेच्छु है तुम शूर-वीर हो, वह राजा है तुम राज-प्रदित (ब्राह्मण्य) हो, वह पृथ्वीपति सुलतान है और तुम राजकुमार, यदि एक अचिन्त से सेवा की जायेगी तो कोई न कोई उपाय अवश्य ही निकलेगा।

दोहा—इसके बाद शोर हुआ। सेना की संख्या कौन जाने। ज्यों ही सुलतान का तख्त चला पृथ्वी नलिन-पत्र की तरह कंपित हुई। ६६।

निशिपाल-छन्द—सुलतान इब्राहिम का तख्त चला। धरणि ने कूर्म से कहा, हे कूर्म सुन, मुझमें अब धारण का बल नहीं है। पर्वत चलाय-मान हुए, पृथ्वी गिरने (धँसने) लगी। शेष-नाग का हृदय काँप उठा। सूर्य का रथ अकाश-मार्ग में धूल से छिप गया। सैंकड़ों नगाड़े बज उठे, कितनी ही मेरियो से फू-फू की ध्वनि हुई। प्रलय के बादल गर्जने लगे, इसमें युद्ध का शोर छिप गया। किस प्रकार तुर्क हर्ष से हँसते हुए घोड़ों को गिरा देते थे। मानघनी वीर करवाल से मारकर, काटकर, कट जाते थे। जिस समय घोड़े चले, हाथी गिरने लगे, पदातिक भूमि पर बिछ गए, शत्रुओं के घरों में भय उत्पन्न हो जाता और उन्हें चिन्ता के मारे नींद नहीं आती। खग लेकर, गर्व करके, जब तुर्क युद्ध करने लगता, तो सम्पूर्ण सुर-नगर भय के मारे मूर्च्छित हो जाता। पदातिक-सेना ने पैरों से ही सुखाकर जल को थल कर दिया। वह जानकर सम्पूर्ण ससार को आश्चर्य हुआ। किसी ने शत्रुओं को बाँधकर सुलतान के पैरों में गिरा दिया। फिर, किसी ने झुकाकर उन्हें उठाकर खड़ा कर दिया। चतुर्दिश द्वीप दिगन्तर में बादशाह दिग्विजय करते हुए घूमता रहा। वे दुर्गम स्थानों का अवगाहन करते, कर उगाहते। दोनों राजकुमार भी उसके साथ थे। ६७।

छपद—विदेश पर अधिकार किया। भारी भारी पहाड़ों और नगरों को जला दिया। सागर की सीमा पार की, पार जाकर पार के लोगों को मारा। सब जगह शत्रुओं को दंड तेते थे। घोड़े लेकर रास्तों पर दौड़ते थे। एक स्थान पर उतरते थे और दस स्थानों पर धावा मारते थे। इब्राहिम शाह के युद्ध-प्रभाव को पृथ्वी का कौन नरेश सह सकता है। पर्वत और समुद्र लॉघने पर भी उबार होना कठिन था, केवल प्रजा बनने पर ही प्राण बच सकता था। ६८।

वालि छन्द—प्रजा बनकर जहाँ चाहे जाइये। एक भी शठ आपको छू नहीं सकता। छोटे से कार्य के लिए भी बड़ी सहायता, (आफत ?) चटपट सेना आ पहुँचती। चोर नायक के हाथो घुमाया जाता था, वह दूसरे के माथे की दुहाई (आपके सर की कसम) कहता था। सेर भर पानी खरीद कर लाइए, पीते समय कपड़े से छानिए। पान के लिए सोने का टंक दीजिए। इन्धन चन्दन के भाव विकता। बहुत कौड़ी (पैसा) देने पर थोड़ा कनिक (अन्न) मिलता। घी के लिए



घोड़ा बेचना पड़ता । कड़वा का तेल शरीर में लगाइए, बादी तो दूर, दासों तक को छिपाकर रखिए । १०४ ।

रड्डा—इस तरह ( दोनो भाई ) द्वीप दिगन्तर में धूमते रहे । युद्ध में साहस का कार्य किया । ब्रह्म से स्थानो पर केवल फूल-फल खाया । तुकों के साथ चलते समय बड़े कष्ट से अपने आचार की रक्षा की । राह के लिए पाथेय नहीं, शरीर कृश हो गया, वस्त्र पुराने हो गए । यवन स्वभाव से ही निष्करुण होते हैं । सुलतान ने स्मरण भी नहीं किया । १०६ ।

धन के बिना कोई भी काम संभव नहीं । विदेश में ऋण भी नहीं मिलता । मानधनी को भीख माँगना भी पसन्द नहीं, राजा घर में जन्म हुआ, दीन-वचन मुख से निकल नहीं सकता, स्वामी की सेवा निःशंक होकर करते रहे; पर देव आशा पूरी नहीं करता । अरह, महान पुरुष क्या करें, गर्डों में या गिन गिन कर उपवास करने लगे । ११४ ।

प्रिय की चिन्ता नहीं, धन नहीं, मित्र नहीं, जो भोजन दे, भूख से भागकर भृत्यों ने साथ छोड़ दिए । घोड़ों को घास नहीं मिलती, दिन दिन दुःख बढ़ता ही जाता है, फिर भी, एक श्री केशव कायस्थ और सोमेश्वर के साथ नहीं छोड़ा । दुरवस्था सहकर बने रहे । ११६ ।

वही वरिष्क चतुर है जो धर्म का व्यवसाय करता है ! भृत्य और मित्र रूपी कंचन के लिए विपत्तिकाल ही कसौटी है ।

गद्य—परम कष्ट की उस अवस्था में भी दो भाइयों के समाज में चित्त में धारण की हुई लज्जा और आचार की रक्षा, गुणों की परीक्षा, हरिश्चन्द्र की कथा, नल की बात, रामचन्द्र की रीति, दान-प्रीति, पाणि-ग्रहण का निर्वाह, साहस उत्साह, अकरणीय के करने में बाधा, वलि, कर्ण, दधीचि से स्वर्था होती थी । १२६ ।

दोहा—उस समय राजा कीर्तिसिंह एक ही बात सोचते थे, हम लोगों का इतना दुःख सुनकर मेरी माता कैसे जीयेगी । यद्यपि वहाँ पर चतुर विचक्षण मंत्री हैं जो तिरहुत के लिए स्तम्भ स्वरूप है, जिसके साथ मेरी माँ ने मेरा हाथ बाँध दिया है !

छन्द—वहाँ मंत्री आनन्द खान है, जो सन्धि और विग्रह-भेद जानते हैं । सुपवित्र मित्र श्री हंसराज हैं जो अपना सर्वस्व हम लोगों के लिए उपेक्षित करले हैं । हमारे सहोदर रामसिंह हैं जो संग्राम में रुष्ट सिंह की तरह पराक्रमी हैं । गुणश्रेष्ठ मंत्री गोविन्द दत्त हैं जिनके वश की कितनी बड़ाई करूँ । शंकर

के भक्त हरदत्त हैं जो संग्राम-कर्म में अर्जुन के समान हैं। हरिहर घर्माधिकारी हैं जिसके प्रण से तीनों लोक में चारों पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं। नीति मार्ग में चतुर मरेश ओम्हा हैं जिनको प्रणाम करने से निश्चय ही क्लेश दूर होता है। रावत न्यायसिंह सुजान भी हैं जो संग्राम में अर्जुन के समान पराक्रमी हैं।

इन लोगों के प्रबोधन से निश्चय ही मेरी माँ शोक न करेगी। उसके घर विपत्ति नहीं आती जिससे लोग अनुराग रखते हैं। सुल्तान पर जोर देकर कहूँ कि चट कोई उपाय करें। बिना कहे ही यदि मन में बात आती तो अब तक यह क्यों सहते रहते। १५०।

रड्डा—जिन्होंने संग्राम में साहस करके घावा मारा, जिन्होंने अग्नि में धँसकर सिंह के केश को पकड़ा, जिन्होंने सर्पफण को पकड़ लिया, जिन्होंने क्रुद्ध यमराज का सामना किया, उन दोनों भाइयों को सुलतान ने देखा। जब तक मान नहीं होता जीवन में नेह नहीं रहता। अच्छा समय फिर लौटा। विधि प्रसन्न हुए। फिर दुःख दारिद्र्य खण्डित हुए। साहस कर्म फलित हुए। फरमान जारी हुआ। पृथ्वी पर उसके लिए अशक्य क्या है, जिस पर सुलतान प्रसन्न हों।

प्रभु यदि अपने पक्ष का पालन न करें, राजा अग की रक्षा न करे, सज्जन सत्य न बोलें, तो फिर धर्म मति कहाँ जाए। १६२।

श्लोक—राजा कीर्तिसिंह की जय ह। जिन्होंने बल से संग्राम में शत्रुओं के दर्प को नष्ट किया। उनका अमित यश कुमुद, कुन्द और चन्द्रमा की तरह उज्ज्वल है, उनकी श्री तुरंग रूपी रंगस्थल पर दो चामरों से अलंकृत है, जिनके सभी साहस-कार्य सफल हुए।

ठाकुर विद्यापति की कीर्तिलता का तीसरा पल्लव समाप्त।

### चतुर्थ पल्लव

भृङ्गी फिर पूछती है।

कहो कान्त कहो, सच कहो, सेना किस प्रकार चली। कैसे तिरहुत पवित्र हुई और असलान ने क्या किया। १।

प्रेयसि मैं कीर्तिसिंह के गुण कहता हूँ, कान लगाकर सुनो। उन्होंने बिना जन, बिना धन, और बिना किसी कठिनार्थ के सुलतान को चला दिया। ५। दोनों कुमार श्रेष्ठ हैं, मलिक असलान भी श्रेष्ठ है जिनके लिए सुलतान चले आए।

गद्य—सुल्तान के फरमान से सारी राह में शोर मच गया। लक्षावधि

पैदल सेना के शब्द बज उठे । शत्रु का अन्तिम समय आ पहुँचा । सेना में बाजे बजने लगे । हाथी घोड़ों और पदातिकों की भीड़ हुई ।

साजो, साजो का शोर हुआ ।

मनोहर राजा ने सेना को तिरहुति की ओर चलाया । पहले हाथी तैयार हुए, फिर घोड़े सजने लगे । पैदल सेना के चक्र कौन गिने । चतुरगिणी सेना चली ।

मधुभार छन्द—मदमत्त हाथी निरन्तर चले जाते हैं । गच्छ ( वृक्ष ) तोड़ते हैं, एक तरफ भुके पड़ते हैं, चिग्घाड़ उठते हैं । घोड़ों को मारते हैं, संग्राम में तेग के समान भूमि पर स्थिति मेघ की तरह, लगता था अन्धकार के शिखर हैं । जो दिग्विजय के लिए छुटे हैं । जैसे गर्व सशरीर उपस्थित हों, देखने में भव्य । कान हिलाते थे । लगता था जैसे पर्वत खड़ा हो । २२।

गद्य—इनके भारी भारी मुण्ड हैं । दस गुने आदमियों के मुण्ड को मार कर क्या इन्हें विधाता ने विन्ध्याचल से निकाला है ? क्या अगस्त ऋषि की आज्ञा का अतिक्रमण कर पर्वत बढ़ आया । दौड़ता है, खोदता है, जान पड़ता है महावत के अंकुश से भी कठिनाई से मानता है । २६।

दोहा—पैदल सेना के पद भार से ( ध्वनि ) हुई । घोड़ों पर जिन कसी गईं थनवार ( स्थान-पाल ) की थपथपाहट से घोड़ों को रोमाच हो आया ।

गाराज—बहुत से ताजी घोड़े सजाकर लाए गए । पराक्रम में जिनका नाम संसार विदित था । विशाल कंधे, सुन्दर गठन, वे शक्तिस्वरूप और शोभन थे । तड़प कर हाथी को लाँघ जाते । शत्रु सेना को क्षुब्ध कर देते । सामर्थ्य वाले, वीर, शक्ति से भरे हुए, वे चारों पैरों से चक्कर काटते थे । संग्राम में स्वामी के कार्य के लिए वे युद्ध के अनन्त रहस्यों को जानते थे । अच्छी नस्ल के, शुद्ध ( दोष हीन ) क्रोध से क्रुद्ध, गर्दन तोड़ मोड़कर दौड़ते थे । शुद्ध दर्प से टाप मारने थे । जिससे बसुन्धरा चूर-चूर हो जाती थी । शत्रुओं को देखकर वे बंधन में होने पर भी हिनहिनाते थे । निशान के शब्द, मेरी के साथ सुनकर वे सूझ से पृथ्वी खोदने लगते । तर्जन से भीत, बायु को जीतने वाले, चामर से मडित चित्रविचित्र नाच-करते थे, और राग वाग के पंडित ( जानकार ) थे ।

और भी चुने हुए तेजी ताजी घोड़े, जिन से सजाकर, लाखों की (सख्या) में लाए गए, जिनके मूल्य के सामने मेरु (स्वर्ण-गिरि) भी कम हो जाए । ४४।

गद्य—बाँके बाँके मुँह, चंचल (काच की तरह चमकदार) आँखें, पुष्ट गठन, तीक्ष्ण कंधा । जिनकी पीठ पर अहकार चढ़कर पुकारने लगता ।

पर्वत को भी लाँघकर उस पार के शत्रु को मारते। शत्रु की पूरी सेना रूपी कीर्ति-कल्लोलिनी को लाँघकर पार हुए, उसी के जल-सम्पर्क से चारों पाँव श्वेत हैं (धुले हैं)। मुरली मनोरी, कुण्डली, मण्डली प्रभृति नाना गतियों को दिखाते हुए ऐसा भासित होता जैसे इनके चरणों में पवन देवता निवास करते हैं। मुँह पर पद्म के आकार का वस्त्र झूलता था जैसे स्वामी के यशश्चन्दन का तिलक इनके ललाट पर लगा हो। ५२।

छपद—वे घोड़े, तरवार की तरह तेजवन्त, तरुण, क्रोध से भरे हुए थे। सिन्धु नदी के पार उत्पन्न हुए, मानो सूर्य के रथ से छुड़ा लाए गए हों। गमन में पवन को भी पीछे कर दें, वेग में मन को भी जीत जायें। दौड़ धूप करके (शत्रुओं के बीच) घँस जाते थे, जैसे वज्र भूमि पाकर गर्जन करता है। संग्राम भूमि पर सचरण करते और शत्रुओं को नाना नाच नचाते। शत्रुराजों की लक्ष्मी छोड़ (छीन) लेते, असवार की अशा पूरी करते।

रड्डा - तब घोड़े पर चढ़कर सुलतान चले। ध्वज, चामर विस्तृत (फैले) हुए। उनका घोड़ा कितना में चुनकर आया था। जिसके श्रेष्ठ पौरुष को देश विदेश के राजघराने जानते थे। इसके बाद दोनों भाइयों ने भी घोड़े लिए। सब लोग पास आकर उन घोड़ों की प्रशंसा करते। शत्रु उन्हें दूर से ही देखकर भाग जाते।

छपद—तेज़ी तान्नी जाति के वे घोड़े चारों दिशाओं में शीघ्रता से छूटे। तरुण तुर्क असवारों के चाबुक बाँस फूटने की तरह आवाज़ करते। मोजे से मोजा जोर कर तीर भरकर तर्कश बाँध लेते। सींगिनि में बारूद भरते, गुरुदर्प और गर्व के साथ। अनवरत सेना चली। उसकी गणना कौन कर सकता है। पदभार से कोल (महानाराह) भ्रमित हुए। कूर्म उलट करके करवट बदलने लगा। ६६।

अरझि—करोड़ों धनुर्धर पैदल दौड़ रहे थे। लाखों की संख्या में ढालवाहक चलते। खग लिए हुए सैनिक एक ओर से चले। खंग की धार से चमक होती। मतवाले मंगोल बोल नहीं समझते। खुन्दकार (स्वामी) के लिए रख में जूझ जाते। कभी कच्चे मांस का भोजन करते। मदिरा से आँखें लाल हो जाती। आधे दिन में बीस योजन दौड़ जाते, बगल में रखी रोटी पर दिन काट देते। बलक से काटकर कमान को ठीक कर लेते। पहाड़ पर भी घोड़े से दौड़ते रहते। गाय और ब्राह्मण की हत्या में कोई दोष नहीं मानते। शत्रु नगर की नारियो को वन्द (वन्दी) करके ले आते। जैसे हर्ष से कन्नध (कटी लाश)

हँस पड़े वैसे ही तरुण तुर्क सहसा बातचीत में हँस देता। और न जाने कितने जंगली सेना में जाते दिखाई पड़ते, गोरू मारकर विसमिल्ला करके खा जाते। ८७।

दोहा—उस बड़ी सेना में न जाने कितने धाँगडू (जगली) थे जो जिस दिशा में धावा (धाड़) मारते उस दिशा में राजाओं के घर की औरते बाज़ार में बिकने लगतीं।

माणवहला छन्द—एक ही शवर कितनों के ऊपर होता। सिर उसका चिथड़े-कुथड़े से ढका रहता। दूर दुर्गम जाकर आग से (गाँव-नगर) जलाते थे। औरतों को छोड़कर (व्याहते) बच्चों को मारते थे। लूट से उनका अर्जन होता, पेट में व्यय। अन्याय से वृद्धि होती युद्ध से क्षय। न तो गरीब के प्रति दया दिखाते न शक्तिमान से भय। न तो उनके पास रास्ते के लिये कोई सम्बल था न तो उनके घर कोई व्याहता थी। न तो पाप का दुष्फल, न तो कोई पुण्य का कार्य; न तो शत्रु की शका, न तो मित्र की लज्जा। उनके पचन स्थिर (संयमित) नहीं सज्जन का साथ नहीं। किसी प्रिय से प्रेम नहीं, युद्ध से भागते भी नहीं। इस तरह की सेना मे ऐसे बहुत से लोग चले जा रहे थे जिनका भोजन भक्षण कभी न रुकता और वे चलने में थकते भी नहीं। १०५।

उसके पीछे हिन्दुओं की सेना आ रही थी। राजा लोगों की कोई गिनती न थी, राउतों की बात ही क्या ?

पुमानरी छन्द—दिगन्तर के राजे जो सेवा करने आये थे, वे फौज के साथ चल रहे थे। अपने धन के गर्व और युद्ध-कौशल के कारण वे पृथ्वी में समाते न थे। बहुत से राजपूतों के चलने के पद भार से मेदनी काँप रही थी। योजन पर्यन्त दौड़ते जाते घोड़े नचाते, कर्कश आवाज में बातें करते। लाल, पीले, श्यामल, चँवर थे और उनके कानों में कुरडल हिल रहे थे। आते जाते पद परिवर्तन करने से लगता जैसे युग-परिवर्तन हो रहा है (प्रलय)। बहुत से नगाड़ों की आवाज के कारण कुछ सुनाई नहीं पड़ता, इशारों से बात करते थे। खच्चर, गदहों, लाखों बैलों और करोड़ों भैसों का क्या अन्त था। असवारों के चलने से, पद-प्रहार से, पृथ्वी छोटी होती जा रही थी। जो पीछे रह गए वे लड़खड़ा कर गिर गए, स्थान स्थान पर बैठते चलते थे। गोधन और कोई खाने वाली वस्तु नहीं मिलती, गुलाम भूखे हुए दौड़ रहे थे। तुर्कों की फौज के हौदों से चारों दिशाओं की पृथ्वी टँक गई। तुर्कों की फौजों को आगे करके आपस कलह करते हुए हिन्दू चलते थे।

छपद्—जिस समय सुलतान चले, उस समय का वर्णन कौन करे या उस समय की गणना कौन बताए। सूर्य ने अपना प्रकाश संवृत कर लिया। आठो दिग्पालों को कष्ट हुआ। धरणी पर धूल से अन्धकार छा गया। प्रेयसि ने प्रिय को देखना छोड़ दिया। इन्द्र और चन्द्र को चिन्ता हुई कि यह समय कैसे कटेगा। जंगल दुर्गा को दलने तहस नहस करके पद भार से पृथ्वी को खोद दिया। हरि और शकर का शरीर एक में मिल गया। ब्रह्मा का हृदय डर से डगडमा उठा।

भैसा क्रोध करके उठा और उसने दौड़कर अववार को मार दिया। हरिण ने हार कर गति छोड़ दी, पैदल भी उसे हाथ से पकड़ सकता था। खरगोश और मूखक तरस रहे थे कि पत्नी कितने अच्छे हैं कि आकाश में चले जाते हैं। किन्तु नीचे यदि ये पॉव से दलित हो जाते तो ऊपर उन्हें बाज खेद कर खा जाता। इब्राहिमशाह के प्रयाण के समय जिधर से सेना चलती सबको खनकर, खेदकर, खोदकर मार डालती। कोई जीव जन्तु नहीं बच पाता था। १३५।

गद्य—इस तरह दीप-दीपान्तर के राजाओं की निन्द्रा का हरण करते हुए, दलों को (सैन्यदलों को) चूर्ण करके चौपट करते हुए, पहाड़ों और गुफाओं को ढूढ़ते हुए, शिकार खेलते हुए, तीरन्दाजी करते हुए वन विहार और जल-क्रीड़ा करते हुए, मधुपान और रत्योत्सव की रीतियों का पालन करके राज्य सुलों का अनुभव करते हुए, शत्रु के दर्प को भंग करते हुए, रास्ता पार करके, तिरहुत में प्रविष्ट होकर, तल्ल पर बैठे। १४१।

दोहा—दोनों कथाओं को सुनकर उसी समय सुलतान ने फरमान दिया कि असलान काफी समर्थ है। उसे किस प्रकार गिरफ्तार किया जाय।

रड्डा—तब राजा कीर्तिसिंह बोले, स्वामी आप यह क्या कुमंत्रणा करने लगे। कैसे समय में आपने ये हीन बातें कहीं। क्यों शत्रु सेना की चिन्ता करते हैं? क्यों शत्रु की सामर्थ्य का बखान करते हैं? सभी लोगो के देखते मैं पीठ (घोड़े की) पर चढ़कर जाऊँगा और विजय की सूचना लाऊँगा। मैं उसके घोड़े की कतारों को पीछे ठेल दूँगा और उसे पकड़ लाऊँगा।

छपद्—आज वैर का बदला लूँगा, यदि शत्रु संग्राम में आ जाए। यदि उसके पद से इन्द्र भी अपना बल लेकर आए। यदि उसकी रक्षा के लिए विष्णु और ब्रह्मा के साथ शंकर ही तैयार क्यों न हो! शेषनाग की जाकर दुहाई दे, चाहे उसकी ओर होकर यमराज क्रुद्ध होकर आवे। इतना होने पर भी

असलान को मारूँ तब तो, मैं मैं हूँ। मैं उसके रक्त को लाकर चरखों पर रख दूँ, यदि इस अस्मान के समय वह जीव लेकर पीठ दिखाकर भाग न जाए।

दोहा—तब सबका सार (अन्तिम रूप से) यह फरमान हुआ कि कीर्तिसिंह की इच्छा को पूर्ण करने के लिए सेना को पार करो।

भोला छन्द—घोड़ों की सेना ने गण्डक के पानी को तैर कर पार किया। (इधर) शत्रु सैन्य को नष्ट करने वाले राजा कीर्तिसिंह और उधर महामत्त अभिमानी मलिक असलान। असलान ने कतारों में अपनी सेना तैयार की। भेरी, काहल, ढोल, नगाड़े, रण-तूर्य बज उठे। राजधानी के पूरब मध्याह्न-वेला में दोनों सेनाओं का सघर्ष हुआ। युद्ध भेरी बजने लगी। पद-प्रहार से पृथ्वी काँप उठी। गिरि शिखर टूटकर गिरने लगे। कवचों के फटने की आवाज कान में प्रलय-वृष्टि की तरह पड़ रही थी। वीर-हुंकार कर रहे थे, अंग में रोमाञ्च हो आता था। चारों ओर तलवारों की धार से चकमक चमक हो रही थी। फिर भी धुड़सवार शत्रुओं के झुण्ड में दौड़कर घुस जाते। मतवाले हाथी फलक-वाहियों के साथ पीछे हो जाते। सीगिनियों के टकार भार से आकाश-मंडल पूर्ण हो गया। पक्तिवद्ध सेनाएँ एक दूसरे के व्यूह को चूर-चूर कर देतीं। विक्रम-गुण से भरे वीरों का दर्प क्रोध से बढ़ने लगा।

चारों ओर पृथ्वी पर युद्ध हो रहा था। कोदण्ड खड होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते। उलट कर कवच पर तथा बाहों पर अपनी तलवारों से प्रहार करते थे। १७४।

विहर्माला छन्द—हुंकार करके वीर गरज रहे थे। पैदल चक्र-व्यूहों को तोड़ रहे थे। दौड़ते हुए तलवार की धार से टूट जाते थे। बाण से कवच फट जाते थे। राजपुत्र रोष से तलवारों से जूझ रहे थे। आरुण्ट वीर आ रहे थे, और इधर-उधर दौड़ रहे थे, एक एक से लड़ रहे थे, शत्रु की लक्ष्मी का नाश कर रहे थे। अपने नाम का गर्व करते थे और बेलक फेंककर शत्रु को मारते थे। अपार युद्ध को समझते थे, क्रुद्ध होकर वायों से युद्ध करने लगते थे। १८१।

छपद—दोनों ओर से सेनायें चलती थीं, बीच युद्धस्थल में भेंट हो जाती। खंग से खंग टकरा जाते। अग्नि के स्फुलिङ्ग फूट पड़ते थे। धुड़सवारों की तलवार की धार से राउत घोड़े के साथ कट जाता था। बेलक के वज्रप्रहार से आसिर कवच के साथ फूट जाता था। शत्रुओं के हाथियों का शरीर धायल हो गया। इधर की धार से अपने भर गया, कीर्तिसिंह के कार्य के लिए कीर्तिसिंह सेनापति करते हैं। १८७।

रड्डा—यह युद्ध धर्मराज देख रहे थे और सुलतान देख रहे थे। इन्द्र, चन्द्र, सुर, सिद्ध और चारणों से आकाश छा गया। इन वीरों का युद्ध देखने आए हुए विद्याधरों से नभ भर गया। जहाँ जहाँ शत्रुओं का सघन समूह दिखाई पड़ता वहीं-वही मार पड़ती मेदनी शोणित से मज्जित हो गई, कीर्तिसिंह ने ऐसा युद्ध किया।

भुजंगप्रात—कहीं खण्ड ( कवन्ध ) कहीं मुण्ड ( सिर ) पड़ा है। कहीं बाँह खड़ी है। सियार कंकाल-खण्ड को उकील रहे हैं। कटे हुए शरीर पृथ्वी पर धूल में लोट रहे हैं। लड़ते हुए, चलते हुए पैरों को फँसा लेते हैं। अंतड़ियों के जाल में आबद्ध गिद्ध उलभते हैं। फिर चर्वी में शीघ्रता से झूबकर उड़ जाते हैं। प्रेत गाता हुआ, रक्त पीता हुआ, आनन्द से घूमता हुआ, महा-मास खण्ड को भर रहा था ( खा रहा था ) सिसकारी देती, फेंकरती और शोर करती भूतनिया भूख से डकारे लेतीं। वेतालों का मुण्ड शोर करता। कवन्धों को उलटता-पलटता और ठेल देता। रोष के साथ संकेत करते हुए तोड़ देता है। साँस छोड़कर घायल प्राण छोड़ देते हैं। जहाँ रक्त की तरंगे कल्लोल करती थी वहाँ सजे हुए हाथी झूब जाते थे।

छपद—रक्त, कर और अग तथा सिर को खाकर ऊबकर, फिर फोड़-फोड़ कर खाने लगता है। हाथ से जब हाथी नहीं उठता तो वेताल उसको छोड़कर पीछे चल देता है। नर-कवन्ध तड़फड़ते हैं, वेताल उनके मर्म को भेद देता है। रुधिर की नदी के किनारे भूत लोग 'भिभरी' का खेल खेलते हैं। कूदकर डमरू बजाकर, सब दिशाओं में डाकिनियाँ चिल्ला रही हैं। कवन्ध से पृथ्वी भर गई। राजा कीर्तिसिंह युद्ध कर रहे हैं। २१४।

दोनों सेनाओं में घमासान होने लगी। तलवारों के टूट जाने से कौन मानता है। शरीर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, वीर दौड़कर आगे बढ़ जाते हैं।

अन्तरिक्ष में अप्सराएँ अपने कमल करों से अंचल पकड़ कर हवा कर रही हैं। भ्रमर रूपी कामदेव डोल रहा है, उनकी आँखें प्रेम से चमक रही हैं। गन्धर्व-गण टुन्डुभि बजा रहे हैं, उनके मनकी दशा ( प्रसन्नता ) कौन जानता है। कीर्ति सिंह के रण-साहस पर कल्पतरु से सुमन-वृष्टि हो रही है।

रड्डा—तब मलिक असलान सोचता है : मेरी सारी सेना पृथ्वी पर पड़ गई। बादशाह, क्रुद्ध होकर आए हैं। मेरी अनीति का महावृत्त फल रहा है। मेरा दुर्भाग्य मेरे पास आया है। फिर मैं प्राण देकर भी निर्मल-यश क्यों न लूँ। कीर्तिसिंह के साथ सिंह-पराक्रम एकवीर की भेंट हो ही जाए।



छन्द—हँसकर, दाहिने हाथ में वीरता-पूर्वक तलवार लेकर लौट पड़ा । वहाँ आपस में एक पर एक प्रहार होने लगे । खंग से खंग की धार टूट गई । घोड़े सुन्दर गतियाँ दिखाने लगे । तलवार बिजली की तरह चमकने लगी । अडिग शरीर टूट-टूट कर गिरने लगे । शरीर से शोणित की धारा बह चली । तुरंग की तरंग में मन खो गया । क्रोध के कारण जैसे शरीर छोड़ दिया हो । सभी लोग युद्ध देख रहे थे । जैसे महाभारत में कर्ण और अर्जुन का युद्ध हो रहा हो । या वायासुर और माधव के युद्ध की बात याद आ गई ।

महाराज ने मलिक को धर दबाया । असलान ने अपनी पीठ दिखा दी । उस समय राजा कीर्तिसिंह ने उसे देखा और प्रसन्न हुए । जिस हाथ से तूने मेरे पिता को मारा वह हाथ क्या हो गया ?

गद्य—अरे अरे असलान, प्राण के लिए कायरता दिखाने वाले, मन का अनादर करने वाले, युद्ध-भूमि में साहस छोड़ने कर भागने वाले, तुम्हें धिक्कार है । अरे, जीवन मात्र से प्रेम करने वाले कायर, अपयश लेकर कहाँ जाता है । शत्रु की दृष्टि के सामने पीठ करके जा रहा है जैसे अनुजवधू भानु-श्वसुर के सामने पीठ करके जाती है ।

दोहा—जहाँ जी लेकर जी सको वहाँ जाओ, मेरी कीर्ति त्रिभुवन में बनी रहेगी, मैंने तुम्हें जीवन-दान दिया ।

तू रण से भागा है, तू कायर है । और जो तुम्हें मारेगा वह भी कायर है । जा जा सागर की ओर जाकर रह ।

रड्डा—राजा कीर्ति सिंह युद्ध में विजयी होकर लौटे । शंख-ध्वनि हुई । नृत्य, गीत बाजे बजने लगे । चारों वेदों की भङ्गार के बीच शुभ-सङ्घर्ष में अभिषेक हुआ । बान्धव-जनों ने उत्साह प्रकट किया । तिरहुत ने अपना रूप प्राप्त किया । बादशाह ने तिलक किया और कीर्तिसिंह राजा हुए ।

श्लोक—इस प्रकार संग्राम भूमि में साहस-पूर्वक शत्रु-मथन करने से उदित हुई लक्ष्मी को राजा कीर्ति सिंह चन्द्रमा और सूर्य के रहने तक पुष्ट करें । और जब तक यह संसार है, उनके खेलन कवि विद्यापति की भारती (कविता) जो माधुर्य की प्रसव-स्थली और श्रेष्ठ यश के विस्तार की शिक्षा देने वाली सखी है, विद्यमान रहे ।

महामहोपाध्याय विद्यापति विरचित कीर्तिलता का चतुर्थ पल्लव समाप्त हुआ । शुभम् ।

## शब्द सूची

### अ

अइस २।५२ = ऐसा  
अइसनेओ ३।५४ = ऐसा  
अइसेओ २।२१३ = ऐसा  
अउताक ४।१२१ = शीघ्रता से ?  
अओका २।१६३ = अपरक, दूसरे का  
अग ३।१६१ = अंग  
अंगवह २।२२ = अंगीकृत करता है  
अँटले ४।४६ = बाँधा हुआ  
अँतरे २।२३० = अन्तः अँतरे पँतरे  
अकखर २।१४ = अक्षर  
अल्लै ३।१२६ = है (अछइ < अत्तित्ति)  
अगणोय १।७१ = अनगिनत  
अग्नि ३।१५२ = अग्नि में  
अग्निम ३।३ = अग्निता, अग्निम  
अज ३।१४ = आज  
अजने १।३४ = अर्जन में  
अजाति २।१३ = जातिच्युत  
अछ २।४२ = है  
अछए ३।१३१ = है  
अटारी २।६७ = अट्टालिका  
अट्टाइसओ २।२४४ = अट्टाइस (समुच्चय)  
अणवरत ४।१६ = अनवरत  
अतत्य १।५३ = अतथ्य, असत्य  
अत्थिजन १।५२ = याचक लोग  
अतुलतरविक्रम १।१८ = असीम परा-  
क्रम

अदप ३।४३ = अदब  
अद्यपर्यन्त २।२४१ = आज तक  
अघओगति २।१४२ = अघोगति  
अनन्ता २।१७३ = अनन्त  
अनुरक्तेओ ३।१४८ = अनुरक्त  
अनुरंजिअ २।२५० = अनुरंजित  
अनुसर ४।२५२ = अनुसरण करो  
अन्तावली ४।१६७ = अँतडियँ  
अन्धार ४।२० = अँधकार  
अन्धकार २।१४२ = अन्धकार  
अपन २।४८ = अपनी  
अपने २।१२० = अपने  
अपनेहु ३।३८ = अपना भी  
अप्प २।११८ = अपने  
अप्पा ४।१८० = अपना  
अप्पिआ ३।८१ = अर्पित किया  
अप्पहि ४।४ = अर्पित करो  
अपामन २।१३३ = अपावन  
अबदगल ३।४३ = एक अधिकारी ?  
अबे २।१७० = अबे (गाली)  
अभाग २।२३६ = अभाग्य  
अभ्यन्तर २।२४८ = भीतर  
अम्ह ३।१३४ = मेरा  
अराहिअउँ ३।७ = अराधना की  
अरे २।३१ = अरे (सम्बोधन)  
अरु ३।१८ = और

अरुज्ज्वाल ४।१६७ = उलभन  
 अलहना २।१३४ = अलाभना  
 अवर ३।१७ = अवर, अश्रेष्ठ  
 अवरु २।५४ = और  
 अवस ३।२८ = अवश्य  
 अवसस्यो १।६ = अवश्य ही  
 अवहट्ट १।२१ = अपभ्रष्ट, अपभ्रश  
 अवहि ३।४४ = अवहिं, अभी  
 अवि अवि च २।१०० = अपि अपि च  
 अखर २।४५ = अक्षर  
 अष्टधातु २।१८० = आठो द्रव्य  
 अस २।१७ = ऐसा  
 असहना ३।३२ = असहने वाला  
 असभहि २।२५३ = सन्ध्या पूर्व  
 अहह ३।११४ = हा, हा  
 अहिमान ३।२६ = अभिमान  
 अहो २।३३८ = विस्मय सूचक

### आ

आअत ३।५७ = आयत्त  
 आआ २।२१८ = आया  
 आइअ ३।१६ = आया  
 आंग २।११० = अंग  
 आँचर २।४६ = अचल  
 आँतरे २।६२ = बीच में  
 आकण्डन १।२६ = आकर्णन, सुनना  
 आकण्यो २।३२ = आकर्णो, अवण  
 आक्रीडन्ते २।६६ = खेलते  
 आगरि २।११५ = चतुरा  
 आडी २।११७ = आड़ी, तिरछी  
 आनए २।२०२ = लाता है

आनथि ४।८३ = लाता है  
 आनलि २।१४६ = लाई हुई  
 आनहि २।६० = आनते हैं (लाते हैं)  
 आनिअ २।१८५ = लाया  
 आनु ४।४३ = लाये  
 आपँ २।२२३ = अपने ही  
 आराधि १।७६ = आराधके (आराधना करके)  
 आरुड्डा ४।१७८ = आरुष्ट (क्रोधित)  
 आरंभजो १।२ = आरंभ करके  
 आवत्त २।२१७ = आता हुआ  
 आवथि २।११३ = आता है  
 आवहिं २।२१६ = आते हैं  
 आस ३।११३ = आशा

### इ

इअ २।२२६ = इतः, यहाँ  
 इअर ३।३३ = इतर, दूसरे  
 इअरो १।३५ = दूसरे  
 इथि ४।१२ = यहाँ  
 इथ्येन्तर ३।६५ = इसके बाद  
 इन्धन ३।१०० = इन्धन, जलावन  
 इबराहिम ३।८६ = इब्राहिम  
 इलामे २।२२३ = इनामे

### ई

ई १।१२ = यह

### उ

उअआर १।१८ = उपकार  
 उगिह २।१२५ = उदय हुआ  
 उगाहिअ ३।२४ = उगाहा, इकट्टा किया  
 उच्छलिअ ४।२५५ = उछली, उठी ।

उच्छ्व ३।१४ = उत्सव  
 उच्छ्राह ४।२५७ = उत्साह  
 उजडल ३।४२ = उजड़ी  
 उज्जीर ३।७ = वज्जीर  
 उट्टि ३।६ = उठकर  
 उत्तम २।१३ = उत्तम  
 उत्तरिश्च ३।८८ = उत्तरे  
 उत्थि २।२३४ = वहाँ  
 उद्देशे २।५८ उद्देश्य से  
 उद्दरि १।८४ = उद्धार करके  
 उद्दरिश्चउ २।२ = उद्धार हुआ  
 उद्दरिओ २।४३ = उद्धारूँ  
 उपजु ३।७६ = उपजी  
 उपर २।२०५ = ऊपर  
 उपसजो ४।१०३ = उपसंग, साथ  
 आदर  
 उप्पन्नमति १।५५ - विद्वान्  
 उपेष्खिश्च २।१४० उपेक्षित  
 उपेष्खिइ ३।१३४ = उपेक्षा करता है  
 उपफलइ ४।१८३ = फैलती है, उठती है  
 उव्वेअ ३।५६ = उद्वेग  
 उमग १।५३ = उमग, कुमार्ग  
 उमस्से ४।२०६ = मिसकर  
 उमाग २।२२२ = उमरा  
 उमारि २।१३७ = छोड़ छोड़कर  
 (खोलकर)  
 उवटि २।६४ = उलट कर  
 उरिधान २।२०६ = नीवार, पवित्रधान  
 उँच्छाहे १।२६ = उत्साह से  
 उँछल ३।३६ = उछला ।

उँया २।४५ = पुनः ।  
 उँदरि १।८८ = उद्धार करके ।  
 उपेताप ३।५४ = उपताप  
 उपेत्ति ३।११२ = उपपत्ति  
 उँप्पनउ २।२ = पैदा हुआ  
 उँप्पर २।१३० = ऊपर  
 उँपास ३।११४ = उपवास  
 उपाएँ १।५४ । उपाय

ऊ

ऊर पूर ४।३३ - पूर्णरूप से भरा हुआ  
 ऊगर २।१०८ = ओगर, छूटकर ?  
 ऊँठ २।१०५ = उठा

ए

एक्क २।३४ = एक  
 एक्कओ ३।११८ = एकभी  
 एके २।११८ = एक  
 एककथ १।५० = एकत्र, एकस्थ ?  
 एकक्के ४।१७६ = एक से एक  
 एत्ता ३।१२८ = इतना  
 एत्ते १।३१ = इतने  
 एथ्यन्तर ३।४७ = इसके बाद  
 एम ४।२५३ = इस प्रकार  
 एव ३।१०५ = इस प्रकार  
 एवअ ४।१३६ = और भी  
 एहि २।१६ } = इसी  
 एही २।२४१ }  
 एहु २।२३७ = यह  
 ऐ  
 ऐसो ४।१०५ = ऐसे

## ओ

ओ २।७१ = वह  
 ओ १।११ = वह  
 ओदनी १।४६ = एक वंश  
 ओकरा २।१३० = उसका  
 ओम्हा ३।१४० = ओम्हा / उपाध्याय  
 ओर २।५२ = तरफ  
 ओहु ३।६० = वह

## औ

औका २।१२६ = अओका, दूसरे

## ऋ

ऋण २।६६ = ऋण

## क

क २।१०७ = सम्बन्ध की विभक्ति  
 कइ २।११७ = करके  
 कइकुल २।१४ = कविकुल  
 कइसे २।१४६ = कैसे  
 कए २।२७ = करके  
 कंचना ३।१२१ = कंचन  
 कंटक ३।६४ = काँटा  
 कलकोह ४।१६४ = उकीलते हैं  
 कल्लु २।४१ = कुछ  
 कज्ज २।११५ = काज  
 कज्जल २।८६ = काजल  
 कजो ४।४ = कहुँ  
 कजोण ३।१६ = कौन  
 कटका जी ३।१५८ = कटक, सेना  
 कटाक्ष छटा २।१५० = कटाक्ष छटा  
 कट्टि ३।७ = कट कर  
 कट्टे ३।१०७ = कष्ट से

कत ३।१५० = कितना  
 कतन्हि ४।६० = कितनों का  
 कतहु २।१६४ = कहीं  
 कतेहु २।७४ = कितने ही  
 कत्त ३।१३८ = कितनी  
 कनिक ३।१०१ = कनिक, अन्न  
 कनिट्ट १।७६ = कनिष्ठ  
 कन्त ३।२ = कान्त  
 कन्दल ४।६८ = युद्ध  
 कन्न १।३८ = कृष्ण  
 कप्पूर २।८६ = कपूर  
 कवन्धो ४।२०४ = कवन्ध  
 कवावा २।१७८ = कवाब  
 कमण २।५३ = कौन  
 कमन ४।२४३ = कौन  
 कम्पइ २।२२६ = काँपता है  
 कम्पा ४।११० = काँपती है  
 कम्म २।१८ = कर्म  
 कमानहि ४।८० = कमान से  
 कम्माण २।१६० = कमान  
 कर ३।८४ = कर, टैक्स  
 कर १।३८ = हाथ  
 करओ ३।२५ = करता है  
 करउ १।७७ = करो  
 करओ २।२० = करू  
 करतार २।२३७ = करने वाला  
 कटन्ता २।१७२ = काढ़ते हैं  
 करन्ता २।२२७ = करते हैं  
 करवालहीं ३।७४ = करवाल से  
 कराण ३।२ = कान, कर्ण  
 करावए ३।२८ = कराता है

करागन ४।२०६ = हाथ	अन्य	कसेर २।१०१ = वर्तन	बेचने	वाल ।
	अग ?			कसेरा
करिअ ३।८३ = किया		कह २।११७ = कहता है		
करिअइ २।२४ = कीजिए		कहउँ १।३६ = कहता हूँ		
करिअउँ १।४१ = किया		कहए ३।२० = कहता है		
करिजइ ३।५७ = करना चाहिए		कहजो ३।१३८ = कहूँ		
करिउँ ३।५८ = करके,		कहन्ता १।८ = कहने वाला		
करिधु ३।५६ = करना चाहिए		कहनी १।३६ = कथानिका		
करिह १।१६ = करेगा		कहन्ते २।१०३ = कहते हुए		
करहु २।३२ = करो		कहल २।७२ = कहा		
करी २।१०६ = की		कहवा १।५४ = कहना		
कर २।२५३ = किया		कहसि १।२६ = कहो		
करुआ ३।१०३ = कहुआ		कहहु ३।३ = कहो		
करेओ २।१०३ = का		कहिअजे २।५ = कहा जाता है		
करो २।११० = करो		कहीं ४।१६० = कहीं		
क्रयकार २।१०१ = खरीदना		कहेजो ३।१४८ = कहूँ		
कलशहि २।८६ = कलशों से		का २।३४ = सम्ब० परसर्ग		
कलामे २।१७१ = कलमा		का १।१३ = कैसे		
कलीमा २।१७१ = करीमा ?		काँ २।१३ = 'का' परसर्ग		
कलु ३।११४ = खलु		काअर २।३६ = कायर		
कल्लान ३।१४ = कल्यान		काअय २।१२१ = कायस्थ		
कवण १।१३ = कौन		काचले ४।४६ = स्वच्छ चमकीला		
कवणे २।२२७ = किस		काँच ४।७६ = कच्चा		
कवहु २।२४ = कभी-कभी		काअन २।२४२ = स्वर्ण का		
कव्व १।३ = काव्य		काज २।१०७ = कार्य		
कव्व कलाउ १।७ = काव्यकला		काजर २।१३० = कजल		
कव्वहोँ २।१६ = काव्य से		काजि १।१ = कैसे		
कसवट्ट ३।१२१ = कसौटी,		काँड़ ४।१६३ = कान, कर्ण		
कसीदा २।१७२ = कसीदा		काँषा ४।४६ = स्कन्ध, कन्धा		
कसीस ४।६७ = बारूद ?	लोहे का	कापल २।६५ = कर्पट, कपड़ा		
	जुरादा ।	कापड़ ३।६८ = कपड़ा		

कामन २।१३२ = कामना  
 कामिनी २।८८ = कामिनी  
 कारण ४।१६० = कारण, लिए  
 कारिञ्च १।७ = करके  
 कालहिं ३।५१ = काल पर, समय पर  
 काँसे २।१०१ = कास्य, काँसा  
 काष्ठा ३।१२२ = काष्ठा, सीमा  
 काह ३।५८ = क्या  
 काहु २।६५ = कोई  
 कियउ ३।६ = किया  
 किक्करउँ ३।११४ = क्या करें  
 किक्करिया ४।३ = क्या किया  
 किछु २।११४ = कुछ  
 किजिञ्च ४।२५६ = किया  
 कित्ति ३।३१ = कीर्ति  
 कित्तिम २।१३१ = कृत्रिम  
 कित्तिलद्ध १।२७ = कीर्तिलब्ध  
 कित्तिवह्नि १।१ = कीर्तिलता  
 कितेञ्च २।१७३ = कितान्न  
 किनइते २।११८ = कीनना  
 किमि २।२ = कैसे  
 किरिस ३।१०८ = कृश  
 की १।२३ = क्या  
 कीनि २।६० = कीनकर  
 कुट्टिम २।८० = फर्श  
 कुण्डा २।१७५ = कुण्ड  
 कुमत्त ४।१४५ = कुमंत्र  
 कुमर २।५६ = कुमार  
 कुण्वक ३।४३ कोरवेग; अस्त्र-शस्त्र का  
 अधिकारी  
 कुसुमिञ्च २।२१ = कुसुमित

कुसुमार्द्धह १।५७ = कुसुमायुध  
 कूट ४।२० = शिखर  
 कूजा २।१६२ = कूजा (प्याला)  
 के २।१६ = परसर्ग  
 केदारदान १।५८ = क्षेत्रदान  
 केलि ३।८१ = कीड़ा पूर्वक  
 केरा २।७८ = का  
 केरी ४।८६ = की  
 केस २।४१ = केश  
 को २।३८ = का  
 कोकनद ३।३६ = रक्त कमल  
 कोथइञ्च ४।६१ = कुथड़े, विथड़े  
 कोपि २।३० = क्रुद्ध होकर  
 कोर २।१२६ = शिरा  
 कोहे २।२५ = क्रोधे  
 कोहाए २।१७५ = क्रुद्ध होता है  
 कोहाणे ४।१८१ = क्रोधसे  
 कोहान ४।२२२ = क्रोध से  
 कौडि ३।१०१ = कपर्दिका, कौड़ी  
 कौतुक २।६२ = तमाशा  
 कौसीस २।६ = कोट्टशीर्ष

## ख

खञ्ज १।४१ = क्षय, क्षत  
 खग्ग ३।४७ = खड्ग  
 खग्गग ४।७३ = खड्ग + अग्नि  
 खणे ३।७५ = क्षणे  
 खण्डिञ्च १।५१ = खण्डित  
 खत्तिञ्च १।४१ = क्षत्रिय  
 खम्म १।२ = खंभा  
 ख्म २।१८८ = खाता है  
 खाण २।११७ = खान

खीनि २।१४६ = क्षीण  
 खुन्द ४।३८ = खोदते थे ?  
 खुखुन्दि ४।१३५ खोदकर  
 खेत्तहि १।१ = खेत में, क्षेत्र में  
 खेलच्छल १।४ = खेल के वहाने  
 खेलह २।६३ = खेलता है  
 खोजा २।१६६ = स्वाजा  
 खोणि ४।१२८ = क्षोणि, बसुन्धरा  
 खोदाए २।१७४ = खुदा  
 खोदालम्म ३।१२ = खुरावन्द, खुदाए  
 अलम  
 खोहणा ४।३२ = क्षोभ पैदा करने वाले

ग

गअण्डी ४।१६६ = गीत गाते ?  
 गअन २।५८ = गगन  
 गइ ३।७ = जाकर  
 गउँ २।२६ = गए  
 गए १।३ = जगत्  
 गणह ३।७५ = गिनता है  
 गणए ४।१०७ = गिनते हुए  
 गणना ४।६८ = गणना  
 गणन्ता २।२२६ = गिनते हुए  
 गन्दा २।१६० = गन्दा  
 गन्धव्वा २।२३१ = गर्न्धर्वः  
 गद्दवर ३।४३ = एक अधिकारी ?  
 गद्दह ४।११६ = गदहा  
 गब्ब ३।१७ = गर्व  
 गमिअउ ३।१०५ = गमन किया  
 गमारन्हि २।१५१ = गँवारो को  
 गमावथि ४।७६ = गँवाते हैं  
 गरहा ४।६८ = ग्रह ? दुष्फल

गरिट्ट १।७६ = गरिष्ठ, भारी  
 गरुअ ३।१३७ = गुरुक, गुरू  
 गरुवि २।१८६ गुरु  
 गह २।१७४ = आग्रह  
 गहजो २।४१ = पकड़ूँ  
 गहिजिअ ३।१५२ = ग्रहण किया  
 गाइक २।२०३ = गाय का  
 गाओष २।८५ = गवाक्ष  
 गजो २।६३ = गाँव, ग्राम  
 गाड २।१५१ = गड़ जाती  
 गाड्ड ? २।१८३ = गाली, गडुवा  
 गाटिम ४।११२ = गाढ़, अस्पष्ट  
 गारि २।१८३ = गाली, गिराना  
 गालिम २।२१६ = गुलाम  
 गणहते ३।८४ = ग्रहण करते  
 गिरि २।२६ = पर्वत  
 गीअ २।६१ = गीत  
 गुणक २।१२३ = गुण का  
 गुणमन्ता २।१३४ = गुणवान्  
 गुणडा २।१७४ = गुणडा  
 गुणह २।१७ = गुनता है  
 गुणिअ ३।५४ = गुनना चाहिए  
 गुणो १।६० = गुण से  
 गुरुलोए २।२३ = गुरु लोग  
 गुर्गुरावर्त २।१०४ = 'गुर्गुर' की  
 ध्वनि, गर्जन  
 गेट्टि ३।३५ = गाँठ ?  
 गेल ३।४१ = गया  
 गोइ १।४४ = छिप कर, गोप कर  
 गोचरिअ ३।१० = दिखे, गोचरित  
 गोचरिअउँ ३।१५४ = दिखाई पड़े



गोदृश्री २।१२ = पूरा  
 गोपुर २।६६ = गोपुर  
 गोमर २।२०८ = कसाई  
 गोवोलि २।१५१ = बैल कहकर  
 गोरि २।२०८ = कत्र  
 गोसाजुनि २।११ = गोस्वामिन्  
 गौरव २।१३४ = गौरव

## घ

घटना टंकार २।१०१ = गढ़ने की ध्वनि  
 घटित २।२४२ = घटित  
 घण ३।७२ = घन, बादल  
 घने २।१११ = सघन, बहुत  
 घर २।१० = घर  
 घास ३।११७ = घास  
 घुमाइअ ३।६४ = घुमाया  
 घोल २।६५ = घोड़ा

## च

चक्कह ४।१६ = चक  
 चंङ्गिम ४।२३० = तेज  
 चडि ४।१४७ = चढ़ि  
 चडावए २।२०३ = चढ़ाता है  
 चतुस्सम २।२४७ = चौकोर  
 चन्द १।६ = चन्द्र  
 चप्पिलउँ ४।२४० = चॉप लिया  
 चप्पिर २।१० = जवर्दस्ती, शीघ्र ?  
 चरष २।१२७ = चक्रदार  
 चलए २।२३० = चलते  
 चलल २।१७६ = चला  
 चलिअर ३।६७ = चलित, चला  
 चलु २।५८ = चला

चलेउ २।५१ = चला  
 चॉगरे ४।४५ = सुन्दर  
 चांगु ४।४५ = जगा, सुन्दर ?  
 चाट २।२०४ = चाटता है  
 चाँद २।१३० = चन्द्र  
 चान्दन ३।१०० = चन्दन  
 चापन्ते ४।१७ = चापते है  
 चापि ३।१४६ = चॉप कर  
 चाबुक ४।६५ = चाबुक  
 चामर ३।२४ = चामर  
 चामरेहिं ४।३६ = चामर से  
 चारी ३।१४२ = चारो  
 चारीआ २।२१८ = चालित, चलते थे  
 चारुहु ४।४६ = चारों  
 चारुकला ४।२३० = सुन्दर गति से  
 चालिअ ४।५ = चला  
 चासर ४।१२२ = ?  
 चाह २।१४७ = चाहता है  
 चाहन्ते २।२१६ = चाहते हैं  
 चिन्तह ३।११५ = चिन्ता करता है  
 चिरजियउ १।७७ = चिरजीवो  
 चुक्कलो २।४३ = चुकूँ  
 चुक्किअ ३।११८ = चुका  
 चुक्किह ३।५१ = चुकेगा  
 चुडुआ २।२०३ = शुरुआ ?  
 चुप २।१८३ = चुप, शान्त  
 चूअ २।८१ = चूत, आम  
 चूर २।१११ = चूर्ण करता है  
 चूरीआ २।११७ = चूर्ण किया  
 चूरेओ १।८० = चूर्ण किया  
 चूह २।८० = चूता है ?

चेथइवे ४।६१ = चियड़े  
 चोपल ४।१३७ = चौपट  
 चोर ३।६५ = चोर  
 चोरें २।१० = चोरेण, चोर से  
 चोरी २।१२० = चोरी  
 चोल २।२२८ = चोर  
 चौहट्ट २।८८ = चौहट, चारो ओर  
 चाज़ार  
 चौरा २।२४६ = चत्वर

छ

छइल्ल १।१७ = छैन, विदग्ध  
 छड्डिअ २।५४ = छोड़ा  
 छप्प ३।१५१ = छापा मारना  
 छपाइअ ३।१०४ = छिपाइए  
 छाज २।२४२ = छाजता, है शोभता है  
 छाड २।१५१ = छोड़ता है  
 छाडल २।६१ = छोड़ा  
 छानिअ ३।६८ = छानिए  
 छाहर २।२१६ = छाया ?  
 छाडि २।१०५ = छोड़ कर  
 छेद २।१६५ = छिद्र, कर्णभेद  
 छोटाहु ३।६३ = छोटा भी  
 छोटेओ २।२११ = छोटे

ज

जं ३।७५ = यम, जिस  
 जइ २।२२६ = जय  
 जइसओ १।३ = जैसा  
 जग १।६६ = जागता है  
 जगइ ३।२६ = जागता है  
 जञ्जलइ २।७६ = जिस (ओर) चलता है

जऊजमिअ १।५५ = जन्म लिया  
 जजो २।४७ = ज्यो  
 जती २।११ = यति  
 जन्ता २।२२७ = जाते  
 जनि २।१०४ = जैसे, जग्नो  
 जनु २।१४१ = जानो  
 जनेउ २।२०४ = यज्ञोपवीत  
 जपिअ ३।७ = कहा  
 जवे २।४ = जव  
 जमण २।१८० = यवन  
 जम्पइ २।२२६ = कहता है  
 जम्पजो १।२१ = कहता हूँ  
 जम्ममत्तेन १।३२ = जन्मत्वेन  
 जम्मिअइ १।२५ = जन्म लिया  
 जरहरि ४।२१२ = एक खेल, फिरहिरी  
 (नाव)  
 जलंजलि २।२६ = जलाञ्जलि  
 जवही २।१८० = जवही  
 जवे २।१४० = जव  
 जस १।६१ = यश  
 जस्स १।३४ = यस्य, जिसका  
 जसु २।२१३ = यस्य, जिसका  
 जजोन २।७६ = जौन, जो  
 जधणे ४।१२० = य क्षणे, जिससमय  
 जहाँ २।६३ = जहाँ  
 जहिं २।१५६ = जहाँ  
 जा २।१३० = जाता है  
 जाइ २।१८२ = जाता है  
 जाइअ २।६६ = गया  
 जाइआ २।२२४ = गया  
 जाइते २।२०१ = जातेहुए

जाउ ३।१६२ = जावे  
 जागु २।२६ = जागा  
 जाउं २।४८ = जावे  
 जाए २।४१ = जाता है  
 जाचक १।१८ = याचक  
 जाथि २।११२ = जाते हैं  
 जान ३।४६ = जानता है  
 जानन्ता २।२२२ = जानते हैं  
 जानल १।५८ = जाना  
 जानलि १।८६ = जानी हुई  
 जनि २।२४१ = जानो, जैसे  
 जानिज २।२३६ = जाना  
 जन्हि २।२४६ = जिन  
 जन्हि के २।१२८ = जिनके  
 जारिअ ३।८५ = जलाया  
 जाल २।८५ = जाल  
 जाषरी २।१८६ = नटिनी  
 जासि ४।२४५ = जाता है  
 जासु १।२६ = जिसके  
 जाहाँ ३।६१ = जहाँ  
 जाहिं ४।२५२ = जाअ  
 जिअन्ता २।१७१ = जीते हुए  
 जित्ति ४।२५४ = जीत कर  
 जिजीषु ३।६२ = विजयेच्छु  
 जीअना २।३६ = जीना  
 जीअउ २।२१३ = जीवतु, जीवो  
 जीव सजो २।४६ = जीव के समान  
 जीवसि ४।२४८ = जीता है  
 जुअल ३।३५ = युगल  
 जुअह १।४८ = जुअता है, युद्धकरता है  
 जुवल ३।३५ = युगल

जूठ २।१८८ = उच्छिष्ट  
 जूअँ २।३१४ = छूत  
 जे १।४३ = जिसने  
 जेठ २।४२ = ज्येष्ठ  
 जेन १।३६ = जेण  
 जेन्हे ३।१५१ = जिसने  
 जेन्ने १।६४ = जेण, जिन्होंने  
 जो १।१६ = जो  
 जोअइ २।३६ = जोहता है, प्रतीक्षा  
 जोअइडा ४।११२ = योजन  
 जोए २।१६१ = जाया  
 जोनापुर २।७७ = यवनपुर, जौनपुर  
 जोरण २।८५ = जोरने वाला  
 जोवण २।११५ = यौवन  
 जो २।१८५ = यदि

### झ

झपिअ ३।७० = झप गया, छिप  
 गया  
 झष ३।५८ = झ खता है, अफसोस  
 करता है

झखणो ३।७६ = झखने से  
 झाटे ३।१४६ = झटिति, झट से  
 झूठ २।१० = झूठ,

### ञ

जेजोन २।२३६ = जौन, जो  
 जँहाँ ३।२१ = यहाँ  
 जुण २।४३ = पुनः

### ट

टरि ४।२३२ = टल कर  
 टङ्गा ३।६६ = टङ्क, मुद्रा

टाप २।२४४ = टाप, घोड़े के पैर की चाप  
 टारिआ २।८० = टाल दिया  
 टूटन्ता ४।१७६ = टूटते हैं  
 टोप्परि ४।२३२ = टपर कर, रुककर

ठ

ठक २।१० = टग  
 ठट्टा २।२२६ = भीड़  
 ठट्टहि २।६४ = भीड़में  
 ठवन्ते २।६५ = चलते हैं  
 ठाकुर २।१० = स्वामी  
 ठाम २।२०६ = स्थान  
 ठामहिं २।२३६ = स्थान में

ड

डर ३।७६ = डर, भय  
 डिठि २।११८ = दृष्टि

ढ

ढलवाइक ४।७१ = ढाल वाहक

त

तओ ३।८ = तो  
 तइसना ३।५२ = तैसा  
 तइसओ १।३ = तैसा  
 तं २।७६ = इसलिय  
 तमहुमासहि ३।५ = तमघुमासहि  
 उस मघुमासमें  
 तकतान ३।६६ = तख्त ?  
 तककस १।४६ = तर्क कर्कश  
 तजान ४।३६ = तर्जन  
 ततत २।१७८ तत ?  
 ततो २।१५८ = ततः  
 तथ २।१६२ = तशतरी

तथिथ २।२२५ = वहाँ ?  
 तनअ १।६२ = तनय  
 तबही २।१८३ = तभी  
 तबे २।१४० = तब  
 तम्बारू २।१६८ ताम्रपात्र  
 तरले ४।४६ = तरल  
 तरट्टी २।१३६ = चंचल  
 तवल ३।७१ = तवला  
 तव्वउँ ३।२५ = तब भी  
 तब्बे ३।६ = तभी  
 तवे २।४६ = तब  
 तवेल्ला २।१६२ = तबेले, अस्तन्नल  
 तवहु २।१२५ = तब भी  
 तलप ४।३२ = तड़प कर  
 तलु २।१२५ = उसका  
 तहाँ ३।१३१ = तहाँ  
 ता १।५४ = उस  
 ताकी २।१८४ = ताकता  
 तातल २।१७५ = तत, तपाया हुआ  
 तान्हि १।७० = उनके  
 तासओ २।११७ = उसके साथ  
 तारुन्न २।१३१ तारुण्य  
 तास से ४।३८ = सूम से  
 ताहाँ ३।२१ = वहाँ  
 ताहि २।६५ = उसको  
 तान्नि १।४६ = तीन  
 तिसु ३।१४४ = उसका  
 तिहुअण ४।२४६ = त्रिभुवन  
 तिरहुत्ती २।३ = तीरशुक्ति  
 तीखे ४।४६ = तीक्ष्ण  
 तीयुहु १।८५ = तीनों ही

तीनु २।३६ = तीनो  
 तीर २।१६३ = तीर, बाण  
 तुज्भ ३।२२ = तुम्हारे  
 तुम्ह ३।६२ = तुम्हारा  
 तुलनाञ्जे १।७८ = तुलना में  
 तुलकन्हि ४।१२० = तुकों की  
 तुलिअञ्चो १।६६ = तुलाया, समानता की  
 तुलुक ३।७३ = तुर्क  
 तुसक्का २।१७३ = तुर्क  
 तुसकाणञ्जो २।१५७ = तुसकाणाम,  
 तुसकों का  
 तुसकिनी २।१८७ = तुर्क की छा  
 ते २।४८ = फिर  
 ते १।३ = पुनः  
 तेजि ताजि ४।४१ = घोड़े की जात  
 तेतुली २।२८ = उस  
 तेन २।२ = उसने  
 तेन्हि ३।४५ = उसके  
 तेन्हे ३।१५४ = उन्हीने  
 तेलगा २।२२८ = तैलंग  
 तेसरा २।१४० = तीसरा  
 तैसन ३।१२२ तैसा  
 तो २।२१५ = तो  
 तोके ३।२५ = तुमको  
 तोवि ४।१६७ = तोड़पि  
 तोर २।२०४ = तोड़ता है  
 तोरन्ते ४।१८ = तोड़ते-हुए  
 तोषारहि ३।१७६ = तोखार से, घोड़े पर  
 तोहें ३।६१ = तुमको  
 तौ ३।२३ = तोड़पि  
 तौन ३।२३ = वह

तौलन्ति २।१६५ = तौलते हैं ।

## थ

थनवार ४।२८ = स्थानपाल, साईस  
 थुक २।१७७ = थूक  
 थपिअ ३।८२ = स्थापित किया  
 थल २।८७ = स्थल  
 थारे २।२२२ = खड़े थे  
 थोल ३।८७ = थोड़ा

## द

दए १।३० = देकर  
 दनेज ४।११ = दहलीज ? चौकठ  
 दप्प १।७६ = दर्प  
 दब्न १।३० = द्रव्य  
 दमसि ४।१२८ = मर्दिन करके  
 दरम २।१७८ = ?  
 दरवाल २।२३८ = दरवार  
 दरवेस २।१८६ = दरवेश  
 दर सदर २।२३६ = सदर दरवाजा  
 दलञ्जो २।४५ = दलू  
 दलिअ १।४७ = दलित किया  
 दवलि २।१७७ = दौड़ कर  
 दसञ्चो १।६३ = दशा  
 दाढी २।१७७ = दाही  
 दाने ३।३१ = दान से  
 दापे ४।६७ = दर्प से  
 द्वारञ्चो २।१६० = द्वार  
 दामसे ४।३७ = लगामसे  
 दारिगह २।२३६ = दरगाह  
 दारिद्ध ३।१५१ = दारिद्र्य

दासओ ३।१०४ = दास को  
 दाषोल २।२४६ = दरखोल, ओसारा  
 दिगान्तर ४।१०८ = दिगन्तर  
 दिजिअ १।५३ = दिया  
 दिट्टि ६।२१५ = दृष्टि  
 दिनद्वे ४।७८ = दिनाद्धे, दोपहर  
 दिने २।७४ = दिनमें  
 दिन्न २।१६ = दोन, धर्म  
 दिसै २।११५ = दिशा में  
 दीगन्तर ३।१३० = दिगन्तर  
 दीजिहि ३।१३० = देगी  
 दीनाक ४।६६ = दीन, दुखी का  
 दुअओ २।५६ = दोनों  
 दुक्ख २।३७ = दुःख  
 दुग्गम ४।६२ = दुर्गम  
 दुज्जन १।१८ = दुर्जन  
 दुठ्ठ ४।२२३ = दुष्ट  
 दुरवथ ३।११६ = दुरवस्था  
 दुरहि २।२१० = दूर से  
 दुरुहुन्ते २।२१८ = दूर से  
 दुहु १।५० = दोनों  
 दुअओ २।२१४ = दोनों  
 दूआ २।१८६ = दुआ  
 दूसिहइ १।४ = निन्दा करेंगे  
 दे २।१८३ = देता है  
 देउरि २।२०७ = देवकुल  
 देइ १।२ = देता है  
 देखि २।११२ = देखकर  
 देजेल २।३५ = दिया हुआ  
 देना २।२०६ = देना  
 देल २।६६ = दिया

देवहा १।३७ = देवस्थान  
 देवान ३।४३ = दीवान  
 देष ते २।२४० = देखते हैं  
 देषिअ २।१२७ = देखा  
 देषिअथि ४।८६ = देखते हैं  
 देसिल १।२१ = देशी  
 देहली २।१२४ = चौकठ पर  
 दैवह ३।५७ = दैव का  
 दोआरहि २।२१८ = द्वार पर  
 दोक्काणदारा २।१६३ = दुकानदार  
 दोखे २।१४६ = दोषे  
 दोम २।१६० = डोम  
 दोषालन्हि २।२३८ = ओसारे  
 दोखरे ३।६६ = दूसरा  
 दोहाए ३।६६ = दुहाई  
 दौरि २।१८१ = दौड़ कर  
 ध  
 धके ३।२४८ = सहसा, धर के ?  
 धनहटा ३।१०२ = धान्यहाटक  
 धनि २।१२४ = धन्या  
 धन्ध ४।५ = धन्धा, कार्य  
 धनुद्धर ४।७० = धनुर्धर  
 धम्ममति ३।१६२ = धर्मवान, धर्ममति  
 धर २।२०१ = धरता है, पकड़ता है  
 धरण ३।६८ = धारण  
 धरणि ३।४० = पृथ्वी  
 धरि २।२०२ = धर कर, पकड़ कर  
 धरिअ २।१८१ = धरिए  
 धरिअइ २।२५ = धरिए  
 धरिजिअ ३।१५३ = धरा, पकड़ा  
 धरिजिह ३।१४७ = धरेगी

घरेओ १।८४ = घरा, रक्खा  
 घवलित्र १।६७ = घवलित किया  
 घँस ३।१५२ = घँस जाती  
 घसमसह ४।५६ = घसमस करती है  
 घाह २।४१ = घा कर, दौड़ कर  
 घाँगड़ ४।८६ = जगली, अनार्य  
 घाड़े ४।८८ = घावा, आक्रमण  
 धाराग्रह २।२४५ = धाराग्रह  
 धिक ४।२४५ = धिकार  
 धुअ १।४३ = ध्रुव  
 धुत्तह २।१३५ = धूर्त के  
 धुन्नह २।१८ = धुनता है, पछताता है  
 धूप २।१२६ = धूप, अग्ररु  
 धूम २।१२६ = धुवाँ  
 धूलि ३।७० = धूल  
 धोआ २।२०६ = धौत, धोया हुआ

### न

न २।१६ = नहीं  
 नअ १।६५ = नय, नीति  
 नअर २।१२३ = नगर  
 नअन ३।६ = नयन  
 नपर २।६ = नगर  
 नखत २।१६७ = नक्षत्र  
 नथि ३।११० = नास्ति, नहीं है  
 नमि ३।८२ = झुका कर  
 नयनाञ्चल २।१४३ = नयन भाग  
 नलिन ३।६६ = कमल  
 नवह २।२३४ = झुकता है  
 नवयी व्वना २।५७ = नवयौवन वाली  
 नहिं ३।४५ = नहीं  
 नहिअ २।२२३ = लहिअ, पाते

नहीं २।२०६ = नहीं  
 नहु १।२८ = नहीं  
 नाअर १।१२ = नागर  
 नापर २।६ = नागर  
 नाग ३।६६ = नाग (शेष)  
 नागरि २।११६ = नागरी, चतुर  
 नागरन्हि २।१५१ = नागरी का  
 नाच २।१८७ = नृत्य  
 नाओ २।६८ = नाम  
 नाटक २।६१ = नाटक  
 नामाना ४।१८० = नाम का  
 नारि २।१५२ = नारी  
 नाहि २।११२ = नहीं  
 नाह १।२५ = नाथ  
 निअ २।२२६ = निज  
 निअर ४।२२३ = निकट  
 निक्करुण ३।१०६ = निष्करुण  
 निक्कारिअहि २।१६१ = निकालते हैं  
 निकार २।२१० = निकालता है  
 निञ्चिन्ते २।४० = निश्चिन्त  
 निअ २।२३६ = निज  
 निन्द ३।७६ = नींद, निद्रा  
 निन्दन्ते २।१४५ = निन्दा करते हैं  
 निद्राण २।२६ = निद्रा मग्न  
 निमञ्जिअ २।११ = डूब गया  
 निमाज गह २।२३६ = नमाज घर  
 (गाह)  
 निमित्ते २।१३१ = निमित्त से  
 निरवल ३।१०८ = निर्बल  
 निसान ४।३८ = निशान  
 निचडि १।३ = प्राप्त होकर

निसस्ते ४।२०६ = निश्वास से  
निहार २।१७७ = देखता है  
नीक २।८३ = नेक, अच्छा  
नीच २।४७ = नीच  
नीमाज २।१६६ = नमाज  
नेत्तहि २।२७ = नेत्रों से  
नेवाला २।१८२ = ग्रास  
नेह ३।१५५ = स्नेह

ण

ण २।५१ = नहीं  
णञ्जर २।१२३ = नगर  
णय ३।१४३ = नय, नीति  
णह ४।१६० = नभ  
णिञ्ज १।४० = निज  
णिच्चह १।१२ = नित्य ही  
णह १।४४ = नाथ

प

पञ्च २।११७ = पद  
पञ्चपई ४।१४४ = प्रजल्पे, बोले  
पयभारहीं ३।७६ = पदभार से  
पञ्चान ३।३८ = प्रयाण  
पञ्चारे ४।१४३ = प्रकारेण, प्रकार से  
पञ्चासजो २।४६ = प्रकाश, प्रकाशित  
करूँ

पह २।३४ = पै, पर  
पहजल २।१६८ = पैजार, जूता  
पहङ्गे २।३६ = पैठ कर  
पउवा ३।१६१ = प्रभु  
पए २।२३७ = पह, पए  
पए ३।४० = पह, पैर  
पएरहु २।२०६ = पैरहु, पैर भी

पकलि ४।१४८ = पकड़कर  
पक्ख ३।१६१ = पत्त  
पक्खार ३।६ = पखारा, प्रक्षालितकिया  
पक्खानहटा २।१३० = पक्खान हाट  
पच्छिम ३।४८ = पश्चिम  
पच्छुस ३।४ = प्रत्यूष  
पञ्चमी २।५ = पञ्चमी  
पञ्चशर २।१४५ = कामदेव  
पछुवाव ४।५५ = पछुवा देते हैं, पीछे  
कर देते हैं

पञ्जटइ २।६३ = पर्यटन करते  
पफ्फालेलि ४।१६६ = प्रक्षालन करते हैं  
पणेडा ३।८७ = पैड़ा, प्रान्तर  
पटक ३।६८ = पट से  
पटरे २।२३० = अंतरेपतरे, अगल-  
वगल

पटवार (ण) ४।१७४ = कवच ?

पटवारण ४।१६३ = कवच  
पट्टन ४।२३ = पत्तन, नगर  
पट्टाहञ्ज १।६२ = पठाया, भेजा  
पडइ ३।६६ = पड़ता है  
पड्डु ३।६५ = पड़ा  
पण ३।१४२ = प्रण  
पणति ३।१४४ = प्रणति, भुक्रना  
पठ १।४६ = पढ़ता है  
पठन्ता २।१७३ = पढ़ते हैं  
पठम ३।२२ = प्रथम  
पठमहिं ४।१४ = प्रथमहिं  
पण्डीञ्जा २।२२६ = पण्डित  
पत्ताप १।६० = प्रतान  
पतोहरी २।१३८ = पात्रोदरी



पथ्याव ३।६ = प्रस्ताव	पल्लानिअउं ४।२७ = जीन कसा गया
पनहटा २।१०३ = पनहाट	पलि ३।७८ = पड़ि, पड़कर
पन्नविअ २।५६ = प्रणाम किगा	पवित्री ४।३ = पवित्री
पपफुरिअ ३।३६ = प्रस्फुरित	पष्वरेहि ४।४२ = जीन
पव्वतओ ४।२२ = पर्वत	पखारिअ २।७६ = प्रक्षालित
पव्वतओ ४।२५ = पर्वत	पसरु २।११५ = फैला, पसरा हुआ
पमानिअ २।२५० = प्रमाणित, सम्मानित	पसरेइ १।१ = पसरे, फैले
पयदा ४।६ = पैदल	पसाओ ३।४६ = प्रसाद
परउँअआरे २।३६ = पर उपकारे	पसारइ २।१६२ = फैलाता है
परक्कम ३।१४६ = पराक्रम	पसारा २।१६२ = फैलाव
परक्कमेहि ४।३० = घराक्रम मे	पसारिअ १।३८ = प्रसारित किया
परदप्प ४।१४० = परदर्प	पसंसा १।१६ = प्रशसा
परबोधे ३।१४७ = प्रबोधने से	पसंसइ १।४ = प्रशंसा करता है
परबोधओ १।१३ = प्रबोधू	पससए ४।६३ = प्रशंसा करते हैं
परमत्ये १।४७ = परमार्थे	पससओ १।४२ = प्रशंसु, प्रशंसा करता हूँ
परयुत्ये ४।१६७ = शत्रु समूह में	पहिल २।१८२ = प्रथम
परारी ४।१७६ = पर की,	पहार २।१८८ = प्रहार
पराइ २।१६१ = दूसरे की	पहु ३।८ = प्रभु
परिअउँ ३।३५ = पड़ गई	पाअ ४।११७ = पाद
परिठव २।६५ = परिष्ठव	पाइआ २।२२५ = पाते
परिभविअ २।१२ = पराभव हुआ	पाइक ४।७० = पैदल, पायक
परिवत्ते ४।११४ = परिवर्तन से	पाइक्कह ४।१५ = पैदल का
परिवयणा २।४३ = प्रतिज्ञा	पाइग्गह ४।२७ = पैदलों के
परिहरिअ २।५५ = हरिहरित, छोड़ा	पाउँ १।५३ = पाँव, पाद
परिस्सम ३।५१ = परिश्रम	पाउँअ १।२० = प्राकृत
परिसेप ४।१२४ = परिशेष, समाप्त	पारवर ४।१८२ = पक्खर, ज़ीन
परु २।८ = पड़, पड़ा	पाछा २।१७६ = पश्च, पाछे
पलइ ३।७५ = पड़ता है	पाजे २।५६ = पादेन, पाँए
पलटाए १।८६ = पलटाकर	पाजेला २।६२ = पाया
पलट्टिअ ४।२५४ = पलटा, लौटा	पाट २।६२ = पट्ट
पाल्लविअ २।८१ = फल्लवित हुआ	पाटि २।६१ = पक्ति

पाणै ३।१६१ = पालै, पालता है	पीठिआ ४।४७ = पीठ
पाणिगह ३।१२५ = पाणि ग्रह करके	पीवए ३।६८ = पीते
पकड़कर	पुक्करो ४।४७ = पुकारता है
पाणो ४।२०६ = प्राण	पुञ्जविहूना १।३५ = पूँछहीन
पातरी २।१३८ = पतली, पानी	पुञ्जहि २।२४८ = पूछते हैं
पातरे २।६१ = प्रान्तर	पुञ्जिअउं २।२५२ = पूछा
पातिसाह २।२३७ = बादशाह	पुञ्जि ३।५६ = पूछकर
पाती २।६७ = पंक्ति	पुञ्जु ३।१२ = पूछा
पाथर २।२१७ = पत्थर, प्रस्तर	पुञ्जउ १।२३ = पूछा
पानक ३।६६ = पान का	पुञ्जिओ १।३३ = पुंज
पानी ३।६७ = पानी	पुत्त २।५८ = पुत्र
पापोस ३।१६ = पापोश ? चरणदर्शन	पुत्ता २।२३० = पुत्र
पार ३।८६ = पार	पुज १।३६ = पुण्य
पारक ३।८६ = पार के	पुण्य २।१६ = पुण्य
पारि २।१८६ = पार कर, पारना क्रिया	पुजाम ३।१३२ = प्रणाम
पारीआ २।२१६ = पा सके	पुव्व १।५१ = पूर्व
पाव २।१८६ = पाता है	पुरवए ३।११३ = पूर्ण करता है
पावइ १।२० = पाता है	पुरसत्थ ३।१४२ = पुरुषार्थ
पावथि २।११४ = पाते हैं	पुरिष ३।५७ = पुरुष
पावन्ता २।२२१ = पाते हैं	पुरिसओ १।३२२ = पुरुष
पाविअइ १।५० = पाये	पुरिसाआरो १।३५ = पुरुषाकार
पाषरे ४।१४८ = पक्खर से	पुरिसत्थ ३।१६ = पुरुषार्थ
पासान २।८० = पाषाण	पुरिल २।२०८ = पुर गई, भर गई
पिअ १।५६ = प्रिय	पुहवी ४।१०६ = पृथ्वी
पिअरोज १।५६ = फीरोज	पूजा २।१६६ = पूजा
पिअन्ता २।१७० = पीते हैं	पूर ४।५६ = पूरता है
पिआज २।१८५ = प्याज	पूरीआ २।११६ = भर गया
पिआरिओ २।१२० = प्यारी	पूरेओ १।८० = पूरा किया
पिउँआ ४।१०३ = प्रिय + वा	पूहविए २।२२० = पृथ्वी
पिञ्जल ४।२१८ = चमकीला, गीला	पेअसि ४।४ = प्रेयसि
पिन्धन्ते २।१३७ = पहनती है	पेआज २।१६५ = प्याज

पेल्लव ४।१२७ = बीतता है  
 पेल्लिअ ३।६६ = बिताया  
 पेल्लिअ २।६२ = बिताया  
 पेषणी २।१३३ = विदग्धा  
 पेष्खन्ते २।५३ = देखते हुये  
 पेष्खिय २।१२४ = देखा  
 पेष्खिअ २।२२६ = पेखा  
 प्रेरन्ते २।१३८ = प्रेरित करते हैं  
 पै २।१८५ = पइ, पर  
 पैठि २।६६ = पैठकर  
 पोखरि २।८३ = पुष्करिणी  
 पृच्छति ३।१ = पूछती है  
 पृथ्वी २।१०६ = पृथ्वी  
 फरमाने ४।८ = फरमान से

## फ

फरिअ ४।७२ = चीरते  
 फरिअइत ४।१६८ = चीरते हुए ?  
 फल ३।५७ = फल  
 फलिअ २।८१ = फलित  
 फलिअउ ३।१५६ = फला  
 फुक्किअ ३।७१ = फूँका  
 फुट्टन्ता ४।१७६ = फूटते हैं  
 फुलुग ४।१८३ = फुल्लिग  
 फुर १।२३ = स्फुर  
 फूर ३।१६२ = स्फुट  
 फेरवी ४।२०६ = फिर से ?  
 फोट २।२०८ = तिलक  
 फोरि ४।२०६ = फोड़कर

## व, ब

वअन ४।४५ = वचन  
 वइठ्टे २।२२१ = बैठते

वइस २।१२२ = बैठते  
 वइसि २।७ = बैठकर  
 वइसल ३।४३ = बैठा हुआ  
 वए ४।६४ = व्यय  
 वएन २।१७५ = वचन  
 वंगा २।२२८ = बँगाल के  
 वंध ३।१३० = बाँध दिया  
 वंभण २।१२१ = ब्राह्मण  
 बकवार २।१८३ = बक्रद्वार  
 बकहटी २।६७ = बक्रहाटिका  
 बगल ४।७६ = बगल  
 बङ्क २।११६ = बक्र  
 बज्जन ४।२५५ = वाजन, वाजे  
 बज्जारी २।१५८ = बाज्जार  
 बडुराना २।२२५ = इकट्टा  
 बट्ट २।८८ = बर्तम, रास्ता  
 बट्टइ ४।१७१ = बट्टता है  
 बटोरइ १।४८ = बटोरता है  
 बटुअ २।२०२ = बटुक  
 बड ३।१०४ = बड़ा  
 बड़ा ३।४२ = बड़ा  
 बड़ाई ३।१३८ = बड़प्पन  
 बड्डि २।६४ = बड़ी  
 बड्डिम १।६५ = भारी  
 बड्डियन १।५४ = बड़प्पन  
 बड़ी २।१४४ = बड़ी  
 बड्डु ओ २।८४ = बड़ा  
 बत्त ३।१२ = वार्ता  
 बणिजार २।११३ = वाणिज्यकार  
 बतास २।१४६ = वाताश  
 बय्यु ४।११६ = वस्तु

वर्षे ४।८२ = वध में	वहुत्ता २।२३० = बहुत से
वधिअ ३।२३ = वध किया	वहुफमाल ४।२०३ =
वधिअउ २।१६ = मारा, वधा ।	वहुल ३।१०१ = बहुत
वनिअउ २।५१ = बने	वहुता २।१६६ = बहुत
वनिक २।६० = वणिक	वाकुले ४।४५ = वक्र ?
वन्दा २।१६० = बन्दा	वाछि ४।४१ = बीछि-बाछि, चुनकर
वन्दी ३।८५ = वन्दी, कैदी	वाज २।२४४ = वजती हैं
वन्धव ४।२५७ = वान्धव	वाजू २।१६४ = वाजू, तरफ
वन्धन्ते २।१३७ = बाँधते हैं	वादल ४।५३ = वढ़ा हुआ
वन्धि १।२ = बाँधकर	वणिज ३।१२० = वणिक
वन्ही २।१३६ = बनी, वनिता	वाधा ३।१२५ = कष्ट
बव्वरा २।६० = बर्वर	वानिनि २।११६ = वनियाइन
वमइ १।६ = वमन करता है	वाप ३।१८ = पिता
बम्भ ४।१२६ = ब्रह्मा	वापुर १।१११ = बेचारे
वपुरा ३।३३ = वेचारा	वारिगह २।२३६ = जलघर, तम्बू ?
वर २।१०८ = श्रेष्ठ, बल	वालचन्द १।६ = द्वितिया का चन्द्र
वरकर २।२०० = बलकर, बलात्	वाहि २।१८४ = बाँह, भुजा
वरदह ४।११६ = बैल	वास २।१६२ = निवास
वरु २।४६ = बलिक	वाहइ = २।१७१ वहन करता है
वलभद २।५१ = बलभद्र	वाहर २।११६ = वहिः, वाहर
वलभी २।६७ = सदर फाटक	वाँकुले ४।४५ = वाँका, वक्र
वलया २।१०६ = बलय, चूड़ी	वाँग २।१६४ = अजान
वल्लहा २।७८ = वल्लभा	वाँट २।२०१ = राह, वर्त्म
वल्लीअ २।१६६ = बली	वाँदि ३।१०४ = वाँदी, नौकरानी
वस २।२४१ = बसता है	वाँघा ४।४६ = बाँघा हुआ
वसाहन्ति २।१६१ = व्यवसाय करते हैं	वि ३।५१ = अपि, भी
वसइ २।१३५ = बसता है	विअण्वण ३।६० = विचक्षण
वसन २।६२ = निवास	विअण्वनी २।१५२ = विचक्षण
वहल २।२४३ = वहन किया	विआही ४।६७ = व्याहता
बहु २।११६ = बहुत	विक्कणइ २।११८ = बेचते, विक्रय
बहुत्त २।५७ = बहुत	विक्कणथि २।११४ = विक्रय करते हैं

विका ३।११० = विक्रय, हुआ  
 = विका (खड़ी)  
 विकाइवा २।१०७ = विकने  
 भल २।२४१ = भला  
 भलओ १।३ = भला  
 भव्य २।२३५ = भव्य  
 भविलअ ३।१०६ = भवित, खाए  
 भा २।६६ = हुआ  
 भाग २।१४८ = भाग, हिस्ता  
 भाँग २।१७४ = भंग  
 भागए २।१४८ = भागना  
 भगसि ४।२५० = भागते हो  
 भागि ३।७५ = भागकर  
 भाँगि २।२०७ = भंग कर के  
 भाणा ४।१२३ = भान, आभास  
 भाँति २।११३ = भाँति  
 भान २।२१२ = मालूम, प्रतीत  
 भारहिं ३।४० = भार से  
 भावइ २।१८७ = भाता है  
 भासा १।८ = भाषा  
 भास ओ २।४५ = भासू, कहूँ  
 भिक्खारि २।१४ = भिक्षाकारिक  
 भित्त ३।११६ = भृत्य  
 भित्ता ३।१२१ = भृत्य  
 भीतर २।८० = अभ्यन्तर  
 भीति २।८० = भीत, दीवाल  
 भुअ ३।३५ = भुज  
 भुअण २।१४८ = भुवन  
 भुँजइ १।२८ = भोगता है  
 भुजहु २।२७ = भोगी  
 खुलेओ २।८४ = भूली

भुवंग २।१३४ = भुजग वेश्यागामी  
 भुववै १।५० = भुजपति, राजा  
 भुव्ले ३।११६ = भूल से बुभुद्धा  
 भूखल ४।११६ = भूखे हुए ।  
 भूमिट्ट ४।१६ = भूमीष्ठ  
 भेश्र १।८ = भेद  
 भेल २।१२८ = हुआ  
 भेलि २।६७ = हुआ  
 भेले ३।३० = होकर  
 भेट्ट २।२२१ = भेंट  
 भै ३।८६ = होकर  
 भैसुर ४।२४७ = भातृश्वसुर  
 भोअण ४।७६ = भोजन  
 भोअना २।३५ = भोजन  
 भोग २।५५ = भोग  
 भौ३।३७ = हुआ  
 भौह ३।३५ = भू

म

मअ ३।७५ = मग, रास्ता  
 मअगा २।१५६ = मातंग  
 मअरन्द २।८२ = मकरन्द  
 महल १।१८ = मैला  
 मंगइ २।१७६ = माँगता है  
 मगोल ४।७४ = मुगल  
 मल्लहटा २।१०३ = मत्स्यहाटक  
 मजेदे २।२२२ = मजे, मर्यादा ?  
 मझु ३।१५ = मेरा  
 मझु २।३४ = मेरा  
 मञ्चो १।२२ = मंच  
 मडिअ ३।१५८ = मडित किया  
 मडिआ २।८६ = मडित किया

मण्डन्ते २।१३६ = मडन करते हैं	मानइ २।३७ = मानना है
मतरुफ २।१८६ = एक गान, स्तुति, तारीफ	मानुस २।१०७ = मनुष्य
मन्ति ३।१२६ = मंत्री	मारन्त २।८ = मारते हुए
मर्थाँ २।२०३ = मर्था पर, मस्तक पर	मारल २।७ = मारा
मदिरा २।२०६ = शराब	मॉगि ३।११७ = माँगकर
मध्यान्दे २।१०६ = मध्याह्न	माहवडा २।२८ = माधव
मनहि १।७ = मनमें	मिड्डा १।२१ = मिष्ट
मन्द २।१८२ = बुरा	मिलइ २।७६ = मिलता है
मनुसाए ४।१३० = क्रुद्ध होकर	मिलए २।१५५ = मिलना
मनोरी ४।५० = घोड़े की गति	मिलल २।१६२ = मिला
मम २।४८ = मेरा	मीर २।१६६ = मीर
ममत्तयइ २।३३ = ममत्व से	मीसिपीसि २।१०७ = मिस पिस कर
मम्म २।३८ = मर्म	मुकदम २।१८४ = मुकदम, मुखिया ?
मसीद २।२०७ = मस्जिद	मुक्कजो २।४४ = मुक्त करूँ
मषदूम २।१६० = मखदूम	मुज्जु ३।१३० = मेरा
महाउञ्चो ४।२६ = महावत	मुफ ३।१२८ = मेरा
महि ३।३१ = पृथ्वी	मुल्लहिं २।६० = मूल्य से
महिसा ४।११६ = मैंसे	मुले ४।४४ = मूल्य
मही २।२०८ = पृथ्वी	मुलुकका २।२१७ = मुलुक
महु ४।२२३ = मेरे	मेइनि १।७७ = मेदिना
महुअर १।१७ = मधुकर	मोजा २।१६४ = मोजा
महुत्त २।२४६ = मुहूर्त	मेजाणे २।२३६ =
माए २।२३ = मातृ	मेट्टिअ ३।११ = मेटा मिट्टिया
माग २।१८० = माँगता है	मो ३।६८ = मेरा
माफ २।१४६ = मे	मोर २।३२ = मेरा
माजे ३।१२८ = माता	मोरहु २।४२ = मेरा
माँडि २।११६ = मडित कर	मोहिआ २।८२ = मोहित किया
माया ४।१२२ = मान	मोहन्ता २।२३१ = मोहते हैं
मणिक ४।६ मलिक	यणावओ १।१३ = जनाऊँ
माथे २।२४३ = माँथे पर	यन्त्र २।८५ = यन्त्र
	यम ३।१५३ = यमराज

यज्ञोपवीत २।१०६ = यज्ञोपवीत  
यात्राहुतह २।१०६ = यात्रा से  
युवराजन्दि १।७० = युवराजो

र

रअग्नि ३।४ = रजनी  
रज्ज २।४८ = राज  
रज्जह २।३३ = राज की  
रज्जलुद्ध २।६ = राजलुब्ध  
रजा २।६४ = राजा  
रखारोल २।८ = रखारोर  
रति २।४७ = आसक्ति, सम्बन्ध  
रथ ३।७० = रथ  
रमनि२।६ = रमणी  
रसाल १।४४ = रसपूर्णा, आम  
रसिकें २।१४६ = रसिकों से  
रखखो २।४७ = रखखू  
रह ३।६० = रहता है  
रहह २।१८३ = रहता है  
रहऊँ ३।४८ = रहे  
रहट घाट ३।६७ = रहट ?  
रहसे १।३० = एकान्त में  
रहहि २।२२६ = रहते हैं  
रहि २।२२३ = रह रह कर  
रहिअउ ३।११६ = रहे  
रहै २।१८४ = रहता है  
रा २।१५ = राय, राजा  
राअ २।१२३ = राज, राजा  
राआ २।२२८ = राजा  
राअह २।५२ = राजा का  
राअहु २।२३३ = राजा भी  
राअन्दि २।१४८ = राजो

राए ३।६ = राय, राजा  
राउ ३।१६१ = राजा  
राउत २।२२५ = रावत  
राउत्ता २।२३० = रावत  
राओ ३।६० = राजा  
राहु २।२३३ = रक  
राखेहु १।४४ = रक्खो  
राखै ३।१६१ = रखता है  
राजे १।७८ = राजा ने, राज में  
राजनीतिचतुरहु २।३२ = हे राज नीत  
चतुर

राजपुत्त २।११२ = राजपुत्र  
राना २।२२५ = राणा  
रामदेव ३।१२४ रामचन्द्र  
रामकुमार ३।६४ = राजकुमार  
रिउँ ३।३० = रिपु  
रिज २।११६ = ऋजु  
रिथिथ ४।१२ = ?  
रिसिआइ २।१८० = रिसियाता क्रोध करत  
रीति ३।१२४ = रोति  
रैयत ३।६० = रैअत, प्रजा  
रुँहु ३।१५३ = रुठ  
रुहिर ४।१५३ = रुधिर  
रुहिया ४।११२ = रुधिर  
रुजो २।२३१ = रूपेया, रूप से  
रूप २।११५ = रूप  
रूसलि १।८६ = रूठी  
रोजा २।१६७ = रोजा  
रोम चिअ ३।३५ = रोमांचित  
रोस ३।२५ = रोष  
रोर २।११२ = रोर, शब्द

ल

लक्ष्मणसेन २।४ = लक्ष्मणसेन  
 लक्ष्मिअ १।३१ = दिखाई पड़ा  
 लग्गइ १।१० = लगता है  
 लग्गी आ ४।१७७ = लगा  
 लच्छी २।७८ = लक्ष्मी  
 लज्ज २।१३ = लज्जा  
 लज्जावलम्बित २।१४१ = लज्जानत  
 लटक ३।६४ = शीघ्र ?  
 लडखडिआ ४।११८ = लड़खड़ाया  
 लवावै २।१६० = लाता है  
 लच्चि २।७५ = लक्ष्मी  
 लसूला २।१६५ = लशुन  
 लष ३।७३ = लाख  
 लष्व ४।४३ = लक्ष  
 लष्वण २।१५७ = लक्ष्ण  
 लहइ २।१८४ = लाभ करता है  
 (पाता है)  
 लहिअ ३।१५६ = लाभ किया  
 ( पाया )  
 लाग २।१०८ = लग गया  
 लागत २।१४० = लगता  
 लागि २।१४० = लिए (परसर्ग)  
 लागु २।६८ = लगे  
 लागै ३।१४४ = लगता  
 लाज ४।७ = लाए हुए  
 लानुमी २।१३८ = लावण्यमयी ?  
 लोनी ?  
 लावणो १।१४ = लाऊँ  
 लावन्ने १।६८ = लावण्य  
 लाँधि ४।४८ = लाँघकर

लिअ ३।८७ लेकर ?  
 लिङ्गिअ २।१० = ले लिया  
 लिहिअ २।४ = लिखित  
 लुक्किआ ३।७२ = छिप गया  
 लूडि ४।६४ = लूटकर  
 लूर २।११० = लड़ कर ?  
 ले २।१७४ = लेता है  
 ले ले २।१७६ = लिये हुए  
 ले लि ३।२० = लिया  
 लेखीआ २।३२७ = लेखे, गणना  
 योग्य

लेहेन २।२६ = लेखेन भाग्य वश  
 लै २।१८४ = लेकर  
 लोअ २।५४ = लोक, लोग  
 लोअण २।१५४ = लोचन  
 लोअन्तर ३।१८ - लोकान्तर, स्वर्ग  
 लोइ ३।१४२ = लोक ?  
 लोगहु २।३१ = लोगों  
 लोर २।५३ = आँसू

श

शत सख्य २।६५ = सौ सख्यक  
 शफरी २।१४४ = मछली  
 शाखानगर २।१६ = उपनगर  
 शिला २।२४७ = शिला  
 शुद्ध ३।६१ = शुद्ध  
 शोक २।१५३ = शोक  
 शृंगार संकेत २।२४५ = शृंगार संकेत  
 शृगाटक २।६६ = चौराहे

ष

षण्डिअ ३।६१ = खंडित,  
 षद ३।६२ = षठ



षणो ३।३७ = क्षण  
 षरात्र २।१७८ = खरात्र  
 परीदे २।१६६ = खरीदता है  
 षाहते ४।८७ = खाते हुए  
 षाए २।१७४ = खाता है  
 षाण २।२२२ = खान  
 षास २।२३२ = खास  
 षीसा २।१६८ = बटुवा, दस्ताना  
 षेत ४।१६१ = खेत, क्षेत्र  
 षुन्दकार ४।७५ = काज़ी, मालिक  
 षुन्दकारी २।१६१ = काज़ी का  
 षाँचि ४।६० = छाँटकर, खींचकर ?  
 षोजा २।१६६ = खोजा, ख्वाजा  
 षोआराह २।२४० = भोजनगृह  
 षोरमगह २।२४० = शयनगृह

## स

सअद २।१८८ = सैयद  
 सअल ३।८० = सकल  
 सअनी २।१३८ = सयानी, चतुरा  
 सइदगारे २।२० = सैयदगार  
 सइल्लार २।१६६ = सालार  
 सए २।३२ = शत  
 सएल २।२३२ = सकल  
 सक्कय १।१६ = संस्कृत  
 सकता ४।६६ = शक्तिवान्  
 सकलओ ३।७ सकल, सभी  
 सख १।५६ = सखा, मित्र  
 सग ३।१८ = स्वग  
 सगर ३।७८ = सकल  
 सच्छु ४।२ = सत्य  
 सज्जन २।१२ = सज्जन

सज्जह ४।१२ = साजो  
 सजो १।२४ = सउ, साथ  
 सञ्जरन्ते २।१२७ = सचरण कहते हैं  
 सञ्जरिआ ४।२ = संचरण किया  
 सञ्जरि २।१४३ = सचारण से  
 सत्त १।३० = सत्व  
 सत्ति १।३४ शक्ति  
 सत्तु ४।१६१ = शत्रु  
 सत्तुक २।३५ = शत्रुका  
 सत्तुघर ३।७६ = शत्रुगृह  
 सत्तू ४।१८० = शत्रु  
 सथ्य ३।८४ = साथ  
 सथ्यसाथहि २।८८ साथ, साथ  
 सद २।८ = शब्द  
 सदय ३।६१ = सदय  
 सदर २।२३६ = सदर  
 सधम्म ३।६१ = सधर्म  
 सन २।२३७ = साथ  
 सन्तु २।२३४ = शान्त  
 सन्तरु २।७४ = सन्तरण किया  
 सन्न ३।११६ = साथ  
 सन्नाहा ४।१७६ = सनाह, कवच  
 सप्पफण ३।१५३ = सर्पफण  
 सपुत्र १।३७ = सपुण्य  
 सब २।२४० = सब  
 सबे २।११४ = सब  
 सवहि ३।४० = सबको  
 सब २।१८८ = सब  
 सब्बउ २।१५२ = सब  
 सब्बओ २।२२५ = सभी  
 सब्बस्स २।११८ सर्वस्व

सव्वहीं २।६२ = सब को	सवतहु ३।४१ = सर्वत्र, सभी ओर से
सभासह १।६८ = सभासता है, कहता है	सवे २।६० = सब
सभावहि ३।१०६ = स्वभाव से	ससेर २।१४८ = सस्वर
सम २।१८५ = समान	सस्तु ४।२३८ = शत्रु
समर १।४३ = युद्ध	सह ३।८६ = सहता है
सम्मत् २।४६ = सम्मति	सहस ३।१५० = सहस्र
सम्मदि १।४३ = सम्मर्दित करके	सहसहि ४।८२ = सहस्रों में
सम्मद्दे २।२१६ = सम्मर्दन, भीड़ में	सहि ३।११६ = सहकर
सम्पह १।२६ = सम्पत्ति	सहिजिअ ३।१५३ = सहिए
समण्यिअ २।२२ = समर्पित किया	सहोअर ३।१३५ = सहोदर
सम्पजो २।२० = सौपूँ	साअर २।२२४ = सागर
सम्पलहु २।३८ = सपलो, तैयार हो	साकम २।८३ = संक्रम, पुल
सम्पर्के ४।४६ = सम्पर्क से	साज २।१०६ = सजाया, साज
सम्बल २।६६ = सम्बल	साजि ४।४२ = साजकर
सम्पलह ३।८४ = चलते थे ?	साति २।३५ = शाति, कल्याण, प्रकाश
समाह ३।२ = समाया	साध ३।१२६ = साधा, किया
समाण ३।१४६ = समान	सामर ४।११३ = श्यामल, सौंवर
समानल १।५६ = सम्मानित किया	सामिज २।३ = स्वामी
समिण २।१८१ = खाने की चीजे	सार १।२३ = सारतत्व
सालण २।१८१ = . ,	सारन्ता ४।१८० = गर्व करते हुए,
समिद्धि २।७६ = समृद्धि	सार
सन्नगह ३।१५६ = जारी करना ?	सारिआ ४।४१ = गर्व करके
सरण १।५२ = शरण	सारे ओ १।८१ = गर्व किया
सरमहु ४।१७२ = शर्म ?	(अर्हंकार के साथ प्रयुक्त)
सरबस ३।८७ = सर्वस्व	सार्थ २।१३६ = साथ
सराब २।१७८ = शराब	सावर ४।६० = शवर
सराफे २।१६४ = सराफा	साहउ २।१४८ = शासन किया
सरुअ १।३० = सरूप	साँठे ३।३८ = साथ, निज का ?
सरमेरा ४।७२ = सम्मिलित, शर्म ?	सिआन २।२४८ = सयान, चतुर
सरोसान ४।२०५ = सरोष ?	सिक्खयह २।२४ = सिखाता है
सलामो २।१६० = सलाम, बन्दगी	सिज्भह ३।५५ = सिद्ध होता है

सिम्भिहृद् ३।५१ = सिद्ध होता है  
 मिट्ट २।२४६ = श्रेष्ठ  
 सिद्धाग्रत ३।८ = प्रतिष्ठापित हो  
 सिरि ३।११८ = श्री  
 सिंगिन ४।६७ = बारूद भरने की  
 सीवां ३।८६ = सीमा  
 सुअण १।२६ = सजन  
 सुजाण ३।१४५ = सजन  
 सुठाम २।१५५ = सुन्दर ठाम, स्थान  
 सुन १।२३ = सुनो  
 सुनओ २।१५६ = सुनो  
 सुनि ३।१२८ = सुनकर  
 सुनिअ ३।३४ = सुनकर  
 सुनु ३।६८ = सुना  
 सुभोअण २।१५५ = सुभोजन  
 सुभवअन १।३६ = शुभवचन  
 सुमर ३।६० = स्मरण किया  
 सुमरि २।१८ = स्मरण करके  
 सुमरू ३।१०६ = स्मरण किया  
 सुमहुत्त ३।१५ = समहुत, सुहूर्त्त  
 सुपुरिस १।३६ = सुपुरुष  
 सुष ३।१० = सुख  
 सुरराण २।६ = सुरराज  
 सुरसा १।१५ = सुरस वाली  
 सुरतान २।२२१ = सुलतान, सुरत्राण  
 सुरतानी ३।६६ = सुलतान की  
 सुण्खेवेअ ४।२४२ = सुख  
 सुहव्वा २।२३१ = सुभव्य  
 सुहिअ ३।५६ = सुहित  
 सुहेन २।३ = सुखेन  
 सुर १।२१ = सुर

सेणण ३।६५ = सेना  
 सेर ३।२३ = शेर  
 सेरणी २।१८८ = स्वैरिणी  
 सेरे ३।६१ = सेर  
 सेव १।४६ = सेवा  
 सेवइ ३।३० = सेवा करता है  
 सेविअ ३।११३ = सेवा की  
 सैच्चान ४।१३३ = श्येन, बाज  
 सो १।१६ = वह, सः  
 सोअइ २।४० = सोता है  
 सोअर ३।४५ = सहोदर  
 सोखि ३।७६ = सोख कर  
 सोग ३।१४७ = शोक  
 सोफ २।७२ = सीधा  
 सोदर ३।१२२ = सहोदर  
 सोनहटा २।१०२ = स्वर्णहाटक  
 सोना क ३।६६ = स्वर्ण का  
 सेबि ४।४८ = सेना  
 सोवारी २।६७ = दुकानो की पंक्ति  
 सोहइ १।११ = शोभित है  
 सोहणा ४।३१ = शोभन  
 सोहन्ता २।२३० = शोभते हुए  
 सोहिआ २।८१ = शोभित था  
 सौभागो २।१३२ = सौभाग्य  
 सक ३।७८ = शंका  
 सकास १।६१ = संकाश, साथ  
 सख ३।६५ = संख्या  
 सग २।५० = साथ  
 संगर २।४४ = संग्राम  
 संगाम १।२७ = संग्राम  
 संघलिअ ४।१८३ = टक्कर होती

संचर २।१११ = संचरण करता  
 संचरिञ्च ३।४० = संचरित हुआ  
 सपजइ ३।११६ = देता है  
 संपलिञ्च ४।१३ = चलाया  
 सभरइ ३।१११ = मिलता  
 सभिन्न २।१०२ = समिन्न, पूर्ण भरा हुआ  
 समद २।१०६ = मर्दित कर  
 सम्नरिञ्च ४।१२५ = सवरित  
 सौध १।२०६ = साधते थे, बनाते थे  
 ह  
 हचड़ ३।४२ = रौदना, कोलाहल ?  
 हजारी २।१५६ = हजार  
 हजो ४।४ = हउं, हौ, मै  
 हथल ३।१३० = हाथ ?  
 हर्ख ३।७३ = हर्ष  
 हर १।११ = शकर  
 हरघर २।८६ = हर गृह, शिवालय  
 हरिञ्जइ ३।५६ = हरता है।  
 हस २।१४२ = हँसता है  
 हसि २।१३८ = हँस कर  
 हट्ट ३।१२० = हाट  
 हाट २।११३ = हाट, बाजार  
 हासह ४।८४ = हास्य  
 हासा १।१० = हँसी  
 हारल २।६ = हारा हुआ

हाथि २।१११ = हाथी  
 हा हा २।८ = हाय ध्वनि  
 हिञ्च ३।११ = हिय, हृदय  
 हिडोल २।२४६ = हिडोल, झूला  
 हिराडए २।११३ = घूमता है, हींड़ता है  
 हिसि ४।३७ = हींस कर  
 हीनि २।१६ = हीन, वचित  
 हेडा २।१७६ = गोस्त (देरी)  
 हरेहिं २।८८ = देखता हैं  
 हेरइ २।६३ = देखता है  
 हेरन्ते २।१३८ = देखती हैं  
 हेरा २।१३५ = हरें, हल्दी  
 है २।१८० = है  
 हुआ २।८ = हुआ।  
 हुआसन १।५७ = हुताशन  
 हुकुकुय २।१६१ = हुकूम  
 हुआउं ३।४ = हुए  
 हो २।११२ = होइ, होता है  
 होञ्च २।१४६ = होता है  
 होइ २।१२ = होता है  
 होए १।८ = होता है  
 होणा २।५६ = होना, होने  
 होसउं ३।३२ = होना चाहिए  
 होसइ १।१५ = होगी  
 हौ १।३६ = मैं

## सहायक साहित्य

१. उपाध्ये, आदिनाथ : लीलावई,कोऊहल, सिंधी जैनग्रंथ माला १६४६ ई०
२. केलाग आर०एस०एन्ः : ए ग्रैमर आव् हिन्दी लैग्वेज, लंदन १८६ ३ई०
३. प्रियर्सन, जार्ज अब्राहम : १. लिग्विस्टिक सर्वे आव् इंडिया भाग १  
२. आन दि मार्टन इगडो वर्नाक्यूलर्स (इंडियन एंटिक्वैरी १६३१-३३)  
३. मैथिली डाइलेक्ट
४. गुरो, पाण्डुरंग : भविसयत्तकहा धनपाल, गायकवाड सीरीज  
बडौदा, १६२३ ई०
५. गुलेरी, चन्द्रधर शर्मा : पुरानी हिन्दी, नागरी प्रचारिणी सभा, पुनर्मुद्रण  
२००५ स०
६. घोष, चन्द्रमोहन : प्राकृत पैगलम, विब्लोथिका इंडिका संस्करण  
१६०२ ई०
७. चटर्जी, सुनीतिकुमार : १. दि ओरिजिन एंड डेवलेपमेंट आव् बैंगाली  
लैग्वेज, कलकत्ता १६२६ ई०  
२. वर्णरत्नाकर की अंग्रेजी भूमिका, विब्लोथिका  
इंडिका संस्करण १६४० ई०  
३. उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा स्टडी सिंधी  
जैन ग्रंथ माला, बम्बई १६५३ ई०  
४. इंडो ऐर्यन एंड हिन्दी, १६४० ई०
८. जिन विजय मुनि : १. उक्ति व्यक्ति प्रकरण सिंधी जैन ग्रथमाला,  
बम्बई  
२. सन्देश रासक, सिंधी जै० ग्र० १६४५ ई०
९. जैन, हीरा लाल : १. पाहुड दोहा, कारंजा जैन ग्रथमाला १६३३ ई०  
२. सावयधम्मदोहा का० जै० ग्र० १६३२ ई०
१०. ठाकुर शिवनन्दन : महाकवि विद्यापति
११. डिवेटिया एन, वी० : गुजराती लैग्वेज एंड लिटरेचर, पूना १६२१ ई०

१२. तेसीतरी एल० पी० : नोट्स आन ओल्ड वेस्टर्न राजस्थानी इडियन् एटिक्वैरी, १९१४-१६ ई०
१३. तगारे, ग० बा० : हिस्टारिकल ग्रैमर अर्बु अपभ्रंश, पूना १९४८ ई०
१४. द्विवेदी, हजारी प्रसाद : हिन्दी साहित्य का आदिकाल, पटना १९५२ ई०
१५. नाहटा, अग्ररचन्द्र : १. वीरगाथा काल का जैन साहित्य, नागरी प्रचारिणी पत्रिका ४६।३  
२. दशार्णभद्र कथा,  
यू० पी० हिस्टारिकल सोसाइटी जर्नल,  
भाग १२
१६. पंसे, एम० जी० : लिग्विस्टिक पिक्नूलियार्डिज ऑव शानेश्वरी बुलेटिन ऑव डेकन कालेज रिसर्च इस्टिट्यूट पूना १९५१ ई०
१७. पिशेल, आर० : ग्रामेटिक डेर प्राकृत स्प्राख्वाँ, स्ट्रासवर्ग १९५० ई०
१८. बानी कान्त काकती : फारमेशन आर असेमीज़ लैग्वेज्
१९. वीगम जान : कैम्परेटिव ग्रैमर ऑव दि ऐरियन लैग्वेज,  
प्रथम भाग १८७२ ई०
२०. भाडारकर, रामकृष्ण गोपाल : विल्सन लेक्चर्स
२१. मायाणी, हरिवल्लभ : सन्देश रासक की अग्रेजी भूमिका
२२. मिर्जा खॉ : ब्रजभाषा ग्रामर, जियाउद्दीन द्वारा सम्पादित शान्ति निकेतन, १९३५ ई०
- २३ मिश्र जयकान्त : हिस्ट्री आरु मैथिली लैग्वेज
- २४—रामलाल पाखेय : आइने अकबरी हिन्दी, सस्करण
- २५—राहुल सांकृत्यायन : १. हिन्दी काव्य धारा, इलाहाबाद, १९४५ ई०  
२. गगा पुरातत्वाङ्क  
३. पुरातत्त्व निबधावली
- २६—लालचन्द्र गाधी : अपभ्रंश काव्यत्रयी, गायकवाड़ ओरियंटल सीरीज बङ्गौदा १९२७ ई०
- २७—लोचन कवि : रागतरंगिणी
- २८—वर्मा, धीरेन्द्र : हिन्दी भाषा का इतिहास, हिन्दुस्तानी एकेडमी, प्रयाग १९४९ ई०

२६. वैद्य, परशुराम : १. प्राकृत व्याकरण (हेमचन्द्र), पूना १९२८ ई०  
 २. जसहर चरित कां० जै० ग्रं० १९३१ ई०  
 ३. महापुराण (पुष्पदन्त) मा० दि० जैन ग्रंथ-  
 माला १९४१ ई०
- ३०—शास्त्री, हर प्रसाद : १. कीर्तिलता, बँगला संस्करण १९२४ ई०  
 २. बौद्ध गान ओ दोहा १९१६ ई०
- ३१—शुक्ल, रामचन्द्र : १. हिन्दी साहित्य का इतिहास, काशी, २००७ सं०  
 २. बुद्ध चरित की भूमिका  
 ३. जायसी ग्रंथावली की भूमिका
- ३१—सक्सेना, बाबूराम : १. कीर्तिलता, नागरी प्रचारिणी सभा १९२९ ई०  
 २. इवोल्यूशन ऑव अवधी
- ३२—हर्मन जाकोबी : भविसयत्तकहा मुचेन, १९१८ ई०
- ३३—हार्नली, रूडल्फ : ग्रैमर ऑव् दि इस्टर्न हिन्दी

### कोष एवं पत्रिकाएँ

१. इडियन ऐंटिक्वैरी
२. जर्नल ऑव दि रायल एशियाटिक सोसाइटी
३. बुलेटिन ऑव डेकन कालेज रिसर्च इंस्टिट्यूट
४. नागरी प्रचारिणी पत्रिका
५. रायल एशियाटिक जर्नल
६. आमेर भाडार प्रशस्ति संग्रह
७. इन्साइक्लोपीडिया ऑव् लिटरेचर, न्यूयार्क
८. विक्रम स्मृतिग्रंथ, उज्जैन